



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2019/ज्येष्ठ 10, 1941

No. 180]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2019/JYAISTHA 10, 1941

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2019

सं. सी.आर.आई.एम./2019— अधिसूचना —जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्टर यथा—भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित हैं जो भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर रखवाएगी तथा समय-समय पर रजिस्टर में संशोधन करेगी और उसे भारत के राजपत्र में और अन्य ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगी। ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किसी प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा।

अतः, अब, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली एतद्वारा निम्न राज्य परिषद्/बोर्ड के प्रारंभ से, जैसाकि तालिका में नीचे उल्लिखित है, तक की अवधि के लिए नामांकित व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय रजिस्टर को संशोधित करता है।

निम्नलिखित राज्यों के चिकित्साभ्यासियों की प्रथम संशोधित सूची का विवरण, जो कि भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में सम्मिलित किया जा चुका है, एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है —

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परिषद्/बोर्ड का नाम	अवधि	केन्द्रीय पंजिका संख्या
1.	राजस्थान	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान	प्रारंभ से अगस्त 2017 तक	UN/RJ/0000001 से UN/RJ/0000758

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में मान्यताप्राप्त अर्हताएं एवं इनके संक्षिप्त नाम सम्मिलित किए गए हैं तथा समय-समय पर इसका अद्यतन किया जाता है।

टिप्पणी:—(1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले

प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए ।

(2) यदि कही अंग्रेजी एवं हिन्दी में भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी को ही मान्य माना जाएगा ।

शमशाद बानो, निबंधक
[विज्ञापन.—III/4/असा./68/19]

अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं निबंधक के नाम

क्र.सं.	पद नाम	नाम
1.	अध्यक्ष	डॉ. देवपुजारी जयन्त यशवन्त अध्यक्ष, सी.सी.आई.एम., 199, शंकर नगर, नागपुर-440010 (महाराष्ट्र)
2.	उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)	डॉ. बी.आर. रामाकृष्णा, अथेरिया हेल्थ पैराडाईज, रु 2479/1, 17 ^{वाँ} मेन, 25 ^{वाँ} क्रॉस, बनाशंकरी द्वितीय स्टेज, बैंगलोर-560070 (कर्नाटक)
3.	उपाध्यक्ष (यूनानी)	डॉ. शेख जुबेर अहमद मोहम्मद इब्राहीम सी-6, लीलाराम भवन, डॉ. अम्बेडकर रोड, दानापाड़ा खार (पश्चिम)-400055 (महाराष्ट्र)
4.	उपाध्यक्ष (सिद्ध)	डॉ. वी.बी. विजयकुमार श्री वर्षा, नन्नत्तुकवु, पोथेनकोड पोस्ट, तिरुवनंतपुरम (केरल)
5.	निबंधक-सह-सचिव	डॉ. शमशाद बानो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, डी. ब्लॉक, नई दिल्ली -110058

सदस्यों के नाम (राज्य के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	सदस्यों के नाम
1.	राजस्थान	वैद्य रघुनन्दन शर्मा, ए -632, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर - 302019 (राजस्थान)
2.	राजस्थान	डॉ. गोविन्द सहाय शुक्ला, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान) करवड, नागौर रोड, जोधपुर, राजस्थान - 342037
3.	राजस्थान	वैद्य कमलेश कुमार शर्मा, 19, काल्या नगर-3, मोरनी मोटर्स के पीछे, सीताबरी, टोंक रोड, जयपुर - 302029 (राजस्थान)

4.	राजस्थान	डॉ. आदम, सोजती गेट के अन्दर, तेलियां मस्जिद के पीछे, जोधपुर, (राजस्थान)
----	----------	--

प्राक्कथन

1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अधीन भारतीय चिकित्सा में शिक्षा एवं चिकित्साभ्यास एवं ऐसे संबंधित मामलों को विनियमित करने हेतु गठित एक सांविधिक निकाय है।
2. भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका भारतीय चिकित्सा की प्रत्येक पद्धति हेतु पृथक-पृथक भाग में चिकित्साभ्यासियों की पंजिका है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भारतीय चिकित्सा की राज्य पंजिका में कुछ समय के लिए नामांकित हैं तथा जिनके पास कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता है।
3. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का रखरखाव करेगी एवं समय-समय पर इसका पुनरीक्षण करेगी और उसे भारत के राजपत्र में, और अन्य ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगी। ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1972 का 1) के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा भारत के और राजपत्र में प्रकाशित किसी प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा।
4. भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना/रखरखाव — प्रत्येक राज्य परिषद्/बोर्ड यथाशीघ्र, केन्द्रीय परिषद् को भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर को तीन मुद्रित प्रतियों का प्रदाय करेगा, तथा प्रत्येक राज्य परिषद्/बोर्ड भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में समय-समय पर किए गए सभी परिवर्धनों और अन्य संशोधनों की इत्तिला केन्द्रीय परिषद् को अविलंब देगा।
5. **भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण** —केन्द्रीय परिषद् का रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की रिपोर्ट की प्राप्ति पर अथवा विहित रीति से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर उसका नाम भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट कर सकेगा, परन्तु यह तब जब रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि सम्बन्धित व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन पात्र हैं।
6. **भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर के नामों का हटाया जाना —**
 - (1) यदि भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत किसी व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर में से, किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त भारतीय चिकित्सा के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में हटा दिया जाए तो केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर से ऐसे व्यक्ति का नाम हटाए जाने का निर्देश देगी।
 - (2) जहां भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर से किसी व्यक्ति का नाम उसके पास अपेक्षित चिकित्सीय अर्हताएं न होने के आधार से भिन्न किसी आधार पर हटा दिया जाए अथवा जहां अपना नाम भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किए जाने के लिए उक्त व्यक्ति का आवेदन नामंजूर कर दिया जाए वहां विहित रीति से और ऐसी शर्तों के अधधीन, जो विहित की जाए, और जिनके अन्तर्गत फीस के संदाय की शर्त भी है, केन्द्रीय सरकार की अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय, जो केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात दिया जाएगा, राज्य सरकार तथा भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर की तैयारी से संबंधित प्राधिकारियों पर बाध्यकर होगा।
7. **उन व्यक्तियों के विशेषाधिकार जो भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में नामावलिगत हैं —**

उन शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें कुछ मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भारतीय चिकित्सा के व्यवसाय के संबंध में इस अधिनियम में दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में तत्समय हो, अपनी अर्हताओं के अनुसार भारत के किसी भाग में, भारतीय चिकित्सा का व्यवसाय करने का तथा कोई व्यय, औषधियों या अन्य साधनों की बाबत प्रभार या कोई फीस, जिसका वह हकदार हो, ऐसे व्यवसाय की बाबत विधि के सम्यक् अनुक्रम में वसूल करने का हकदार होगा।
8. **अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण —**
 - (1) यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में हो, किसी चिकित्सा में प्रवीणता के लिए कोई ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अर्हता अभिप्राप्त कर ले, जो मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता हो तो वह विहित रीति से इस निमित्त किए गए आवेदन पर, इस बात का हकदार होगा कि वह ऐसी अन्य उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अर्हता कथित करने वाली प्रविष्ट भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में अपने नाम के संबंध में या तो पूर्वतर की गई किसी प्रविष्ट के स्थान पर या उसके अतिरिक्त करा ले।
 - (2) भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत प्रविष्टियां भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तित की जाएंगी।
9. **भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में नामवलिगत व्यक्तियों द्वारा निवास तथा चिकित्सा-व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन का सूचित किया जाना —**

भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति अपने निवास या चिकित्सा-व्यवसाय के स्थान का अन्तरण केन्द्रीय परिषद् को और संबंधित बोर्ड को, उसे अन्तरण के नब्बे दिन के भीतर, सूचित करेगा और ऐसा करने में असफल होने पर केन्द्रीय परिषद् या बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेने का उसका अधिकार, केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा, या तो स्थायी रूप में या ऐसी कालावधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, समपहृत किया जा सकेगा।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 1970 की धारा 23 के अधीन रखा गया भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर
भाग-II— (यूनानी)

केन्द्रीय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
राजस्थान(यूनानी)					
UN/RJ/0000001	535	हनुमान दास अग्रवाल/जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल	उम्दे तुल हुक्मा 1961	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	जे 81, आदर्श नगर, अशोक चौक, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000002	537	अब्दुल रशीद खां/अब्दुल गफूर खां	उम्दे तुल हुक्मा 1963	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	साबिर कॉलोनी प्लॉट नम्बर-8 गंगापोल जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000003	540	हबीब हसन खां/अहमद हसन खां	उम्दे तुल हुक्मा 1962	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	इरफानी दवाखाना छबीलवाली मस्जिद रामगंज बाजार जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000004	556	गुलाम हुसेन / करीम बख्श जराह	उम्दे तुल हुक्मा 1977	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	550 लुहारों का खुर्रा, तोपखाना हजुरी, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000005	578	अब्दुल हकीम खां/अब्दुल कादीर खां	तबीब फाजिल 1966	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	मौहल्ला बहीर, तालाब के सामने, गेहलोद रोड, टोंक 304001 राजस्थान
UN/RJ/0000006	581	इबादुल्लाह खां/असादुल्लाह खां	तबीब फाजिल 1966	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	निवासी अमीनिया यूनानी दवाखाना, पांच बत्ती कालीपलटन रोड जिला टोंक राजस्थान
UN/RJ/0000007	585	गुलाम नबी खां/मौहम्मद इब्राहीम खां	उम्दे तुल हुक्मा 1966	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	दवाखाना रफीक आम चांदपोल बाजार, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000008	590	अजीज हसन खां/अहमद हसन खां	तबीब फाजिल 1965	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	मकान नम्बर 1082, गंगापोल क्लिनिक, चार दरवाजा रोड, गंगापोल, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000009	607	बिरधीचन्द/ शंकर लाल	तबीब फाजिल 1966	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	बाबरो का चौक, पुरानी टोंक, टोंक 304001 राजस्थान
UN/RJ/0000010	655	जहुर अहमद सिद्दीकी /नूर अहमद सिद्दीकी	उम्दे तुल हुक्मा 1961	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	नूरानी दवाखाना पांच बत्ती टोंक , राजस्थान
UN/RJ/0000011	658	शेख महमूद अहमद/हाफिज मंजूर अहमद	तबीब फाजिल 1969	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	हाफिज हटवाडा बाजार मोहल्ला खराडीयान जिला करौली राजस्थान
UN/RJ/0000012	659	आबिद इलाही/मौहम्मद याकूब	उम्दे तुल हुक्मा 1971	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	मेडती सिलावटान सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000013	660	अब्दुल कादिर/मौलवी अब्दुल्ला साहब	उम्दे तुल हुक्मा 1969	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	334, जालूपुरा संसारचन्द रोड के पास, जयपुर 302001 राजस्थान
UN/RJ/0000014	661	शिवचरण गुप्ता/दामोदर लाल गुप्ता	उम्दे तुल हुक्मा 1972	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	दुकान नं0 322 किशनपोल बाजार अजमेरी गेट जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000015	663	अब्दुल कयूम शिरवानी/अब्दुल गफूर	उम्दे तुल हुक्मा 1971	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	निचला बाजार, बौली सवाई माधोपुर राजस्थान
UN/RJ/0000016	670	इब्राहिम/ शेख मौहम्मद	बी.यू.एम.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,	निवासी हुसैन डिस्पेन्सरी

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		अली	एस. 1963	अलीगढ़	झालरापाटन जिला झालावाड़ 326023 राजस्थान
UN/RJ/0000017	678	मौहम्मद इकबाल खां/मौहम्मद इब्राहिम खां	उम्दे तुल हुक्मा 1974	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	दवाखाना रफीक आम, चांदपोल बाजार, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000018	679	हैदर हसन खां/अली असन खां	उम्दे तुल हुक्मा 1974	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	प्लाट नम्बर 1, फाजिल शाह कॉलानी, शनि महाराज के मन्दिर के पास, डाकोतों का मौहल्ला, चार दरवाजा बाहर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000019	684	जलालुद्दीन आरीसर /मौहम्मद सिद्दीकी	तबीब फाजिल 1974	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	दुदिया कलां वाया सनावडा जिला बाडमेर राजस्थान
UN/RJ/0000020	690	मुख्तार अहमद/हाजी करीम बक्ष	तबीब फाजिल 1967	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	मुकाम पोस्ट मोजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000021	693	मुश्ताक अली दिल/हाजी करीम बक्ष	तबीब फाजिल 1968	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	फुटला बाजार, वार्ड नम्बर-18, झुञ्जुनु राजस्थान
UN/RJ/0000022	695	मोहम्मद समीउल्ला/मोहम्मद खलीलुल्लाह शाह	उम्दे तुल हुक्मा 1978	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	मकान नम्बर 4693 , चार दरवाजा , अण्डे वाली गली , घोडा निकास रोड , जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000023	705	शेख मकसूद अहमद/मन्जूर अहमद	उम्दे तुल हुक्मा 1980	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	हाफिज दवाखाना, हटवाडा बाजार, करौली, राजस्थान
UN/RJ/0000024	709	सैयद नजमुद्दीन/सैयद मन्जूर अहमद	तबीब फाजिल 1978	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	मुकाम पोस्ट निवाना वाया इटावा भोपजी जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000025	710	श्रीमती खेरुनिशा/मैफूज अली	तबीब फाजिल 1980	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	निवासी 4450 निशा क्लिनिक, घोडा निकास रामगंज बाजार जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000026	716	गुलाम कुतुब चिश्ती/मौहम्मद्दीन चिश्ती	बी.यू.एम. एस. 1983	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी 34-बी, दीन मन्जिल, दरबार कॉलोनी, लक्ष्मण डूंगरी, ईदगाह, देहली बाईपास रोड, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000027	718	हफीजुद्दीन/मोयनुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 1983	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी उस्मारी क्लिनिक, दर्जियों का रास्ता, बजारा बस्ती, सूरजपोल रोड जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000028	728	मौहम्मद हफीज खां/मौ0 हनीफ खान	बी.यू.एम. एस. 1984	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी खान क्लिनिक, मस्जिद बहादुर फरयान खजाने वालों का रास्ता, चांदपोल जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000029	730	अली रजा खां/अहमद रजा	तबीब फाजिल 1981	राजपूताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर	निवासी बी 194, संजय नगर, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000030	732	सअद अली खान/महमूद अली खां	बी.यू.एम. एस. 1980	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1/105 वन विहार कॉलोनी ईदगाह दिल्ली रोड जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000031	735	सैयद मौहम्मद अली/सैयद वासित अली	बी.यू.एम. एस. 1982	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	इमलीवाला हकीम जगन्नाथ शाह का रास्ता मकान नम्बर 3636 मोतीकटला चार दरवाजा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000032	738	जावेद इकबाल/जलील अहमद	बी.यू.एम. एस. 1982	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी 3848, रास्ता फूटा खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर । राजस्थान
UN/RJ/0000033	739	अदीब अहमद खां/मसीत	बी.यू.एम.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन	निवासी 24807 बंजारा बस्ती,

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		उल्ला खां	एस. 1984	राजस्थान जयपुर	मीठी कोठी का रास्ता कयूम जौहरी चौक, अलजहीन मस्जिद सूरजपोल जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000034	740	महमूद लहसन अंसारी/ शफीक अहमद	बी.यू.एम. एस. 1983	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी वार्ड नम्बर-19, ऐजेन्सी एरिया, मस्जिद के पास देवली, जिला टोंक राजस्थान
UN/RJ/0000035	741	सैयद अबूजर जैदी/आफाक अली जेदी	बी.यू.एम. एस. 1984	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	1-82, वन विहार कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड ईदगाह, देहली बाईपास, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000036	743	कुलत्याज खां/ईदयां खा	बी.यू.एम. एस. 1983	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी ग्राम दुब्बी खुर्द पोस्ट मोखोली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान
UN/RJ/0000037	744	अहसामुद्दीन कुरेशी/मुराज मौहम्मद	बी.यू.एम. एस. 1982	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	2929 चौथा चौराहा कल्याणजी का रास्ता चांदपोल बाजार जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000038	746	गयास अनवर खां/मौहम्मद अनवर खां	बी.यू.एम. एस. 1983	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	मकान नम्बर 26/89 शिकारपुरा रोड, सांगानेर जयपुर 302029 राजस्थान
UN/RJ/0000039	756	अब्दुल्लाह जफर/जफर अहमद सिद्धीकी	बी.यू.एम. एस. 1985	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी 37-सोहराव विलनिक, आदर्श नगर रोड, आदर्श नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000040	760	मौहम्मद हारून खां/सहिमुद्दीन खां	बी.यू.एम. एस. 1985	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	बडी मस्जिद के पास-8, फतेहपुर सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000041	761	रईस अहमद/कमरुद्दीन खां	बी.यू.एम. एस. 1985	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी रईस विलनिक बस स्टेण्ड के पास, पंचायत समिति के पास हिण्डौन सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान
UN/RJ/0000042	764	शबराती खां/इन्शाअल्लाह खां	बी.यू.एम. एस. 1984	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	बदरखा गढमुक्तेश्वर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000043	770	शकील अहमद/अब्दुल हमीद	बी.यू.एम. एस. 1984	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी राजकीय यूनानी दवाखाना परिसर सिटी डिस्पेन्सरी नम्बर-5 कोट गेट जिला बीकानेर 334001 राजस्थान
UN/RJ/0000044	778	तज्जन खा/हबीब उल्लाह	बी.यू.एम. एस. 1984	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी 152 ईदगाह कच्ची बस्ती, दिल्ली रोड, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000045	779	मिर्जा वाहिद बेग/अशाफाक बेग	बी.यू.एम. एस. 1984	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	बाबुर वाली मस्जिद चटीकना, करोली राजस्थान
UN/RJ/0000046	781	मौहम्मद इकबाल/ शहवाज खां	बी.यू.एम. एस. 1984	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	196-र, ओसवालों के न्याति नोहरे के सामने मोहल्ला चौबदारान जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000047	785	शमीम अहमद/मौहम्मद मुस्तफा	बी.यू.एम. एस. 1984	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	प्लाट नम्बर 88 शान्ति प्रिय नगर रोड नन्दन वन जिला जोधपुर 342008 राजस्थान
UN/RJ/0000048	788	मुस्तफा कमाल/मौहम्मद उस्मान आकिल	बी.यू.एम. एस. 1985	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी मकान नम्बर-22, फाजिल शाह कॉलोनी, चारदरवाजा के बाहर, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000049	795	अकील अहमद/अब्दुल शकूर	बी.यू.एम. एस. 1984	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	वार्ड नम्बर-9, राजकीय यूनानी दवाखाना, भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान
UN/RJ/0000050	797	मौहम्मद इस्माईल/जब्बार अहमद	फाजिल उत तिब्ब	जामिया तिब्बिया दारूल-उलूम, देवबन्द, उत्तर प्रदेश	गांव जालोडा पोस्ट राजमथाई तहसील पोकरन जिला

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000051	807	मौहम्मद उस्मान कासमी/ हाजी मीर मौहम्मद	1983 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	जैसलमेर राजस्थान निवासी ग्राम पोस्ट गोमट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 345021 राजस्थान
UN/RJ/0000052	808	मन्सूर अली/रहीम बख्श	1984 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	गंगपुर रोड लालकोठी के पास, नेहरू नगर, कोटा 324006 राजस्थान
UN/RJ/0000053	811	जमील अख्तर/खलीलुर्रहमान	1984 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	102-एफ, इच्छावतान बासबदनपुरा वार्ड नम्बर-73, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000054	813	इलयास अहमद/बशीरुद्दीन	1983 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी 12 बडी मस्जिद के पीछे, छतरी के पास, खो-नागोरियान, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000055	817	लईक अहमद खां/सरदार वली खां	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	654, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000056	820	शमीम उद्दीन फारुकी/फहीम उद्दीन	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	डी 59, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000057	821	नजम जकी/सय्यद अहमद जकी	1987 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	3-ग-19, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000058	829	नूर हसन/अख्तर हसन	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	76-III-18, पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी, सिरौही 307001 राजस्थान
UN/RJ/0000059	830	इसरारुन्नबी/जियाउन्नबी	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	प्लॉट नम्बर-43, धन्नादास की बगीची, सेन्ट्रल जेल के पीछे, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000060	831	शब्बीर अहमद खां/सैय्यद अहमद	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	राजकीय यूनानी दवाखाना, ननेउ वाया फलोदी, जिला जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000061	833	फय्याज अहमद/कमरुद्दीन	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी 58, वार्ड नम्बर-04, मौहल्ला व्यापारियान उस्मानिया मस्जिद के पास, फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000062	834	सफ्दर रजा/मुजफ्फर हुसैन	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	दरगाह सालर पीर कुमारी रोड वाशानी वेहलीमा वासनी नागौर राजस्थान
UN/RJ/0000063	835	अफरोज आलम खां/मौहम्मद शाह खा	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर 322028 राजस्थान
UN/RJ/0000064	836	सैय्यद मौहम्मद नजम/सैय्यद मौहम्मद	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	347 प्रगति नगर कोटडा, अजमेर राजस्थान
UN/RJ/0000065	837	मुहम्मद असलम खां/मुहम्मद बशीर खां	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	राजकीय यूनानी चिकित्साल, चूरू 302033 राजस्थान
UN/RJ/0000066	839	मुहम्मद युसुफ/अनवर अली	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी - ए-199, संजय नगर, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000067	843	महमूद अहसन/मौहम्मद हसन सिद्दीकी	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	189, संजय नगर बी, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000068	846	हमीदुल्लाह खां/मुहीबुल्लाह खां	1986 बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	ग्राम पोस्ट विजवार बढई जिला बस्ती उत्तर प्रदेश

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000069	847	मलिक जलील अहमद/मलिक दीनुल्लाह	बी.यू.एम. एस. 1986	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	राजकीय यूनानी दवाखाना, रोहट पाली, राजस्थान
UN/RJ/0000070	848	अब्दुरउफ कासमी/यार मौहम्मद	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	यार मौहम्मद मस्जिद की ढाणी कानासरिया पोस्ट ननेऊ तहसील फलौदी कानासरिया जोधपुर 342301 राजस्थान
UN/RJ/0000071	849	सरफराज आलम सिदिदकी/ऐजाज अहमद	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	ग्राम खेडवी पोस्ट वावरपुर वाया चांदपुर जिला बिजनोर 246725 उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000072	850	नवाजुल हक/असरारुल हक	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	मकान नम्बर 235/3, मोईन हाउस कुम्हार मौहल्ला, मस्जिद के पास, देहली गेट के अन्दर, अजमेर । 305001 राजस्थान
UN/RJ/0000073	851	फरमान उद्दीन/वहीद अहमद	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	रिडमलसर सिपाहीयान पंचायत पुरोहितान जिला बीकानेर 334002 राजस्थान
UN/RJ/0000074	856	मौहम्मद हाजिक/मौहम्मद जाहिद	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	1 ख 16 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड , जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000075	857	इसहाक अहमद/मौहम्मद बक्श	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी ग्राम पोस्ट गामडी देवल जिला डूंगरपुर राजस्थान
UN/RJ/0000076	858	शमी मुर्हमान सिदिदकी/हफीजुरहमान सिदिदकी	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी द्वारा शाहीन क्लिनिक, ए-6 , चौधरी कॉलोनी, रावल जी की मोरी चार दरवाजा, जयपुर। 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000077	861	सैय्यद शाहिद/सैय्यद हाकिम अली	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	212 महावतो की मस्जिद वार्ड नम्बर-31 तहसील जोधपुर जिला जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000078	863	तनवीर अहमद/अब्दुल कैस	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	मकान नम्बर-39, बी-10, नाई की बगीची, द्वितीय गली, नन्दनवन जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000079	866	अफजल बेग/अनवर बेग	बी.यू.एम. एस. 1986	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी ए-43, कबीर नगर, जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000080	879	रियाज अहमद खां/नजीर मोहम्मद	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	आमेर क्लिनिक आमेर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000081	882	रेहाना खातून/अब्दुला रज्जाक	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी द्वारा सन्तोष जी का मकान, नियर कूकली जनरल स्टोर, घटाईगंज अजमेर राजस्थान
UN/RJ/0000082	883	महबूब अख्तर/अब्दुल हई	बी.यू.एम. एस. 1988	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	मकान नम्बर-113, हुसैन कॉलोनी, बेनीवाल कांटा रामगढ रोड, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000083	885	इज्जत उल्ला खां/हिकमत उल्ला खां	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी प्लॉट नम्बर-131, खैरथल रोड शिव कॉलोनी किशनगढ बास अलवर राजस्थान
UN/RJ/0000084	888	अली हसन खां/अलादीन खां	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	ग्राम आजमनगर पोस्ट करेडा खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000085	893	अशाफाक अहमद/अब्दुल कदीर	बी.यू.एम. एस. 1986	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	ए-59 कबीर नगर प्रताप नगर सूरसागर जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000086	897	बशारत अली जाफरी/राहत अली	बी.यू.एम. एस.	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी ए-33, रवि विहार, मदीना नगर, खौ नागोरी रोड,

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000087	900	जाफरी बहादुर खां/ शरीफ खां	1987 बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	जयपुर 302017 राजस्थान एच0 एम0 टी0 पावर हाउस के पीछे, शरीफ नगर, गली नम्बर-1, ब्यावर रोड अजमेर 305001 राजस्थान
UN/RJ/0000088	901	रामकिशोर शर्मा/जमनालाल शर्मा	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	वर्धमान नगर ए 422 श्याम नगर, हीरापुरा 36 दुकान के पीछे राधाकृष्ण के पास, जयपुर 305001 राजस्थान
UN/RJ/0000089	903	रजा अली खां/ छैला खां	बी.यू.एम. एस. 1988	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	देहली हेल्थ क्लिनिक जगन्नाथ शाह का रास्ता, रामगंज, जयपुर, 203003 राजस्थान
UN/RJ/0000090	907	मोहम्मद उवेस/मोहम्मद आकिल	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी के0 के0 कॉम्प्लैक्स, रामगंज बाजार, फ्लेट नम्बर 12, प्रथम तल, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000091	912	शहादत अली/औसाफ अली	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी जनता क्लिनिक , हनुमान मन्दिर के पास, हसनपुरा, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000092	930	इरफान अली/इकबाल अहमद	बी.यू.एम. एस. 1990	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी बी-825, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000093	953	अब्दुल शकुर/अब्दुल सत्तार खां	बी.यू.एम. एस. 1989	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी - 9 चौधरी कॉलोनी गंगापोल गेट जयपुर 302002 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000094	971	शेख मुहम्मद हसनैन/ मुहम्मद हनीफ	बी.यू.एम. एस. 1989	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी - पुरानी पुलिस लाईन, राई का बाग, जोधपुर 342006 राजस्थान
UN/RJ/0000095	978	रफी अहमद खां/ शफी उल्लाह खां साहब	बी.यू.एम. एस. 1989	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	791, पांचवी चौपासनी रोड, जिला जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000096	981	ईस्लामुद्दीन/बाबू खान	बी.यू.एम. एस. 1989	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	21 ए कृष्णा कॉलोनी वैनीवाल कांटा रामगढ मोढ जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000097	987	अब्दुल रफीक खान/अब्दुल अजीज खान	बी.यू.एम. एस. 1987	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	ए-41, जगन्नाथपुरी, नूरानी मस्जिद के पास, झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000098	988	शाहीन फातमा /अब्दुल हमीद सिद्दकी	बी.यू.एम. एस. 1990	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	214 जियायुद्दीन कॉलोनी, चार दरवाजा वार्ड नम्बर-56, जयपुर, 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000099	989	रफी अहमद बरकाती /मन्जूरुल हसन बरकाती	बी.यू.एम. एस. 1986	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी 8, पदमपुरा हाउस, चारदरवाजा गंगापोल रोड, जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000100	993	मुस्तकीम अहमद गौड/हाजी मोहम्मद इस्लाम	बी.यू.एम. एस. 1989	बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर	निवासी 18/1524 मेरसी कॉलोनी, अपोजिट महामन्दिर रेल्वे स्टेशन नियर बन्शी किराना स्टोर, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000101	999	सिराज अहमद/मुहम्मद लैस	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	91 हॉस्पिटल रोड वार्ड नम्बर-8, बाडी जिला धौलपुर राजस्थान
UN/RJ/0000102	1004	शाहिद लतीफ/लतीफुर्हमान	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मकान नम्बर-99-100, कैलाशपुरी, आमेर रोड, जयपुर, 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000103	1008	नसीम अहमद/रशीद अहमद	बी.यू.एम. एस. 1989	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी फूटा कोट कुण्डा तहसील आमेर जिला जयपुर 302028 राजस्थान
UN/RJ/0000104	1011	शफीक अहमद/मोहम्मद	बी.यू.एम.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मकान नम्बर-13आ2,

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		जरीफ	एस. 1990		बीबी फातिमा कॉलोनी, रामगढ़ रोड, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000105	1012	मोहम्मद शफी/ईदा खां	बी.यू.एम. एस. 1990	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी सी-19, मुरलीपुरा स्कीम वाया विश्वकर्मा क्षेत्र जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000106	1017	सैय्यद जुल्फेकार अली / सैय्यद इफ्तेखार	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 910 जे0 पी0 कॉलोनी, शास्त्री नगर, जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000107	1026	फखरुद्दीन शाह/हसन शाह	बी.यू.एम. एस. 1990	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी झंवरों की गली, पोस्ट बेगू जिला चित्तौड़गढ़ 312023 राजस्थान
UN/RJ/0000108	1029	खलील अहमद/रफीक अहमद	बी.यू.एम. एस. 1990	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी - 53, पटेल नगर, खोनागोरियान, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000109	1032	मौहम्मद मासूम/महमूद हसन	बी.यू.एम. एस. 1990	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	त्यागी क्लिनिक प्लॉट नम्बर सी-674 भट्टा बस्ती शास्त्री नगर जिला जयपुर। राजस्थान
UN/RJ/0000110	1038	मौहम्मद इकरामुद्दीन अगवान/कमरुद्दीन अगवाना	बी.यू.एम. एस. 1990	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्रा0 स्वा0 केन्द्र कन्नोज तहसील मदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
UN/RJ/0000111	1041	रविकान्त/प्रमोद कुमार	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	वाया सी0आर0पी0एफ0 लालवास, मोती कॉलोनी, जयपुर 302027 राजस्थान
UN/RJ/0000112	1046	रागिब हसनैन/सैय्यद अलमदार रजा जैदी	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी राज क्लिनिक नगीना मस्जिद के नीचे आमेर जयपुर 302028 राजस्थान
UN/RJ/0000113	1054	अफरोज अहमद खान/समी उल्लाह खान	बी.यू.एम. एस. 1990	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मारवाड हेल्थ सेन्टर पी-220, जी-सैक्टर, प्रताप नगर, जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000114	1061	खान जलाल याकूब/मौहम्मद याकूब खां	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	69 कृष्णा कॉलोनी, बेनीवाल कांटे के पास, रामगढ़ रोड़ जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000115	1063	इकबाल मौहम्मद/कासम मौहम्मद	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी ग्राम पोस्ट बडलियावास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा राजस्थान
UN/RJ/0000116	1064	निसार अहमद/अब्दुल वहीद	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सी-321, सी-ब्लॉक, विद्याघर नगर, बस स्टेण्ड के सामने, वार्ड नम्बर-69, जयपुर 302023 राजस्थान
UN/RJ/0000117	1065	महमूद अहमद/इकबाल अहमद	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	20-ए, जगदीश कॉलोनी, न्यूरामगढ़ मोड़ आमेर रोड़ जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000118	1067	ऐजाज मुर्तजा/मुनाशिश हुसैन	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी प्लॉट नम्बर-217, इंसरी मंजील, अग्रवाल कॉम्प्लेक्स, नियर रामगंज चौपड़, जयपुर 302029 राजस्थान
UN/RJ/0000119	1069	बलदेव राज ठकराल/देसराज ठकराल	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	एफ-11, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000120	1073	ओम प्रकाश भाटिया/गोपी चन्द भाटिया	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी प्लॉट नम्बर-595 सिन्धी कालोनी आदर्श नगर जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000121	1074	जाहिद अली खां /एम0 बी0 खान	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	द्वारा बुन्द खां (सर्किट हाउस वाले) स्टेडियम सिनेमा के पीछे, उदय मन्दिर, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000122	1078	रशीद अख्तर/मौहम्मद नसीम	बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी प्लॉट नम्बर-13-बी, पुरानी पुलिस लाईन, बैंक

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
			1992		कॉलोनी, सनसिटी पब्लिक स्कूल के पास, राई का बाग, जोधपुर 342006 राजस्थान
UN/RJ/0000123	1079	रिजवान मोहम्मद खां/इकबाल मौहम्मद खां	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी - 19/87 रमजानजी का हत्था, एकता नगर, नादडी मण्डार जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000124	1084	मोहम्मद नासिर/गुलाम मोहयुद्धीन	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जी0 एम0 नर्सिंग होम हसनपुरा-ए जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000125	1085	सैयद वसीम अहमद/सैयद वकील अहमद	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बम्बाबरी गुलजारपुरा वार्ड नम्बर-46, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000126	1103	अब्दुल अजीज खां /अब्दुल करीम खां	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मकान नम्बर-38-ए, बापू कॉलोनी, उमराव खा पेद्रोल पम्प के पीछे, चौपासनी रोड, जोधपुर। राजस्थान
UN/RJ/0000127	1107	शकील अहमद खां /जमील अहमद खां	बी.यू.एम. एस. 1990	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी गोलनाडी, उम्मेद चौक, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000128	1108	इमरानुद्धीन अहमद खां/फखरुद्धीन अहमद	बी.यू.एम. एस. 1993	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लाट नम्बर 202 गली नम्बर 5 राजीव गांधी कालोनी कमला नेहरू नगर जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000129	1110	जलालुद्दीन खां /बदलशेर खा	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी जी-137, प्रताप नगर, जिला जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000130	1116	जमाल अहमद खां/इप्तिखार अहमद खां	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम सम्मल जिला गोन्डा यू0पी0
UN/RJ/0000131	1120	जावेद अख्तर अंसारी/मोहम्मद मुस्तफा	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बी-135 कमला नेहरू नगर जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000132	1123	मौहम्मद इरशाद खां/मुराद बक्श	बी.यू.एम. एस. 1993	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 2811 जोगियो का टीबा, फूटा खुर्रा, रामगंज बाजार, जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000133	1124	मौहम्मद असलम त्यागी/अशरफ अली	बी.यू.एम. एस. 1993	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	त्यागी मेन्शन सी-189, विद्याधर नगर जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000134	1125	शहनाज परवीन/एम0ए0त्यागी	बी.यू.एम. एस. 1993	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	त्यागी मेन्शन सी-189, विद्याधर नगर जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000135	1129	जगदीश पांडे/डी0 डी0 पांडे	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	15, पांडे निवास राई का बाग जोधपुर 349006 राजस्थान
UN/RJ/0000136	1134	ताहिर हसन/ शब्बीर उलहसन	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नं. 4830, बहराम खान, दादर मार्ग, आप समोज के सामने, घोडा निवास जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000137	1136	मोहम्मद नौशाद/मोहम्मद आयूब खान	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	101-बी, अली नगर, आमेर रोड जल महल जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000138	1141	शकील अहमद/जीमल अहमद	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2/26, वन बिहार कॉलोनी दिल्ली बाईपास जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000139	1142	मोहम्मद अकरम/हसमत अली	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	80-81, फ्रेन्ड्स कॉलोनी, रामगढ रोड जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000140	1143	शाहिदा बेगम/मकसूद अली	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	शकील अहमद 2/26, वन विहार कॉलोनी देहली बाईपास

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000141	1153	मोहम्मद इसराईल/जाहिद हसन	1991 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जयपुर राजस्थान कामा कागजी गली नं. 3 नागौरी गेट जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000142	1154	असलम परवेज/रियाज हुसैन	1990 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	क्वार्टर नं. ए0 एन0 एम0 प्रथम सी-एच-सी-कैम्प थानागाजी जिला अलवर राज0 राजस्थान
UN/RJ/0000143	1157	मौ0 ताबिस खान/मा0 शफी खां	1992 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 7/97 मालवीय नगर, जयपुर वार्ड नम्बर-37, जयपुर। 302017 राजस्थान
UN/RJ/0000144	1165	मोबिन हसन/मंजूर हसन	1997 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बी-29 कृष्णा कॉलोनी रामगढ रोड जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000145	1170	हसन रजा /अहमद रजा	1992 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	रजा दवाखाना मोती डुगरी रोड लाल कोठी थाने के पास जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000146	1171	मो0 अकरम कुरेशी /हाफिज नसीरुददीन	1992 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लाट नं.143, भौमियाजी की छतरी आदर्श नगर जयपुर . राजस्थान
UN/RJ/0000147	1184	अशरफ अली बेग /मुबारक अली बैग	1992 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	93/225, जेपी कॉलोनी नं. 2, डंगरी वार्ड नं. 54 जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000148	1189	अशोक कुमार झालानी /द्वारका प्रसाद झालानी	1993 बी.यू.एम. एस.	डाक्टर हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर	6 एन.सी. महावीर नगर, प्रथम नारकोटिक्स कॉलोनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
UN/RJ/0000149	1191	सहनवाज हुसैन/अब्दुल लतीफ	1987 बी.यू.एम. एस.	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	91, वन विहार कॉलोनी ईदगाह जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000150	1192	सविता जायसवाल /नवल किशोर ममोर	1981 बी.यू.एम. एस.	डाक्टर हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर	ए-53, जय माता वैष्णो नगर ए गजसिंहपुरा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000151	1194	तारिक हुसैन / शोकत हुसैन	1994 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कुचामन की हवेली के पास 445 चान्दना भाकर गली नं. 13 कमला नेहरू जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000152	1195	राजेन्द्रकुमार शर्मा /रामनारायण शर्मा	1996 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 34/226 वेनीवाल बाग के पास गुजर घाटी जलमहल आमेर रोड जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000153	1196	नासिर हुसैन /सैयद आरीफ हसन	1994 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ए-39, अमृतपुरी आर.ए.सी. रोड घाटगेट जयपुर . राजस्थान
UN/RJ/0000154	1197	सैय्यद मुमताज अली / सैय्यद बासित अली	1997 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	3636 , जगन्नाथ शाह का रास्ता हाण्डीपुरा चार दरवाजा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000155	1198	सैयद मोहसिन अली / सैयद बासित अली	1997 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	3636 जगन्नाथ शाह का रास्ता हाण्डीपुरा चार दरवाजा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000156	1199	अदीबा परवीन /जमीरुद्दीन	1996 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	23, उत्तरी सुन्दरवास विद्या विहार कॉलोनी जिला उदयपुर . राजस्थान
UN/RJ/0000157	1200	कदीम कुरेशी /तमीरुद्दीन कुरैसी	1996 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	अब्दुल लतीफ खान, 56, सामने विलोची मस्जिद वासबदनपुरा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000158	1201	अनीस अहमद सिद्दीकी /हिदायतुल्ला	1996 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	अजीम कॉलोनी, जैतारण जिला पाली 306302 राजस्थान
UN/RJ/0000159	1203	निकहत परवीन	1992 बी.यू.एम.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1557, खाचरिया हाउस,

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		/ मुशर्रफ रिजवी	एस. 1992		गंगापोल जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000160	1216	सरवर खां/ सादुल खा	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सहरियावास, मुकाम व पोस्ट लांडनू जिला नागौर राजस्थान
UN/RJ/0000161	1217	मोहम्मद सलीम / मोहम्मद इस्माईल	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	5434, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000162	1219	एजाज अहमद खां / इरशाद अहमद खां	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	59, संजय नगर-डी, जोशी मार्ग, कालवाड रोड झोटवाड़ा, जयपुर 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000163	1227	नसरुद्दीन / मुहम्मद इसहाक खान	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सज्जनगढ जिला बांसवाडा राजस्थान
UN/RJ/0000164	1228	सैयद जाकिर हसन / सैयद शकिर हसन	बी.यू.एम. एस. 1994	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मौहल्ला सादात मालपुरा जिला टोंक राजस्थान
UN/RJ/0000165	1232	अब्दुल रउफ शैफी / छुट्टन खां	बी.यू.एम. एस. 1993	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नं. 616, बालाजी का रामगंज जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000166	1234	मिर्जा जकरुल्लाह बेग/ मिर्जा नईम उल्लाह बेग	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम अलनपुर पोस्ट इतिकागंज, टाडा जिला अम्बेडकर नगर यु0 पी0
UN/RJ/0000167	1235	अरशद अली/ अनवर अली	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नं.229, निहारियों की गली, उदयमन्दिर जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000168	1236	इक्तेयाज हसन/ सैयद मीरहसन	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम व पोस्ट परसा तहसील सिराथू जिला इलाहाबाद यू0 पी0
UN/RJ/0000169	1237	मोहम्मद असलम असांरी / अली मुल्ला अंसा	बी.यू.एम. एस. 1993	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	39, मोती नगर, हबीब मार्ग, अजमेर रोड जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000170	1240	काजी एजाज अहमद उस्मानी	बी.यू.एम. एस. 1994	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2823, कल्याण जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000171	1247	सैयद यासीन अशरफ / सैयद सरफराज हुसैन	बी.यू.एम. एस. 1994	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बाबारामदेव कॉलोनी, मैन बस स्टेण्ड के पीछे पो0 नवेरा बावडी जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000172	1248	मोहम्मद इसराद/ मेहंदी हसन	बी.यू.एम. एस. 1994	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कुम्हारिया कुआ , खाण्डा फलसा , पट्टा निवास , हवेली के सामने , हनीफ पोल , जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000173	1249	जाकिर हुसैन/ हसन मोहम्मद	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सी-214, हिलाल रोड, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर जयपुर , राजस्थान
UN/RJ/0000174	1251	सिराजुद्दीन/ जुम्मा खा	बी.यू.एम. एस.1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम व पोस्ट अचरोल जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000175	1252	बलबीर सिंह / चन्दाराम	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	18, इन्जिनियर्स कॉलोनी, जिनियस स्कूल के पीछे , पांच्यावाला, सिरसी रोड, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000176	1253	तौकीर अहमद / मोहम्मद उस्मान	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पी.पी.-18, विवेकानन्द कॉलोनी, मुक्ति मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर 302004 राजस्थान
UN/RJ/0000177	1254	सरफराजुद्दीन अफजल / हनीमुद्दीन निसार	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	द्वारा जेड एसलम अडवोकेट खाईपाडा पुलिस कोतवाली के सामने बारां राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000178	1256	उवैस अख्तर / बसी उल्लाह	बी.यू.एम. एस. 1994	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	149-ए, हुसैन कॉलोनी, बेनीवाल काटा, जल महल जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000179	1259	मोहम्मद इब्राहिम / मोहम्मद शरीफ	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम पोस्ट ककोड, तहसील उनियारा जिला टोंक 304024 राजस्थान
UN/RJ/0000180	1260	मुख्तार अली मुगल / उस्मान गनी	बी.यू.एम. एस. 1993	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	वार्ड नम्बर-5, बास तेलियान पोस्ट व जिला चूरु 331001 राजस्थान
UN/RJ/0000181	1261	मुबारक अली मुगल / उस्मान अली	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	वार्ड नं0 / 20, नई सडक भरतीया कुए के सामने, दूसरा चौराहा, चुरु 331001 राजस्थान
UN/RJ/0000182	1263	सैयद मंसूर अली / मंजूर अली	बी.यू.एम. एस. 1993	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	काजीपाडा टोडाभीम जिला करोली 321611 राजस्थान
UN/RJ/0000183	1268	सिदाकत हुसैन / अब्दुल रशीद	बी.यू.एम. एस. 1990	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	7, चौधरी विहार, कॉलोनी गंगापोल वार्ड नं.51 जयपुर . राजस्थान
UN/RJ/0000184	1271	मोहम्मद उस्मान सिद्धीकी / मोहम्मद रफीक सिद्धीकी	बी.यू.एम. एस. 1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	183, सुनार ढाकूरपाडा, नादनपुर बसेडी जिला धौलपुर राजस्थान
UN/RJ/0000185	1280	मोहम्मद अहसान / मोहम्मद याकूब	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	652, मेहनत नगर, नियर मक्का मस्जिद हरमाडा जयपुर . राजस्थान
UN/RJ/0000186	1282	आफताव हुसैन / अल्ताफ हुसैन	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ए-47, शान्ति कॉलोनी, घाट की गुनी जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000187	1284	सरकार हैदर / आले हसन	बी.यू.एम. एस. 1991	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	644 बिहारी रोड नजदीक शिला बावडी हाण्डीपुरा आमेर जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000188	1285	निर्मल कुमार टांक / रामकिशोर शास्त्री	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पीपाड-शहर जोधपुर 342601 राजस्थान
UN/RJ/0000189	1287	सरफराजुल इस्लाम अन्सारी / अब्दुल अजीज अन्सारी	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी तौसीफ क्लिनिक, मकान नम्बर-2376, कांवटियों का खुर्रा रामगंज जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000190	1288	मुजफर हुसैन / मुन्नवर हुसैन	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी - 1501 मदीना मस्जिद, चन्द्र शेखर की बगीची, नाहरी का नाका, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000191	1289	मोहम्मद सफवान / ताहिर खान	बी.यू.एम. एस. 1994	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	27-54-ए, चावबुक सवाराम तहसील व जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000192	1290	शौकत अली / मुहम्मद सईद	बी.यू.एम. एस. 1994	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	अरावली विहार प्लाट नम्बर एम 485, ईदगाह कॉलोनी के पास, वार्ड नम्बर-10, लालसोट रोड, जिला दौसा 303303 राजस्थान
UN/RJ/0000193	1291	अहतशाम अली / मुनकाद हुसैन	बी.यू.एम. एस. 1994	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	40, चौधरी गंगापोल गेट जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000194	1292	हरीश कुमार धाभाई / मनोहर लाल धाभाइ	बी.यू.एम. एस.1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	शिवसदन मोची मार्केट शिवांची गेट जिला जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000195	1300	अब्दुल जाहिर / अब्दुल कादिर	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम पोस्ट मलारना झूंगर जिला सवाई माधोपुर 322028 राजस्थान
UN/RJ/0000196	1301	हनीस खान मंसूरी / सुवा	बी.यू.एम.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम मण्डावरा फागी, जयपुर

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		खान मन्सूरी	एस. 1997		राजस्थान
UN/RJ/0000197	1302	परवेज अख्तर/मुज्जफर अहमद	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी ए-18 तिवाडीजी का बाग, आदर्श नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000198	1303	इब्राहिम खान/करीम खान	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्रथम पहाडगंज कॉलोनी-प्रथम पोस्ट बी0एस0एफ0 मण्डोर रोड जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000199	1307	सिराजुलहक खान/दारुद खान	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 174 संजय नगर-डी, जोशी मार्ग झोटवाड़ा, जयपुर, 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000200	1314	फिरोज अहमद/जमील अहमद	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	4288 बी, नर्सिंग कॉलोनी, पुरानी बस्ती, नाहरगढ़ कीले के नीचे, जयपुर 302001 राजस्थान
UN/RJ/0000201	1318	जाहिद अर्शद कादरी/जुबैर अहमद	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 90/6, इछावतान बास बदनपुरा जयपुर, 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000202	1321	फेजान हुसैन खान/शमशाद हुसैन खान	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 5 हमजा मन्जिल, फकीरों की डूंगरी, आमेर रोड, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000203	1325	योगेश कुमार गुप्ता/बालकिशोर दास गुप्ता	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी ग्राम पोस्ट जडौदा पाण्डा सहारनपुर उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000204	1326	तसलीम बानो/जफर खान	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट न0 बी-82 अमृतपुरी घाटगेट जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000205	1329	मुहम्मद अलीम खान/मुहम्मद नसीर खान	बी.यू.एम. एस. 1994	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	94 हजरत अलीनगर रामगढ़ मोड़ जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000206	1330	अब्दुल मुईद/अब्दुल सुबुर	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	79 आजाद नगर, डूंगरपुर राजस्थान
UN/RJ/0000207	1331	सरदार खां/अब्दुल अजीज खां	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	549 मोती नगर, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000208	1339	सविया सुल्ताना/जलील अहमद	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जे0एस0-2, शमशान चौराहा, आदर्श नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000209	1341	इरसाद अहमद/जनाब इसरार अहमद	बी.यू.एम. एस. 1993	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवास मकान नम्बर 1566, कमेला गली, एम0 डी0 रोड, जयपुर। 302004 राजस्थान
UN/RJ/0000210	1343	मौहम्मद अशरफ/कमरुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 1994	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	शिफा क्लिनिक, शान्ति कॉलोनी, प्लॉट नम्बर-106, गोलछा गार्डन जवाहर नगर, आगरा रोड़, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000211	1344	दिलशाद अली/मोहम्मद युनूस	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मौहल्ला कांजी सराय चान्दपुर, बजनौर उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000212	1347	चन्द्रवीरसिंह राठौड़/शिवजीसिंह राठौड़	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 16, रामनगर गुलाब नगर-सी के पास आर0टी0ओ0 ऑफिस के पीछे, जोधपुर 342006 राजस्थान
UN/RJ/0000213	1348	मो0 इरफान खान/सनाउल्लाह खान	बी.यू.एम. एस.1992	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	232 बलदेव नगर, मसरिया जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000214	1352	तहसीन आलम/मशकूर आलम	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	37 वार्ड नम्बर-51, चौधरी बिहार कॉलोनी, तहसील व जिला जयपुर राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000215	1353	राहत उमर चौहान/मौहम्मद उमर चौहान	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी के-7, रोशन रजीडेन्सी फतह टीबा आदर्श नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000216	1354	सैयद शफीक अहमद/असगर अहमद	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1150, वन विहार कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड ईदगाह जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000217	1357	मशकूर अहमद/सैयद महमूद अहमद	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1/19, वन विहार कॉलोनी, ईदगाह, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000218	1358	मौहम्मद आमिर खां/शफाकत उल्ला खां	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1111 वन विहार कॉलोनी, दिल्ली बाईपास ईदगाह जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000219	1364	मुहम्मद शोएब आजमी/इखलाक अहमद	बी.यू.एम. एस. 1985	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	निवासी 196-बी, हजरत अली नगर, रामगढ मोड, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000220	1367	मौहम्मद युनस/अब्दुल वासे	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	गजदर मौला बख्श जी की पोल मोहल्ला मेडती सिलावटान का बास जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000221	1374	नसीम अहमद/अब्दुल हई	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मकान नम्बर-2सी, गणेश विहार, वार्ड नम्बर-73, अहमद नगर, ईदगाह बाईपास रोड, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000222	1379	मौहम्मद हलीम खां/मौहम्मद शफीक खां	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	राज हैल्थ सेन्टर, बरकतुल्लाह खॉ कॉलोनी, दल्ले खॉ पेट्रोल पम्प के पीछे, आखलिया चौराहा, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000223	1380	विजय कुमार पचार/रघुनंदन पचार	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ढाणी आशा तहसील तारानगर, चूरू राजस्थान
UN/RJ/0000224	1383	मौहम्मद अता उल्लाह खां/इबादुल्लाह खॉ	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बाबु शिफा पांच बत्ती कालीपलटन रोड, टोंक राजस्थान
UN/RJ/0000225	1384	मौहम्मद साजिद/मौहम्मद अली	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्रथम गली, कर्नल साहब की हवेली की गली उदय मंदिर, जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000226	1385	जाकिर हुसैन/जहीर मौहम्मद	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	द्वारा एम0एच0काजी मोहल्ला लाईकान शरीफ चौक जिला जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000227	1386	इबादुल्लाह जफर/जफर अहमद सिद्दीकी	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	140 कृष्णा कॉलोनी नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000228	1387	संजय श्रीवास्तव/बृजमोहन श्रीवास्तव	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	40 सूय नगर, इण्डेन गैस गोदाम रोड, बीजेपी कॉलोनी के पास, महामन्दिर जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000229	1388	अब्दुल वदूद खां/अब्दुल सत्तार खां	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 10/40, 37 डी0 डी0 पी नगर, मधुवन कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज जिला जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000230	1389	अब्दुल रऊफ/अब्दल अजीज	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी नीलगरो की मस्जिद के पास, मोहल्ला सादात, मालपुरा, जिला टोंक 304502 राजस्थान
UN/RJ/0000231	1390	मौहम्मद अय्यूब अब्बासी/स्वालेह अब्बासी	बी.यू.एम. एस. 1995	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मोहल्ला हाडीपुरा वार्ड नम्बर-10, आमेर जिला जयपुर राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000232	1393	इरशाद उल हक/अब्दुल जलील खान	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	3 सोफिया गर्ल्स कॉलेज के पास, घाटगेट जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000233	1398	रमजान अली खान/रईस मौहम्मद खान	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	उडमार पोस्ट जमुनी बस्ती उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000234	1399	नासिर हुसैन/मौहम्मद हुसैन	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी वार्ड नंबर-5, मदारशाह की बाडी मांगरोल जिला बारां राजस्थान
UN/RJ/0000235	1400	मलिक मौहम्मद अब्दुर खां/मलिक मौहम्मद	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मरुधर क्लिनिक, नागौरी गेट, कांगा रोड, जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000236	1402	सलाउद्दीन खां/रफातुल्लाह खान	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ठाकुर साहब की आंधली के पास, मातभर रोड, मकराना नागौर 341505 राजस्थान
UN/RJ/0000237	1404	मौहम्मद इकबाल/मोहम्मद हनीफ	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 2/64 नगर निगम कॉलोनी, आमेर रोड, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000238	1406	बिरधीलाल सुनारिया/कन्हैयालाल सुनारिया	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम मांगरोल वार्ड नम्बर-7, जिला बारां-325215 राजस्थान
UN/RJ/0000239	1407	मौहम्मद इकबाल सिद्दीकी/अब्दुल हमीद सिद्दीकी	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी प्लॉट नम्बर-9, मोरजी का बाग, एम0आई0 रोड, जयपुर 302001 राजस्थान
UN/RJ/0000240	1412	शम सुल्लाह खां /गुलाम सरवर खान	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 15/87 पुरानी मस्जिद के सामने, एकता नगर, रमजानजी का हत्था बनाइ रोड जिला जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000241	1415	राहत जान /अब्दुल मजीद	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बालोतरा जिला बाडमेर राजस्थान
UN/RJ/0000242	1416	शकील अली जैदी/काजिम अली जैदी	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी के-41 कृष्णापुरी, मीणा का टीबा नाहरी का नाका जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000243	1418	नाज मियां/मौहम्मद मीयां	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1023 गंगापोल रोड, चार दरवाजा, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000244	1419	मौहम्मद इरफान /मौहम्मद यामीन	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी ग्राम पोस्ट नवरंगपुरा वाया मेड़ तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000245	1421	मौहम्मद असलम/इबारत हुसैन	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पब्लिक क्लिनिक बाबा रामदेव रोड, मसूरिया जिला जोधपुर, 342003 राजस्थान
UN/RJ/0000246	1422	अनीस अहमद/रशीद अहमद	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी ए-97, गांधी बिहार, अक्सा मस्जिद, खो नागोरियान, जगतपुरा रोड, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000247	1424	मौहम्मद शमीम अहमद हाशमी /अब्दुल हफीज	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी बम्बा मौहल्ला, छोटी मस्जिद के पास, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000248	1425	हवीवुन्निसा/सनाउल्लाह खान	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी सूरजपोल, श्रीपुरा वार्ड नम्बर-48 जिला कोटा जक्शन 324006 राजस्थान
UN/RJ/0000249	1426	हिफजुर्रहमान/मौहम्मद अब्दुर्रहमान	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	नीलग्रान का मौहल्ला, वजीरपुर गेट के अन्दर, करौली 322241 राजस्थान
UN/RJ/0000250	1428	तनवीर हुसैन हनीफी /शेख फरीद	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 227 केबाजी का घर, मदीना मस्जिद मकराना जिला नागौर राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000251	1431	मौहम्मद सईद/अब्दुल रशीद	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	706, शिवाजी नगर, कच्ची बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000252	1436	सैयद शब्बीर मौहम्मद/जमालुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी द्वारा पारस जीनगर, जीनगर बाजार, लखारों के चेत के पास, भीनमाल जिला जालोर राजस्थान
UN/RJ/0000253	1439	मौहम्मद हुसैन अंसारी /मौहम्मद यामीन अंसारी	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 922 जे0पी0कॉलोनी, सेक्टर-03, लंकापुरी शास्त्री नगर जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000254	1441	मौहम्मद आदिल गोरी /मौहम्मद साबिर गोरी	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी बॉम्बे मोटर चौराहा, हाजी उमराव खां, पेट्रोल पम्प के पीछे, मक्की मस्जिद के पास, जिला जोधपुर 342001 राजस्थान
UN/RJ/0000255	1442	फहीमुद्दीन/अब्दुल अलीम	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नम्बर-766 रामनगर शास्त्रीनगर जिला जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000256	1443	तैयब हुसैन अंसारी /के0 यू0 अन्सारी	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सेक्टर जी प्लाट नम्बर-17, चौधरी किराना स्टोर के सामने, प्रतापनगर जोधपुर, 342003 राजस्थान
UN/RJ/0000257	1445	कृ० शाहिदा /इसरार अहमद खान	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मकान नम्बर-124, वने विहार कॉलोनी, रहमानिया मस्जिद, जोशी मार्ग, कालवाड़ रोड झोटवाड़ा जयपुर 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000258	1446	मौहम्मद जफर इस्लाम/ शब्बीर अहमद	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 150, फकीर मौहल्ला, ग्राम बसई नवाब तहसील सैफऊ जिला धौलपुर राजस्थान
UN/RJ/0000259	1448	मौहम्मद अबरार खान/अब्दुल गफ्फार खान	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी बागुर वाली मस्जिद के पास, चटीकना वार्ड जिला करौली राजस्थान
UN/RJ/0000260	1449	मुहम्मद आमीन/फूल मौहम्मद	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मुहल्ला कुरेशियान वार्ड नंबर-30, मुनीर की चक्की के पास, हलीमा मस्जिद के सामने जिला सीकर, राजस्थान
UN/RJ/0000261	1451	मौहम्मद इसराईल/अमीर हसन	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	व्यापारियों की मस्जिद के पास, रामसर अजमेर राजस्थान
UN/RJ/0000262	1455	मौहम्मद सादिक /मौहम्मद रजोउद्दीन	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मस्जिद मुनिर खां, पावर हाउस रोड, रीगल स्कूल के सामने, टोंक राजस्थान
UN/RJ/0000263	1458	आस मुहम्मद अन्सारी/करीम मुल्लाह अन्सारी	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 129/12, मदेरणा कॉलोनी, मदीना मस्जिद के सामने, तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000264	1459	मौहम्मद असगर पठान/गुलाम अहमद	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मीट मार्केट के पास, मौहल्ला कस्साबान जिला बीकानेर राजस्थान
UN/RJ/0000265	1461	शौकीन अली/फूलेशाह	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी ग्राम मुखवास पोस्ट मेहरादासी वाया मंडावा जिला झुन्झुनू राजस्थान
UN/RJ/0000266	1463	रजिया अन्सारी/मौ० जहीर अहमद	बी.यू.एम. एस. 1998	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	निवासी सदर बाजार वीगोद पोस्ट वीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान
UN/RJ/0000267	1465	इकबाल मौहम्मद	बी.यू.एम.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मुकाम पोस्ट निब्बी

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		छीपा/मोलाबक्स छीपा	एस. 1998		जोध्या तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राजस्थान
UN/RJ/0000268	1466	अन्सार मोईनुद्दीन अजमेरी/अब्दूल गफूर अजमेरी	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी अजमेरी मौहल्ला बैंगू जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान
UN/RJ/0000269	1467	मसीहुद्दीन खां/मौहम्मद याशीन खां	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मिर्नवा मस्जिद के पास, चमनपुरा मतरान नागौर राजस्थान
UN/RJ/0000270	1468	मरहूब हसन/हाफिज महमूद अली	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी वार्ड नंबर-11, इन्दिरा कॉलोनी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ 335501 राजस्थान
UN/RJ/0000271	1469	इरफान अली चौहान/उसमान गनी	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	रंगरेज बिसायतियान धर्मशाला के पास डॉ0 बाडी वार्ड नम्बर पुराना-21 व नया 29 सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000272	1470	रुबीना परवीन/जमीरुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी द्वारा सैयद मोहसिन अली, 31-बजरंग कॉलोनी, गंगापोल गेट बाहर, गंगापोल रोड जिला जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000273	1471	जफर उल्लाह खां/अताउल्लाह खां	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी - 110 फिरोज खान कॉलोनी, जोधपुर शहर, वार्ड नम्बर-2, जिला जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000274	1472	महमूद अहमद/मुहम्मद इलियास	बी.यू.एम. एस. 1996	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	44-क, गोपीवाला बाडा, तुलसी वन रोड, वार्ड नम्बर-7, तहसील बाडी जिला धौलपुर राजस्थान
UN/RJ/0000275	1473	निसार अहमद खां/शकील अहमद खां	बी.यू.एम. एस. 1993	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	निवासी वार्ड नम्बर-20, काजीपाड़ा जिला करौली राजस्थान
UN/RJ/0000276	1474	फैयाज खां/वफाती खां	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	उदय मन्दिर सैकेण्ड्री स्कूल के पीछे उदयमन्दिर आसन जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000277	1475	मौहम्मद असद अली/मौहम्मद अली कासमी	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जुबेरा मस्जिद नई सडक खानिया जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000278	1477	सैयद सलीम अख्तर/सैयद मेहदी हसन	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी कर्नल साहब की हवेली, उदय मंदिर, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000279	1481	रामदयाल मीणा/कन्हैयालाल मीणा	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम धौराला पोस्ट सालोली वाया रैणी तहसील राजगढ़ वाया अलवर 301409 राजस्थान
UN/RJ/0000280	1482	साजिद खां/मौहम्मद अजम खां	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ईमाम बाडा बडी गुवाडी बौली जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000281	1483	मौहम्मद अखलाक जाहू/मौहम्मद युसुफ जाहू	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मोहल्ला हुसैनगंज वार्ड नम्बर-13, नियर मुस्लिम गर्ल्स स्कूल जिला सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000282	1484	नवीद अहमद भाटी/गुलाम मोइनुद्दीन भाटी	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मोहल्ला हुसैनगंज नियर मुस्लिम गर्ल्स स्कूल, वार्ड नम्बर-15, सीकर 332001 राजस्थान
UN/RJ/0000283	1485	शराफत अली बेग/जफर अली बेग	बी.यू.एम. एस. 1998	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी प्लाट नंबर ए-451, बस स्टेण्ड, शास्त्री नगर भट्टा बस्ती जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000284	1486	निजामुद्दीन/जीवन	बी.यू.एम.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी ज्योति नगर, धोद रोड,

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		खान	एस. 2000		सीकर 332001 राजस्थान
UN/RJ/0000285	1488	इकबाल अहमद /मौहम्मद खान	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी कसाईयों की मोरी, बास बदनपुरा, चार दरवाजा बाहर, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000286	1489	गुलनाज अली परवीन /सैयद बासित अली	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	31, बजरंग कॉलोनी, गंगापोल जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000287	1490	रियाजुद्दीन / शमसुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी हैल्थ क्लिनिक पांचवा चौराहा नीडडरावजी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000288	1493	पूनाराम/आईदान राम	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी ग्राम मेलावास पोस्ट मुसालियों स्टेशन सोजत रोड पाली, राजस्थान
UN/RJ/0000289	1494	मौहम्मद जावेद/अलताफ हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 1/116, वन विहार कॉलोनी, देहली बाईपास, ईदगाह, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000290	1497	परवेज आलम/मौहम्मद यासीन	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 244, पेंकर हॉस्पिटल, गणेशपुरी, गलता गेट, जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000291	1499	खलीलुर्हमान/अब्दुल रहमान	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	3594 माउन्ट रोड नाहरी का नाका जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000292	1501	मौहम्मद आजम खान/शफीउल्लाह खान	बी.यू.एम. एस. 2000	जामिया हमदर्द (मानित विश्वविद्यालय) नई दिल्ली	निवासी — बी-53—द्वितीय विस्तार कमला नेहरू नगर जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000293	1502	फिरोज/बशीरुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 1625-26, हादी मन्जिल कमेला गली मोतीडूंगरी रोड जयपुर 302004 राजस्थान
UN/RJ/0000294	1504	फरजाना परवीन/अताउर्रहमान	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 2134 बालजी की कोठी का रास्ता तकिया आदम शाह घाटगेट जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000295	1506	अब्दुल वहीद खां/अब्दुल कदीर	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	गोपालगंज नीम का बाजार के पास हिण्डोनसिटी करौली 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000296	1509	साबिर हुसैन अन्सारी/कल्लू अन्सारी	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	अंसारी 855 जमुना डेयरी सोडाला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000297	1510	मौहम्मद अकरम/अब्दुल सलाम	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 81 नाग तलाई आवास योजना सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000298	1511	लियाकत अली भुट्टो/मौहम्मद हुसेन	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मौहल्ला व्यापारियान रेगरो के कुए के पास सीकर 332001 राजस्थान
UN/RJ/0000299	1513	मौहम्मद अकरम/मौहम्मद अहमद	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2507 बारादारी बलीमरान दिल्ली नई दिल्ली
UN/RJ/0000300	1514	कादिर हुसैन/बदखां	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी काजी मंजिल गांव आसल पोस्ट लखाऊ तहसील व जिला चुरू 331001 राजस्थान
UN/RJ/0000301	1515	अफाकुल इस्लाम अन्सारी /अब्दुल अजीज अंसारी	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 66, बेनीवाल कांटा, हुसैन कॉलोनी, रामगढ़ रोड, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000302	1519	अहमद सिद्दीकी/मौहम्मद	बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी द्वारा मौ0 सईद मकान नम्बर 24366 टीबा पूर्वीयान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		फारुक	2000		रास्ता पहाडगंज, चौकडी पोत खानाहजुरी जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000303	1520	अजीजुर्ब/मलिक मौहम्मद मुस्लिम	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	चोग बनगवा कादिराबाद सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000304	1521	तारिक खान/युनुस खान	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 10 बीजेपी कॉलोनी आई ब्लॉक शास्त्री नगर, वार्ड नम्बर-15, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000305	1522	मौहम्मद फारुक बेग/आफाक बेग	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी - सदर की गली चटीकना करौली 322241 राजस्थान
UN/RJ/0000306	1523	आजम अंसारी/करीमुल्लाह अन्सारी	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 2551, राणा कॉलोनी, कैलाश पथ, नाहरी का नाका, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000307	1524	अली तकी/इर्तिजा हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मकान नम्बर-4665 हाडीपुरा चौकडी रामचन्द्रजी जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000308	1526	अब्दुल सलाम मलिक /मेराजुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 30/13667/81 हरिराशन वाले की गली, कैलाश पथ राना कॉलोनी, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000309	1527	ज्ञान प्रकाश/रामस्वरूप वर्मा	बी.यू.एम. एस. 2001	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी - 16, विजय नगर, गुर्जर घाटी, आमेर रोड, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000310	1528	सैय्यद अब्दुल हुई/मन्जूर अहमद	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी - मुकाम बिचपडी पोस्ट तिगरिया वाया इटावा भोपजी जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000311	1529	मौहम्मद शकील/फतेह मौहम्मद	बी.यू.एम. एस. 1999	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	वार्ड नम्बर-5 भूत बंगले के सामने फतेहपुर रोड सीकर, राजस्थान
UN/RJ/0000312	1531	मौहम्मद गुफरान/साहब जादे अली	बी.यू.एम. एस. 2001	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 22-सी आनन्दपुरी कॉलोनी मानबाग हास्पिटल के पीछे, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000313	1532	शुक्रुल्लाह कासमी/खैराती मीया	बी.यू.एम. एस. 1994	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 99, नागौरी मौहल्ला, वार्ड नम्बर-16, लालसोट रोड, दौसा, राजस्थान
UN/RJ/0000314	1533	सन्तोष कुमार गुप्ता/प्रहलाद कुमार गुप्ता	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लाट नम्बर 22 अरिहन्त नगर जामडोली आगरा रोड जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000315	1537	शादीकुर्रहमान/खालीकुर रहमान	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 51, संगम बिहार कॉलोनी, मण्डी खटीकान, मालियों का मौहल्ला, दिल्ली रोड, जयपुर, 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000316	1542	बाबर हुसेन/जमालुद्दीन	बी.यू.एम. एस.2001	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	लक्ष्मणगंज सिकरी गेट चन्दौसी जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000317	1543	रईस अहमद अन्सारी/ शौकत अली अन्सारी	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नम्बर-2, बहीदा कॉलोनी, मौहल्ला गोरियान, बासबदनपुरा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000318	1546	मुस्तफा हुसैन शेख/अहमद हुसैन शेख	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बडे मीनारों की मस्जिद के सामने सोजत सिटी जिला पाली, राजस्थान
UN/RJ/0000319	1547	फकेर हयात/अहमद हयात	बी.यू.एम. एस.2001	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	हयात मजिल जाल का कुआ रजवन टोंक, राजस्थान
UN/RJ/0000320	1550	लियाकत अली मन्सूरी/मोहम्मद हुसैन मन्सूरी	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	हिन्द क्लिनिक, नददा फान मस्जिद के पास बाबू का टीबा रामगंज जिला जयपुर,

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000321	1552	रहमान खान/रमजान खान	बी.यू.एम. एस.2001	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान निवासी 17, नागतलाई, कच्ची बस्ती, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000322	1555	खालिद अख्तर/जहीरुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 4/6-ए, चन्द्रशेखर आजाद कॉलोनी, गंगापोल गेट के बाहर बदनपुरा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000323	1556	रविन्द्र कुमार/रडमल सिंह	बी.यू.एम. एस.2001	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम पोस्ट उमावास वाया डूमरा जिला झुन्झुनू, राजस्थान
UN/RJ/0000324	1558	मलिक फैयूजाज अहमद /मलिक मोहम्मद फिराहिन	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2/119 वन विहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दिल्ली बाईपास रोड ईदगाह जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000325	1559	अब्दुल सलीम/मोहम्मद अनीस	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	हयात नगर गली नम्बर-2 फिरोजदा रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000326	1562	फरहत अली खान/रफत अली खान	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लाट नम्बर 21, बिलोचियान, बास बदनपुरा, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000327	1563	मोहम्मद शाकिर गौरी /फतेह मोहम्मद गौरी	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	महावतों की मस्जिद के पास नागौरी गेट रोड जोधपुर, 342002 राजस्थान
UN/RJ/0000328	1566	मोहम्मद अलताफ/बाबू खान	बी.यू.एम. एस. 2001	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम खेडी नोएडा जिला गोतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000329	1569	हस्सान हामिद/अब्दुल कवि सिद्दीकी	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	148 वरकाती दवा खाना रामगंज बाजार निकट वडी मस्जिद रेहमानिया जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000330	1570	हनुमान प्रसाद/गुलकन्द	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 42 पंचवटी कॉलोनी, कालावाड रोड, झोटवाडा जयपुर, 303012 राजस्थान
UN/RJ/0000331	1571	मोहम्मद शाकिर खान/मोहम्मद नसीर खान	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पुलिस चौकी के पीछे, छबड़ा गांगोर जिला बारां, राजस्थान
UN/RJ/0000332	1573	आईशा सिद्दीकी /अब्दुल हकीम कुरेशी	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लाट नम्बर 506-ए, नया जालूपुरा शास्त्री नगर जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000333	1575	नौसाद अहमद/अख्तर हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 1-सी-373, कुडी भगतासनी हाउसिंगबोर्ड जिला जोधपुर 342005 राजस्थान
UN/RJ/0000334	1576	सरफराज हुसैन/सज्जाद हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर-93, मानबाग कॉलोनी, दिल्ली बाईपास रोड (शिवशंकर धर्म कांटे के पीछे) जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000335	1577	जीशान अली अन्सारी/कलामुद्दीन अन्सारी	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सेक्टर जी प्लाट नम्बर 17 प्रताप नगर जोधपुर 342004 राजस्थान
UN/RJ/0000336	1578	शायरा बानो/आरिफ अली	बी.यू.एम. एस. 2000	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी शॉप नम्बर 220 के0 के0 कॉम्प्लेक्स प्लाट नम्बर 8 रामगंज बाजार मैन रोड जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000337	1579	अब्दुल मलिक/मकबूल हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लाट नम्बर 9 चौधरी कॉलोनी गंगापोल चार दरवाजा जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000338	1583	सैयद अब्दुल मुजीद/अब्दुल तब्बाव	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ई-2/30 वन विहार कॉलोनी, ईदगाह देहली बाईपास, जयपुर, राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000339	1584	संजय गंजू/शिबन लाल गंजू	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	68/181-ए, माउन्ट रोड मद्रासी बाबा की बगीची के पास, शंकर नगर जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000340	1587	कृपाल सिंह/सुमेर सिंह	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सॉख रोड बड़ा मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर 321201 राजस्थान
UN/RJ/0000341	1589	मोहम्मद जियाउल आरफीन खां /अब्दुल्ला खॉ	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पाल कॉलोनी, माली की कोठी, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000342	1591	मोहम्मद हारुन बेग/आफाक बेग	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सदर की गली चटीकना करौली, 322241 राजस्थान
UN/RJ/0000343	1592	अनवारुल हक/अब्दुल डॉ0 कुरेशी	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लाट नंबर-560-ए, नया जालुपुरा शास्त्री नगर जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000344	1593	बाबू उबैद /मोहम्मद हसीन	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 152/6 डाक्टर्स हाउस मौहल्ला इच्छावतान बासबदनपुरा ईदगाह जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000345	1595	रमाकान्त शर्मा/मदन लाल शर्मा	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मुकाम पोस्ट बीलपुर वाया मनोहरपुर जिला जयपुर 303104 राजस्थान
UN/RJ/0000346	1596	मोहम्मद ताहिर/मोहम्मद सदीक	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 14 मण्डी खटीकान रोड ब्लॉक-10, वार्ड नम्बर-50, चार दरवाजा बाहार जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000347	1598	आफताब अहमद/अनवार अहमद	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	द्वारा बंसल मेडिकल स्टोर, फूटा खोट चौराहा, जिला करौली, राजस्थान
UN/RJ/0000348	1599	सोहराब हुसैन/मौ0 यामीन	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ए-464, जे0डी0ए0 कॉलोनी, नारदपुरा वाया कुण्डा पोस्ट नटाटा जिला जयपुर 302028 राजस्थान
UN/RJ/0000349	1600	शहाबुद्दीन खान /उमरदीन खॉ	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मक्की मस्जिद, चित्तिके कुएँ के पास, वार्ड नम्बर-19, फतहपुर शेखावाटी जिला सीकर, राजस्थान
UN/RJ/0000350	1601	मौहम्मद शाहिद/खुदा बक्श	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 22-ए, रहीम कॉलोनी पाँच हनुमान की गली, चार दरवाजा बाहर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000351	1602	नसीम अहमद अमीर/अमीर उल्ला खॉ	बी.यू.एम. एस. 2004	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी नसीम क्लिनिक, लालसोट रोड, नागौरी पुलिया, जिला दौसा, राजस्थान
UN/RJ/0000352	1604	असअद सईद/सईद अहमद	बी.यू.एम. एस. 2002	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 130/3 कुम्हार मौहल्ला दिल्ली गेट, अजमेर, राजस्थान
UN/RJ/0000353	1605	शाजियां अंजूम/ए0 ए0 रजवी	बी.यू.एम. एस. 2002	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	निवासी 13/6, शहीद अमित भारद्वाज पार्क के पीछे, मालवीय नगर जिला जयपुर 302017 राजस्थान
UN/RJ/0000354	1606	अब्दुल मन्ान/अमीरुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी गाँव हुसैनपुर पोस्ट मूसाखेडा तहसील किशनगढ़ (बास) जिला अलवर, राजस्थान
UN/RJ/0000355	1610	मकबूल अहमद/अब्दुल हई	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 2-सी गणेश विहार अहमद नगर ईदगाह दिल्ली बाईपास जिला जयपुर

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000356	1611	ररुफ अहमद/मकबूल अहमद	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान मकान नम्बर 422 ब्राहमणे का मोहल्ला, बांस बदनपुरा दरगाह कदम रसूल, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000357	1612	जुबैर अहमद/जनाब मोहम्मद अली	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 50-सी/ आर0जी0 कॉलोनी, शिकारियों की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000358	1614	आरिफा/महबूब आलम	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी मकान नम्बर-51, संगम बिहार कॉलोनी, मण्डी खटीकान देहली बाई पास, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000359	1615	हिना जफर/नजमुद्दीन हैदर	बी.यू.एम. एस. 1999	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	निवासी 124 मनिहारो का रास्ता त्रिपोलिया बाजार जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000360	1617	इरफान हुसैन/अनवर हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2001	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ए-101, हजरत अली नगर आमेर रोड़ जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000361	1618	नदीम अहमद/ऐजाज अहमद	बी.यू.एम. एस. 2003	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	51 नदीम अहमद बस स्टेण्ड के पास, निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़, राजस्थान
UN/RJ/0000362	1620	नसीम अहमद/अब्दुल वहीद	बी.यू.एम. एस. 2004	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 248-सी, पांच नीम, बासबदनपुरा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000363	1621	सलीम खान/सुबराती खान	बी.यू.एम. एस. 2004	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी गायों के फाटक के सामने, उदय मन्दिर जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000364	1623	मौहम्मद हारुन/मौ0 यूनुस	बी.यू.एम. एस. 2004	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 303 सादिल मजिल 4 एच0ए0आर0 कॉलोनी, चार दरवाजा, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000365	1626	फैसल हुसैन/अक्तर हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2004	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी प्लाट नंबर 662, रामनगर शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000366	1627	सैयद हुसैन अब्बास आपदी/सैयद जहीर हसन आपदी	बी.यू.एम. एस. 2005	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी आयशा मन्जिल, ब्लॉक नम्बर-2, प्लाट नं0 3 साविर कालौनी चारदवाजा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000367	1629	चेतन सिंह राजावत/विरेन्द्र सिंह राजावत	बी.यू.एम. एस. 2005	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बी-20 चन्द्र नगर वायूसेना केन्द्र के पास गूजर घाटी आमेर रोड़ जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000368	1637	हिना खान/राशि दुल्लाह खॉ	बी.यू.एम. एस. 2003	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर	17-ए, शाहमानी क्लिनिक, गुलशन नगर, सैयद कॉलोनी, चारदरवाजा, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000369	1639	रिजवान अहमद/मोहम्मद यामिन	बी.यू.एम. एस. 2006	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	निवासी दिल्ली क्लिनिक दरगाह बाजार ताला वाया गढमण्डी तहसील जमवारामगढ़ जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000370	1640	जमीर अहमद/जीमल अहमद	बी.यू.एम. एस. 1997	श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	निवासी खान क्लिनिक 105 हुसैन कॉलोनी, बेनीवाल कांटे के पीछे, रामगढ़ मोड़, जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000371	1641	मोहम्मद इमरान/अमीर हसन	बी.यू.एम. एस. 2000	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	निवासी हैलथ क्लिनिक मैन मार्केट मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला: जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000372	1643	हरनाथ सिंह गौरा/ज्ञानाराम गौरा	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम पोस्ट धानकिया तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000373	1644	मौहम्मद आलम/नियाज अहमद	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1057 विजय नगर लंकापुरी शास्त्री नगर जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000374	1646	मौहम्मद शाह आलम/सलीमुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ए-116, वह बिहार कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000375	1648	रामनिवास सिंह गोरा/शिवराय सिंह गोरा	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम पोस्ट धानकिया तहसील व जिला जयपुर, 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000376	1649	अथर जुनेद/हफिजुर्हमान	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	शाहीन विलनिक ए/6 चौधरी कॉलोनी रावल जी की मोरी चारदरवाजा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000377	1651	जाकिर हुसैन/निजामुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	आथूना मौहल्ला ग्राम भीचरी वाया बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर, राजस्थान
UN/RJ/0000378	1652	नरेश पाल यादव/नागर मल	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	एस-97, 4 एस/स्कीम विद्युत विहार आपनो गांव होटल के पास न्यू लोहामण्डी रोड मांचडा कॉलोनी, जयपुर, 302013 राजस्थान
UN/RJ/0000379	1654	साधूनारायण शर्मा/छीतरमल शर्मा	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	द्वारा चौथमल दौन्दर मुकाम पोस्ट भानपुर थल वाया आमैर जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000380	1655	शमशाद हुसैन/नवाब अली खान	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम पोस्ट भगासरा वाया बेसवा जिला सीकर, 332303 राजस्थान
UN/RJ/0000381	1656	मौहम्मद अकील/मौहम्मद अनीस	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जे - 3494 टीबा पूर्वीयान मीठी कोठी का रास्ता सूरजपोल जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000382	1657	आयशा तबस्सुम/जरदार अहमद	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जे - 3494 टीबा पूर्वीयान मीठी कोठी का रास्ता सूरजपोल जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000383	1658	शाहीन अक्तर/इजहार अहमद खॉ	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नम्बर 21 मौहल्ला बिलोचियान बासबदनपुरा जिला जयपुर, 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000384	1659	सीमा फारुक/मौहम्मद फारुक	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 1048 बडी मस्जिद के पीछे, रामगंज बाजार, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000385	1660	मौहम्मद जावेद/बाबुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 9 नवाब कॉलोनी आदर्श विद्या मन्दिर के पीछे रामगंज हिदा की मोरी, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000386	1661	मोहम्मद नासिर हुसैन/अब्दुल अजीज	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	तिवाडी का बाग सूर्या ब्रेकरी के सामने बोस दुकान के पास आदर्श नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000387	1662	शकील अहमद/सरदार अहमद	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 185 अमृतपुरी कच्ची बस्ती टांसपोर्ट नगर घाटगेट जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000388	1663	सलमा खातून/वकार अहमद	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	8/172 विद्याधर नगर जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000389	1664	अकबर खान/याकूब खान	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	366 जगन्नाथपुरी झोटवाडा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000390	1665	कमर जहां/अनवर अली	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	149, मौहल्ला बिलौचियान वास वदनपुरा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000391	1667	नुसरत बानो/जनाब	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	50 सी गुलमन नगर सैय्यद

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		उस्मान खान	एस. 2007		कॉलोनी, गंगापोल जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000392	1669	रियाजुद्दीन/बशीरुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ए - 21 रामगढ रोड चूंगी नाका जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000393	1672	जहां आरा अन्सारी/मौहम्मद इशाक	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	276, मेहनत नगर खातीपुरा रोड जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000394	1673	सबीहा रहमान/कौसर अली	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मदीना क्लिनिक मीठी कोठी का रास्ता सूरजपोल जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000395	1675	गोपाल सिंह तंवर/नारायण सिंह तंवर	बी.यू.एम. एस. 2006	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी प्लाट नम्बर 30 राम नगर गली नम्बर 8 न्यू राजापार्क जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000396	1677	इनामुल्लाह खान/इमदाद हुसैन खान	बी.यू.एम. एस. 2004	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जुलाहों की मस्जिद वाली गली, घांघियों स्कूल के सामने, सिन्धियों का वास, शिवाची गेट, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000397	1687	निदा जावेद/जावेद अली खॉ	बी.यू.एम. एस. 2004	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	डॉ० अब्दुल अजीज कांगजी गुरुद्वारे के पास सिटी सर्वाई माधोपुर राजस्थान राजस्थान
UN/RJ/0000398	1690	शाकिर मोहम्मद/अली मोहम्मद	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	द्वारा डाक्टर्स हाउस मौहल्ला इच्छावतान निकट नूर की टाल जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000399	1691	रुमाना परवीन/एम० आई० खान	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लाट नम्बर 662 राम नगर शास्त्री नगर जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000400	1692	अब्दुल अजीज/अब्दुल शकुर	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर-5434 के०जी०बी० का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000401	1694	मनमोहन खींची/जीवन राम खींची	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	आर 202 लक्ष्मीनारायणपुरी मण्डी खदीकान जयपुर, 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000402	1697	अब्दुल सत्तार/मौहम्मद शफी खान	बी.यू.एम. एस. 2006	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	के-170 वीर दुर्गादत्त कॉलोनी, बलदेव नगर, मसुरिया जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000403	1699	जियाउल हसन/अजीजुल हसन	बी.यू.एम. एस. 1973	कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	वार्ड नम्बर 20 अलीगंज बाजार पोस्ट छबडा जिला बारां राजस्थान
UN/RJ/0000404	1700	सत्यनारायण गुप्ता/वल्लभ दास गुप्ता	बी.यू.एम. एस. 1998	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	निवासी 3/91 गणेश तालाब बसन्त विहार एस. एन. पारीक हॉस्पिटल के पास, कोटा राजस्थान
UN/RJ/0000405	1701	औम प्रकाश बसवाल/रामचन्द्र बसवाल	बी.यू.एम. एस. 2008	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	गोटे वालो की बगीची टांसपोर्ट नगर आगार रोड जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000406	1703	मोहम्मद फहीम खान/गुलम चिस्ती खान	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 4099 मौहल्ला पैकान फूटा खूर्सा रामगंज बाजार जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000407	1704	मोहम्मद शाहिद खान/अशरफ अली खान	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	टेलीफोन एक्वेन्ज भुसावर तहसील बेर जिला भरतपुर राजस्थान
UN/RJ/0000408	1705	मोहम्मद आदिल खान/मौहम्मद इब्राहिम खान	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 3190 निमोडिया हाऊस ठाकुर गीजगढ रोड नवाब का चौराहा, घाटगेट जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000409	1706	मोहम्मद हयात इकराम/अब्दुल कुदूस	बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 1732 जिलेदार की गली, खजाने वालो का

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000410	1707	नाजिया खान/अब्दुल रशीद	2007 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	रास्ता, जयपुर, राजस्थान हाउस नम्बर 194 राई कॉलोनी हसनपुरा-सी जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000411	1708	नूर मोहम्मद सिद्धीकी/ शफीक अहमद	2008 बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी आर-13, बीबी फातिमा कॉलोनी वेनीवाल कॉटे के सामने रामगढ मोड जयपुर, 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000412	1709	शाकिर रहीम/अब्दुल रहीम	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 194 राय कॉलोनी, हसनपुरा-सी जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000413	1710	मोहम्मद शकील/वहीद मोहम्मद	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	12 बासबदनपुरा मोहल्ला, बिलोचियान जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000414	1711	फारुक खान/रफीक अहमद	बी.यू.एम. एस. 2008	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी प्लॉट नम्बर-198 मदीना कॉलोनी, झोटवाडा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000415	1712	मोहम्मद आसिफ /मौहम्मद रमजान	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 26/80 सुभाष कॉलोनी सांगानेर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000416	1713	विजय कुमार सांवरिया/अर्जुन लाल सांवरिया	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर-ए-215 जतीजी की बगीची के पीछे, लक्ष्मीनारायणपुरी मण्डी जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000417	1714	देवेन्द्र कुमार राजौरा/के0 सी0 राजौरा	बी.यू.एम. एस. 2008	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर-151, ऋषि गालव नगर, गलता गेट जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000418	1715	मोहम्मद गुफरान चौहान/मोहम्मद अली चौहान	बी.यू.एम. एस. 2008	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	रमजानजी मेडीकल स्टोर, राम गेट के अन्दर, पाशवारी जिला बीकानेर, राजस्थान
UN/RJ/0000419	1716	मोहम्मद जुबैर/जमालुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 4207 गली माहेश्वरी जगन्नाथ शाह का रास्ता रामगंज बाजार जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000420	1717	इसहाक अहमद खान/अहमद बक्श	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 23-बी जगदीश कॉलोनी गली नम्बर 2 रामगढ मोड आमेर रोड जयपुर, 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000421	1718	सैय्यद असद अली/सैय्यद अहमद अली	बी.यू.एम. एस. 2008	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी ए-3, तिवानी जी का बाग, सूर्या ब्रेकरी के पास, आर्दश नगर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000422	1719	सुहेल खान/जलील खान	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	4307 सेवा पाली क्लिनिक तोपखाने का रास्ता चांदपोल जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000423	1724	जफीरुल हसन/दाउद हसन	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नम्बर 196-बी, हजरत अली कॉलोनी, रामगढ मोड जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000424	1726	मतलूब शाह खॉ /मसूदशाह खॉ	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर-ए-21, गंगापोल गेट के बाहर, कल्लन शाह कॉलोनी, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000425	1730	नाज हैदर/सखा उल हसनैन	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर-664, बगीची छिल्ला बावडी, हाडीपुरा आमेर जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000426	1732	उम्मे जैनब/मौहम्मद शोएब आजबी	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	196 बी हजरत अली कॉलोनी, नीयर करबला, रामगढ मोड जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000427	1735	अब्दुल्लाह खान/नियाज मौहम्मद	बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर-1321, गुर्जर घाटी, आमेर रोड, जिला

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000428	1737	सुरैया सिद्धीकी / नवेद अहमद	2007 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जयपुर, राजस्थान निवासी पांच बत्ती, स्ट्रीट खंगारन, टोंक राजस्थान
UN/RJ/0000429	1738	शोएबुर्हमान / शकीलुर्हमान	2007 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	द्वारा गुलेराना मुजीब मंजिल के पीछे, पायगाह मोती बाग रोड़ जिला टोंक 304001 राजस्थान
UN/RJ/0000430	1739	मोहम्मद दयार नूरानी / गफ्फार हुसैन	2007 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ए-51, चौधरी कॉलोनी, गंगापोल जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000431	1740	यासीन हुसैन / नजाकत हुसैन	2008 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 5/1 धन्ना दास की बगीची, मक्का मस्जिद के पास आदर्श नगर जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000432	1741	वकीलुद्दीन उस्मानी / हकीमुद्दीन उस्मानी	2007 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	23/1569 इन्द्रा कॉलोनी शास्त्री नगर भीलवाड़ा, राजस्थान
UN/RJ/0000433	1742	मोहम्मद मजहर उल्लाह / मोहम्मद हशमत उल्लाह	2007 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	3790 नगीना मस्जिद के पास बाबू का टीबा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000434	1743	अब्दुल राशिद खान / अब्दुल रउफ खान	2007 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कागजी मौहल्ला बडी मस्जिद के पास आलनपुर सवाई माधेपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000435	1744	शबाना बानो / सुलेमान खान	2007 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 1078 सैय्यद कॉलोनी चार दरवाजा गंगापोल जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000436	1745	शादाब अहमद / इरफान अहमद	2007 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 1/130, जवाहर नगर, सत्यसाई कॉलेज के पीछे, जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000437	1749	शोएब अहमद / अतीक अहमद	2007 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	श्री बुन्दू खान मंसुरी मदरसा के पास लौगिया मौहल्ला नवल नगर, अजमेर, राजस्थान
UN/RJ/0000438	1752	अब्दुल ररुफ / मोहम्मद रमजान	2007 बी.यू.एम. एस.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	बडली मंडा ग्राम पंचायत उजलान तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान
UN/RJ/0000439	1753	शाहिद अली खान / एम0 बी0 खान	2007 बी.यू.एम. एस. 1989	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	निवासी 571/31 गली नंबर-8 एच0 ए0 आर0 कॉलोनी चार दरवाजा बाहर जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000440	1754	शाह मोहम्मद / नियाज मोहम्मद	2003 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	द्वारा अब्दूल गफ्फूर छीपा कॉलोनी, नागौरी गेट के बाहर जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000441	1756	रफी अहमद / अली अहमद	2005 बी.यू.एम. एस.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	प्लाट नम्बर 174, संजय नगर-डी, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000442	1757	बशीर अहमद / अब्दूल गफ्फार	1995 बी.यू.एम. एस.	पूना विश्वविद्यालय, पूणे	गफ्फार खान अस्पताल के पास, फतेहपुर शेखावटी, सीकर, राजस्थान
UN/RJ/0000443	1758	महफूज अहमद / शेख महमूद अहमद	2006 बी.यू.एम. एस.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	हाफिज दवाखाना हटवाडा बाजार करौली, राजस्थान
UN/RJ/0000444	1759	सैय्यद सलाउद्दीन मोइनी / सैय्यद सोलत हुसैन	2005 बी.यू.एम. एस.	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसिस, बंगलौर	हवेली दीवान साहब दरगाह बाजार, अजमेर, राजस्थान
UN/RJ/0000445	1760	मोहम्मद इरफान / मोहम्मद युनूस	2002 बी.यू.एम. एस.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2 वहीदा कॉलोनी, मोहम्मद गोरीयान बास बदनपुरा चार दरवाजा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000446	1761	मोहम्मद यासिर / अब्दुल रहीम	2007 बी.यू.एम. एस.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	मुकाम पोस्ट बडली मंडा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर, राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000447	1762	फजरुद्दीन/मोहम्मद यासीन	बी.आई. एम.एस. 1977	आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा पद्धति, परीक्षा निकाय, दिल्ली	ग्राम नाखनौल, पोस्ट ऑफिस टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान
UN/RJ/0000448	1763	सुहेल इकबाल/इकबाल हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2004	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	डॉ० फेजान दरवेश नगर ब्रह्मपुरी थाने के पास, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000449	1764	एस०एम० आलिम/एस०एम० अजवर	बी.यू.एम. एस. 2005	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	एम-465 अरावली विहार उदिस कॉलोनी, लालसोट दौसा, राजस्थान
UN/RJ/0000450	1765	मौ० शमीम खॉं/ शफी उल्लाह खॉं	बी.यू.एम. एस.2002	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	टीबा पूर्वीयान चौकडी तोपखाना जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000451	1766	सैय्यद शमशूल हसन/सैय्यद शमीमुलहसन	बी.यू.एम. एस. 2004	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	मार्फत शफीक बानो टीबा पूर्वीयान चौकडी तोपखाना जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000452	1767	आयशा तबस्सुम/सैय्यद शाहिद अली	बी.यू.एम. एस. 1988	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	पुराने राजस्थान पत्रिका के सामने आसन उदय मंदिर जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000453	1768	भगवान सिंह/रामप्रसाद	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम पोस्ट ब्रह्मबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000454	1769	शोऐब मोहम्मद/मोहम्मद यासीन	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जे०एम०सी-3, वन विहार कॉलोनी, 2/297 के सामने, ईदगाह, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000455	1770	नदीम अहमद/ शमीम अहमद	बी.यू.एम. एस. 2008	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	मकान नम्बर 1501 गंगापोल रोड चार दरवाजा जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000456	1771	फेजान अहमद/बुरहान अहमद कासमी	बी.यू.एम. एस. 2004	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर-468, आमागढ़, शक्ति कॉलोनी, दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000457	1773	मोहम्मद इरफान खान/तोफिक खान	बी.यू.एम. एस. 2008	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	121, रघुनाथपुरी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000458	1774	सय्यद अफसार हैदर/सय्यद आले हसन	बी.यू.एम. एस. 2007	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	664, बिराही रोड, नजदीक शिला बावडी हाण्डीपुरा, आमेर जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000459	1776	भगवान दास/मेवाराम	बी.यू.एम. एस. 2008	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नम्बर-110 नेहरू नगर झंवर रोड बिड़ला स्कूल के सामने जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000460	1777	मोहम्मद फारुकी गांची/इब्राहीम गांची	बी.यू.एम. एस.2005	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	ए०टी० पोस्ट सिमलवाड़ा जिला डूंगरपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000461	1778	शिबली युल इस्लाम/अब्दुल अजीज	बी.यू.एम. एस. 2008	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	तोसीब मेन्सन बेनीवाल कांटे के पीछे, रामगढ़ मोड जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000462	1779	सुनील कुमार शर्मा/सीताराम शर्मा	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जलदाय विभाग के सामने, पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000463	1780	मुकेश सिंह शेखावत/पृथ्वी सिंह शेखावत	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नंबर 229, करणी विहार, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000464	1781	राकेश कुमार योगी/मनोहर लाल योगी	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	ग्राम सिधाना, मोहल्ला पिठौली तहसील बुहाना, जिला झुन्झनू, 333516, राजस्थान
UN/RJ/0000465	1782	मोहम्मद शकील/मोहम्मद शरीफ	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जुलाहो की गली, सिन्धियों का मोहल्ला, सिवाची गेट, जिला जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000466	1783	अभिषेक शर्मा/सज्जन कुमार शर्मा	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बाबू लाल मोदी की गली, वार्ड नंबर-12, प्लॉट नंबर-341, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर,

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000467	1784	तबस्सुम फातमा / मोहम्मद आरिफ	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान द्वारा 5 दरबार कॉलोनी, अहमद नगर, दिल्ली बाईपास, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000468	1785	मोहम्मद आरिफ / रफीक आरिफ	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	5 दरबार कॉलोनी, अहमद नगर, दिल्ली बाईपास, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000469	1786	मोहम्मद आरिफ / अब्दुल कादिर	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नंबर-334, जालुपुरा, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000470	1787	मौहम्मद वसीम / जफर अली	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सराना रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान
UN/RJ/0000471	1789	मोहम्मद इमरान खान / मौ0 ईस्माईल खान	बी.यू.एम. एस. 2008	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नंबर 457, नया जालुपुरा, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000472	1790	प्रीति चौहान / रतनपाल सिंह चौहान	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	186/5 लक्ष्मी नगर, श्याम कॉलोनी, मंगोडी वालों की बगीची के पीछे, ब्रह्मपुरी जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000473	1791	मोहम्मद अनस सिद्धीकी / मोहम्मद साजिद सिद्धीकी	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर-422 मौहल्ला गौरियान, बास बदनपुरा, जयपुर 302002, राजस्थान
UN/RJ/0000474	1793	महमूद सलीम / फुरकान अहमद	बी.यू.एम. एस. 1996	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	शाहीन क्लिनिक-ए-6, चौधरी कॉलोनी, चारदरवाजा, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000475	1794	मौहम्मद आरिफ / आगा शाह नवाज खान	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर 5 अहमद नगर, दरबार कॉलोनी, इदगाह जयपुर 302002, राजस्थान
UN/RJ/0000476	1795	नदीम अख्तर / खुर्शीद हुसैन गोहर	बी.यू.एम. एस. 2008	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	फतेह मन्जिल, नाहर शाह रोड़, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान
UN/RJ/0000477	1796	सुनिता चौधरी / हरिराम चौधरी	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नम्बर-97, चन्द्र नगर-ए, कालवाड़ रोड़, गोविन्दपुर झोटवाड़ा जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000478	1797	मोईन खान / अकील अहमद	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मकान नम्बर-1/120, आजाद नगर, नियर सत्य साई गल्स कॉलेज के पास, जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000479	1798	नौशीन हाशमी / रफीक अहमद हाशमी	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	563/3 एच0ए0आर0 कॉलोनी, चारदरवाजा जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000480	1800	राशिद अली खान / मौ0 बशीरुद्दीन खान	बी.यू.एम. एस. 2007	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	प्लॉट नंबर 571/3, गली नंबर 8, एच0ए0आर0 कॉलोनी, चारदरवाजा, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000481	1803	राकेश चौधरी / हनुमान सिंह चौधरी	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	29, शान्ति नगर, जोशी मार्ग 200फीट रोड़ कालवाड़ रोड़ झोटवाड़ा जिला जयपुर, 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000482	1805	चमन खान / कल्वा खान	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नंबर 12, एच0ए0आर0 कॉलोनी, चारदरवाजा बाहर, जयपुर, राजस्थान

केन्द्रिय पंजीक संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000483	1806	जमीर/अजमल अली	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	शिफा क्लिनिक, प्लॉट नंबर 271, फैंज फर्स्ट, बाईजी की कोठी, दयानन्द नगर, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000484	1807	मोहम्मद तोसीफ रजा/नसीर अहमद	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	दारुल उलम रस्हा किया मौहल्ला, खेरादियान, जोधपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000485	1808	मौहम्मद जीशान खान/कुतुबुद्दीन खान	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	जामा मस्जिद के पास, प्रवीण जनरल स्टोर के उपर, बजरिया, सवाई माधोपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000486	1809	मोहम्मद मोहसीन/मोहम्मद बुन्दु खान	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर 1361, मौहल्ला मोमीनान, रामगंज बाजार, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000487	1810	जावेद इनाम/इनामुल हक	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर 1/325 हाउसिंग बोर्ड ईदगाह जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000488	1811	मोहम्मद फरहान मंसूरी/विकार अहमद मंसूरी	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर 2038 चौक तेलियान नला नीलगरान रामगंज बाजार, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000489	1812	सैयद महजूज अहमद/सैयद मरगूब अहमद	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ई-56, गोविन्दपुरी ईस्ट न्यू रामगढ़ मोड राजस्थान
UN/RJ/0000490	1813	मोहम्मद अदनान खान/इलियाज खान	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नं० 662, रामनगर शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000491	1814	शाहीद इमरान/अनवर हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर 611 जालुपुरा हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000492	1815	मोहम्मद गफ्फार/जहीरुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	1/05, वन विहार कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, दिल्ली रोड, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000493	1816	मोहम्मद युसुफ/सुब्हान घोसी	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मोयल उस्मान गनी मार्केट, स्टेशन रोड, मेडता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान
UN/RJ/0000494	1817	इमरान खान/अलाहीन खान	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	कलेक्ट्रेट के सामने, मस्जिद के पास, अग्रसेन नगर, जिला चूरू राजस्थान
UN/RJ/0000495	1820	जैद अहमद/हाफिज अब्दुल रजाक	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	द्वारा अजीज कागजी गुरुद्वारा के पास सवाई माधोपुर राजस्थान
UN/RJ/0000496	1821	आसिफ इकबाल/जान मोहम्मद खां	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	निवासी 1/81, वन विहार ईदगाह, दिल्ली बाईपास, जयपुर, 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000497	1822	मोहम्मद कामरान अकबर/महमूद खाँ	बी.यू.एम. एस. 1996	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नंबर-112, कृष्णानगर, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000498	1823	अब्दुल अजीम खान/अबदुल समद खान	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	26/76, पिकसिटी क्लिनिक, सुभाष कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000499	1824	जावेद अनवर/रियाज अहमद	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नंबर-98, तिवाडी जी का बाग, आदर्श नगर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000500	1825	बबलू/मुश्ताक खान	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	रामगढ़ मोड, भानपुर सडवा, जयपुर, 302027 राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000501	1826	सादिक अहमद/अहमद हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	405/1, मोहल्ला डाकोतान बास बदनपुरा, चारदरवाजा बाहर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000502	1827	शाहिद अली चौहान/साबीर अली चौहान	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला तौलियान वार्ड नम्बर-27, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, 332301 राजस्थान
UN/RJ/0000503	1828	कमल किशोर कुमावत / भँवर लाल कुमावत	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	न्यू खैतान कॉलोनी, लोसल तहसील दातारामगढ़ सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000504	1829	अब्दुल हलीम/अब्दुल अलीम	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मोहल्ला सादात, हताई मालपुरा, टोंक, राजस्थान
UN/RJ/0000505	1830	मोहम्मद शोएब खांन / मोहम्मद साकेत खांन	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-247-ए/41, गरीब नवाज कॉलोनी, बडबाव अन्दर कोट, अजमेर, 305001 राजस्थान
UN/RJ/0000506	1831	मोहम्मद कमाल/मोहम्मद करामत अली	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	3316, मौहल्ला सिलावटान बान्दरी का नाशिक सुभाष चौक, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000507	1832	शाकिब मोहम्मद/जिया उलहक	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	जामा मस्जिद, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर, 302013 राजस्थान
UN/RJ/0000508	1833	मोहम्मद आबिद/ शहाबुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मोहल्ला कारीगरान, वार्ड नंबर नया-22, मस्जिद के पास, सीकर, राजस्थान
UN/RJ/0000509	1834	सैयद मन्जूर हसन/सैयद हसन शाह	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	नियर सैन्ट थॉमस स्कूल के पास, मौहल्ला रजबन जिला टोंक 304001 राजस्थान
UN/RJ/0000510	1835	नवाब मोहम्मद खांन/जनाब अहमद खांन	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ग्राम पोस्ट आँधी, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000511	1836	तनवीर अहमद/बशीर अहमद	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला हुसैनगंज वार्ड नम्बर-13 जिला सीकर, 332001 राजस्थान
UN/RJ/0000512	1837	शमीम बानो/बशीर अहमद	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-3/183 विद्याधर नगर, बस स्टेण्ड के पास, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000513	1838	शमसुद्दीन/मुन्ने खॉं	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नंबर-11, चौधरी कॉलोनी, गंगपोल चारदरवाजा, जिला जयपुर, 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000514	1840	अरशद हुसैन अंसारी/मोहम्मद हुसैन अंसारी	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	922, जे0पी0 कॉलोनी, सैक्टर नं0-3, शास्त्रीनगर, जिला जयपुर, 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000515	1841	शाहबुद्दीन कुरैशी/सिराजुद्दीन कुरैशी	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	349, सुभाष कॉलोनी, खण्डेलवाल कॉलेज के सामने, शास्त्रीनगर, जिला जयपुर, 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000516	1842	रविनाथ नाग/दुखन्तीराम नाग	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सर्वे नम्बर-120, भौमिया बस्ती, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000517	1844	शबाना खान/इस्लाम खान	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लाट नं0-21, ए, कृष्णा कॉलोनी, बेनीवाल काटे के पास, रामगढ़ रोड, जिला जयपुर, 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000518	1845	सुहेल हसन/इसरार हसन	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2-ए, उद्योगनगर, झोटवाडा, जिला जयपुर, 302012 राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000519	1846	मोहम्मद जावेद/मोहम्मद उमर	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	95, राणा कॉलोनी, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जिला जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000520	1848	जाकिर हुसैन/साबिर हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ए/6 शाहिन क्लिनिक, चौधरी कॉलोनी, चारदरवाजा, गंगापोल जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000521	1849	मोहम्मद शफीक/मोहम्मद रफीक	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	शफीक हेल्थ केयर सेन्टर, वार्ड-10, (पुराना-37) निसार की चक्की के पास, मोहल्ला व्यापारियान जिला सीकर, राजस्थान
UN/RJ/0000522	1850	कायनात सिद्धीकी/मो0 युसुफ सिद्धीकी	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर-10-बी, जे0पी0 कॉलोनी, हरि नगर, शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000523	1853	इरफान/अब्बुकर	बी.यू.एम. एस. 2006	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	585 नियर जीप स्टेण्ड कुम्हारिया, नागौर 341021 राजस्थान
UN/RJ/0000524	1854	मुहम्मद इकबाल सिद्दकी/बख्त्यार अहमद सिद्दकी	बी.यू.एम. एस. 2008	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लाट नम्बर-2, नानाजी का बाग, फतह टीबा, एम0डी0 रोड, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000525	1855	गुलजार सिद्दकी/मुहम्मद इजहार आलम सिद्दकी	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लॉट नम्बर-10, इस्लाम कॉलोनी, करवला चौराहा, रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000526	1857	मोहम्मद नवेद/मोहम्मद युनुस	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नंबर 758-61, मोहल्ला बिसायितान, रामगंज बाजार, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000527	1858	इकबाल हुसैन/अब्दुल हमीद	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	निवासी 9-12, धन्नादास जी की बगीची, आदर्श नगर, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000528	1859	सईद अहमद/उबैदुल्लाह कासमी	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	529, जे.डी.ए. कॉलोनी, विधाधर नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000529	1860	पवन कुमार ग्रोवर/मोहन लाल ग्रोवर	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2/183, विधाधर नगर, नजदीक गणेश पार्क, जयपुर, राजस्थान
UN/RJ/0000530	1861	मौहम्मद अताउर्रब/मौलवी अब्दुल सत्तार	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	4379, छप्पर बन्धे का रास्ता तकिया आदमशाह, घाटगेट जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000531	1862	उजमा शाहीन/अजीजुर्हमान खान	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	द्वारा हिफजुर्हमान वजीरपुर गेट तहसील व जिला करौली राजस्थान
UN/RJ/0000532	1863	आदम/फजलुर्हमान	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सोजती गेट के अन्दर, तेलियो की मस्जिद के पीछे जोधपुर 342001 राजस्थान
UN/RJ/0000533	1864	मोहम्मद मतीन/खुशीद अहमद	बी.यू.एम. एस. 2006	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-118, कादरी कॉलोनी, वार्ड नम्बर-15, मेड़ता सिटी, जिला नागौर राजस्थान
UN/RJ/0000534	1865	अल्ताफ अहमद/मसूद अहमद	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	नियाज मंजिल काजीपाड़ा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली राजस्थान
UN/RJ/0000535	1866	वसीम अख्तर अन्सारी/जलालुद्दीन अन्सारी	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	दरगाह बाबा के पास, जवाहर कॉलोनी, तहसील व जिला बून्दी 323001 राजस्थान
UN/RJ/0000536	1868	असदुल्लाह खान/फैजुल्लाह खान	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	कपड़ा बाजार, तेली दरवाजा, सांभरलेक जिला जयपुर राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000537	1872	फारुक मोहम्मद / हनीफ मोम्मद	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	पुरानी गैस एजेन्सी के सामने, बरकत कॉलोनी, फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000538	1873	हारुन अली / सफदर अली	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	3/769 जवाहर नगर टोला नं0 3 जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000539	1874	हुमा खान / दानिश तुफैल	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	72-सी शान्ति कॉलोनी घाट की गुणी आगरा रोड़, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000540	1875	मौहम्मद खालिद / अब्दुल सलाम	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	7-ए, तत्कालेश्वरपुरी हीदा की मोरी जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000541	1876	मौ0 कमरुज्जमा / अब्दुल सलाम	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	7-ए तत्कालेश्वरपुरी हीदा की मोरी जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000542	1877	राजकुमार / गणेश	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	18/735 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर 342008 राजस्थान
UN/RJ/0000543	1878	सहीक खान / अब्दुल अजीज खान	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	बी-96, अमृतपुरी घाटगेट, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000544	1879	मोहम्मद रोशन / हाजी गफ्फुर खां	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नं0 26 कृष्णा नगर, कालवाड रोड़ झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000545	1880	खालिद हुसैन / मोहम्मद यासीन	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	खालिद मंजिल मोहल्ला सुल्तान शाह वार्ड नं0 31 सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000546	1881	मशकूर अहमद खान / अब्दुल शकूर खान	बी.यू.एम. एस. 2008	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	09 चौधरी कॉलोनी, गंगापोल गेट, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000547	1882	शहनाज बानो / शहाबुद्दीन खान	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर 20 बरकत कॉलोनी, गंगापोल, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000548	1884	मौहम्मद इकराम कुरैशी / मोहम्मद मम्मन कुरैशी	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ए-1/752 आजाद नगर घाट की गुणी जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000549	1886	खालिद अली खान / एम0 बी0 खां	बी.यू.एम. एस. 2010	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	571/3 गली नंबर-8 एच0ए0आर0 कॉलोनी चार दरवाजा बाहर जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000550	1887	खतीब अहमद खान / खलील अहमद खान	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	128 संजय नगर-बी, कांटे के पास झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000551	1890	मोहम्मद यासर सिद्दीकी / मोहम्मद अहमद	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नंबर 9 मुकुन्दगढ हाउस, संसार चन्द रोड़, जालूपुरा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000552	1891	रईस अहमद / अब्दुल लतीफ	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	82 शिवाजी नगर झोटवाड़ा जयपुर 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000553	1894	काजी अब्दुल वसीम / काजी अब्दुल सलीम	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नंबर - 2893 कुम्हारों की नदी, ख्वासजी का रास्ता हवामहल रोड़, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000554	1895	जफर महमूद / फिरोज अहमद सिद्दीकी	बी.यू.एम. एस. 2005	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	न्यू बिलाल कॉलोनी, मोहल्ला गोल, टोंक राजस्थान
UN/RJ/0000555	1896	अमजद खान / मोहम्मद असलम	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	रजिया क्लिनिक, सी-18-19 मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000556	1897	असद अराफत / सर्ईद अहमद	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	261/11 मालवीय नगर, जयपुर 302017 राजस्थान
UN/RJ/0000557	1898	मोईन अजमल / मौहम्मद अजमल	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नंबर 24714 शिफा कॉटेज, पूर्विया का टीबा, गलता रोड़, सूरजपोल, जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000558	1899	तोफीक अहमद / अख्तर अली	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	9 रोगन कॉलोनी, मण्डी खटीकान जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000559	1900	अतीक अहमद / जहूर अहमद	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला नीलगरान वजीरपुर करौली राजस्थान
UN/RJ/0000560	1903	दाऊद बेग / ऐजाज बैग	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदर की गली चटीकना करौली राजस्थान
UN/RJ/0000561	1904	जीनत परवीन / जहूर अहमद	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	164-ए, जगन्नाथपुरी झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000562	1905	मोहम्मद आसिफ खान / मौहम्मद खैराती खान	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सी-49 गुलशन नगर सैय्यद कॉलोनी गंगापोल जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000563	1908	नूरीन हाशमी / रफीक अहमद	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर-563/3 एचएआर कॉलोनी, चार दरवाजा जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000564	1910	मौहम्मद अकरम गोयल / अब्दुल रज्जाक गोयल	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	गोयल मंजिल दी कोटा रोड़, घण्टाघर जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000565	1912	रजीउद्दीन उस्मानी / हफीज उद्दीन उस्मानी	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नं0 4 मौहम्मद नगर बी खे नागोरियान जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000566	1914	मोहम्मद हुसैन मन्सूरी / मोहम्मद सुलेमान मन्सूरी	बी.यू.एम. एस. 2009	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ईदी मेडिकल्स पाडिया कुआ के पास, वार्ड नं0-24, सीकर जिला सीकर । राजस्थान
UN/RJ/0000567	1915	नाजिया शमशाद / जफर महमूद	बी.यू.एम. एस. 2005	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	न्यू बिलास कॉलोनी, मौहल्ला गोल टॉक राजस्थान
UN/RJ/0000568	1916	नासिर अली / सफदर अली	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ग्राम पोस्ट मजरा मोंट पोस्ट भोंट जिला रामपुर 244901 उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000569	1920	अबरार अली / इस्लामुद्दीन खां	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-1/65 वन विहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दिल्ली बाईपास रोड़, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000570	1922	मौहम्मद शहरयाब अली / अब्दुल मुतलिब	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	निवासी गंगापोल रोड़ चार दरवाजा, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000571	1923	मुहम्मद आसिफ खां / मौहम्मद अजीज खां	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	3078 मेहरों की नदी, कुम्हारों का मौहल्ला, चौकड़ी रामचन्द्रजी की सुभाषचौक, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000572	1929	मौ0 जियाउल इस्लाम / फखरुल इस्लाम	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	जेपी कॉलोनी शाहपुरा बाग जलमहल जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000573	1945	मौहम्मद हुसैन / मौहम्मद हारुन	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मंडल जमाअत खाना के पास, ग्राम बासनी जिला नागौर राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000574	1946	मौहम्मद फरहान खान/अब्दुल बासित खान	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	नदीगेट के पास, खाररोड़, करौली राजस्थान।
UN/RJ/0000575	1947	मौहम्मद शकील /मौहम्मद शरीफ	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	609, मौहल्ला गोरियान बासबदनपुरा, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000576	1948	असगर अली/मौहम्मद हसन	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	दरखानों का मौहल्ला लौहारपुर नागौर 341001 राजस्थान
UN/RJ/0000577	1949	मौहम्मद इब्राहीम /ताहिर हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला न्यू रोशनगंज वार्ड नं0-01 सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000578	1950	अरबाज खान/रईस अहमद खान	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	रईस क्लिनिक बस स्टेण्ड के पास, हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान
UN/RJ/0000579	1951	सुमैय्या /मौहम्मद उस्मान साहब	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला न्यू रोशनगंज वार्ड नम्बर-1, सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000580	1952	तकुर रहमान फारुकी/वली मुर्हमान फारुकी	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-27, बजर।ग कॉलोनी गंगापोल गेट के बाहर जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000581	1953	अल सबा फारुकी/अतीक अहमद	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	हजरत शफी मंजील न्यू रोशनगंज सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000582	1954	अकबर खान /अमजद खान	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	222 सी0पी0नगर, आर0ए0सी0 पानी की टंकी के पास, अमृतपुरी घाटगेट जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000583	1955	रुकैया खातून /नवी हसन खान	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नं0-डी-139, विद्याधर नगर, जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000584	1956	हबीबुर्हमान फारुकी/अब्दुल अजीज फारुकी	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	अशरफ दवाखाना नदी बाजार पोस्ट खण्डेला जिला सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000585	1957	शौएब अहमद /फारूरत अहमद	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	भारत डेन्टल क्लिनिक सज्जन नगर, राजसमन्द 313326 राजस्थान
UN/RJ/0000586	1958	नाजिम बेग/हामिद बेग	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नं0-502, रामनगर नयाजालपुरा, शास्त्रीनगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000587	1959	अहमद खान /रशीद अहमद	बी.यू.एम. एस. 2011	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	बडली माण्डा पोस्ट बडली नाथूसर तह0 पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान
UN/RJ/0000588	1960	शबनम कौसर /मौहम्मद जाहिद रशीद	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	एफ-174, गांधीनगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000589	1961	अम्बरीन महमूद /महमूद चौधरी	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नं0-117 बने बिहार कॉलोनी, रहमानिया मस्जिद के पास, 200 फीट रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000590	1962	मशकूर हुसैन /मसरूर हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	791 आमागढ़, शक्ति कॉलोनी, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000591	1963	असद अहमद अन्सारी/मौहम्मद अहमद अन्सारी	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला सीकरी गेट चन्दोसी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000592	1964	अब्दुल रहमान/अब्दुल रऊफ खान	बी.यू.एम. एस.	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,	कागजी मौहल्ला आलनपुर, बड़ी मस्जिद के पास, सवाई माधोपुर

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000593	1965	अंजुम कंवर/ रईस अहमद	2011 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	राजस्थान मकान नं०-28-29, नानगी का चौराहा, बांसबदनपुरा, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000594	1966	सिकन्दर अली/ मुस्ताक अहमद	2011 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ग्राम पोस्ट बेसवा तह० फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000595	1968	शाहजेब शकुर/ हमीद शकुर	2012 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर-37, संतोष कॉलोनी, मानवाज, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000596	1969	तरन्नूम नाज अन्सारी/ मोहम्मद हुसैन अंसारी	2012 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	922 जे०पी० कॉलोनी, सेक्टर-3, लंकापुरी शास्त्रीनगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000597	1970	मुहम्मद एजाज अहमद/ मौहम्मद इकबाल कारीगर	2012 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मोहल्ला कारीगरान वार्ड नम्बर-20, मस्जिद के पास सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000598	1971	रिजवान जोइया/ शहजादा रफीक जोइया	2012 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मुन्नी मन्जिल रानी बाजार, बीकानेर राजस्थान
UN/RJ/0000599	1972	मुहम्मद सुफियान/ मुहम्मद फुरकान	2004 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर छत्रपति षाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	3919 मिटी कोठी का रास्ता मीणा बस्ती सूरजपोल रामगंज जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000600	1973	मिर्जा यासीन बैंग/ मिर्जा अशफाक बैंग	2012 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-1025 मौहल्ला हिरनवालान घाटगेट जिला जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000601	1974	शीबा सफदर खान/ सफदर अली सुहेल हसन	2009 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2-ए, उद्योग नगर निवारु रोड वाड नम्बर-7, जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000602	1975	सलीम अहमद/ फिरासत हुसैन	2000 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर	एस-1 धन्नादास की बगीची आदर्श नगर जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000603	1976	शाहिद खान/ अब्दुल हमीद खान	2012 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	कोनिका फोटो स्टूडियो वसुन्धरा विहार इमाम सागर जेल रोड झालावाड़ जिला झालावाड़ 326001 राजस्थान
UN/RJ/0000604	1977	मोहम्मद शाहिद/ लियाकत अली	2011 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	बेहलीम कुम्हारी रोड बासनी बेलिया जिला नागौर 341021 राजस्थान
UN/RJ/0000605	1978	अली मेहंदी काजमी/ अली अब्बास काजमी	2009 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	डॉ० एम० ए० जैदी हाउस नम्बर-42/42 केप्टन हाउस हिदा की मोरी घाटगेट, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000606	1979	मलिक इसरार अहमद/ मलिक रैहान अहमद	2011 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर-12 नवाब कालोनी, तत्कालेश्वरपुरी हीदा की मोरी रामगंज जिला जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000607	1980	मौहम्मद सलीम/ नईम अहमद	2012 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौ० मिलकियान स्योहारा धामपुर बिजनौर 246746 उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000608	1981	शबाना सिद्दिकी/ मुजक्किर अली	2005 एम.डी. 2010	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	प्लॉट नम्बर-33 मौहल्ला बिलोचियान बास बदनपुरा दैनिक किरदार के पास जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000609	1983	उरुज अहमद खान/ अब्दुल शकील खान	2010 बी.यू.एम. एस.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	वार्ड नम्बर-16, ककराला दातागंज बदाय 243637 उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000610	1984	मुस्तकीम	बी.यू.एम.	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन	सी-18 मुरलीपुरा स्कीम सीकर

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		मौहम्मद/रफीक अहमद	एस. 2011	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	रोड़ जिला जयपुर 302039 राजस्थान
UN/RJ/0000611	1985	दानिश खान/अब्दुल वहीद खान	बी.यू.एम. एस. 2009	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर	वार्ड नम्बर-8, मुगलपुरा पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ 326034 राजस्थान
UN/RJ/0000612	1986	सबा खुर्शीद/खुर्शीद आलम	बी.यू.एम. एस. 2008	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	निवासी 1/50 वन विहार हाउसिंग बोर्ड ईदगाह जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000613	1987	शमीम अहमद खान/अब्बास अली	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	द्वारा अब्दुल सत्तार उर्फ लाली भाई धानमण्डी उदय मंदिर आसन जिला जोधपुर 342003 राजस्थान
UN/RJ/0000614	1988	मकबुल अहमद/मौहम्मद अहमद	बी.यू.एम. एस. 2001	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	69 कचरा बस्ती सीमा होटल के पास जनता कॉलोनी, घाटगेट जिला जयपुर 302004 राजस्थान
UN/RJ/0000615	1989	अमीनुल्लाह खां पठान/सहीदुल्लाह खां पठान	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	34/ए मदार कॉलोनी, मस्जिद के पास, बासवाड़ा 327001 राजस्थान
UN/RJ/0000616	1990	मौहम्मद इमरान खान/मुन्शी खां	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	10 बिस्मिल्लाह कॉलोनी, झोटवाड़ा जिला जयपुर 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000617	1991	सददामहुसैन/छुट्टन खां	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ग्राम जल्लापुर जट पोस्ट जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
UN/RJ/0000618	1992	हिना अफताब/निसार अहमद	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	एफ0सी0आई0 गौदाम के पास, सुभाषपुरा जिला बीकानेर 334001 राजस्थान
UN/RJ/0000619	1993	सत्यनारायण सैनी/बिरधीचन्द सैनी	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	बाबरो का चौक पुरानी टोंक जिला टोंक 304001 राजस्थान
UN/RJ/0000620	1994	खदीजा/शकीलुर्हमान खान	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	173 मुजीब मंजिल के पीछे, पायगा मोती बाग रोड, टोंक राजस्थान
UN/RJ/0000621	1995	अब्दुल अजीज/मौहम्मद इलियास	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ग्राम लाड़लाका पोस्ट मुसेपुर तहसील कामां जिला भरतपुर 321022 राजस्थान
UN/RJ/0000622	1996	मौहम्मद दानिश खान/रहिसुद्दीन खां	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला घोडे वाला गुलावटी जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश
UN/RJ/0000623	1997	समीना परवीन/अब्दुल मनान रंगरेज	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	जैतून पैलेस नगर परिषद एक्सीलेन्स स्कूल के पास, जिला सीकर 332001 राजस्थान
UN/RJ/0000624	1998	महमूद अलहसन/नबी हसन खान	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	डी-139 विद्याधर नगर जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000625	1999	अब्दुल हफीज खान/अब्दुल हकीम खान	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	हबिबीया दवाखाना गहलोल रोड़ मौहल्ला बहीर टोंक जिला टोंक 304001 राजस्थान
UN/RJ/0000626	2000	अरशद अहमद कुरेशी/असरार अहमद कुरेशी	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	कुरेशी कुटीर पुराने ए0सी0जे0एम0 कोर्ट के पास, निवाई जिला टोंक 304021 राजस्थान
UN/RJ/0000627	2001	गुलजार अनवर/अनवारूल हक	बी.यू.एम. एस. 2009	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	हंफी मंजिल हाई स्कूल रोड़ बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान
UN/RJ/0000628	2002	अब्दुल वसीम/अब्दुल	बी.यू.एम.	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन	3552 बिशतियों की छोटी

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		अजीज	एस. 2012	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मस्जिद तौपखाना हजूसी घाटगेट जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000629	2003	रमीज अहमद खान/अब्दुल रसीद खान	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	नूर कॉलोनी, बापू बस्ती के पास, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
UN/RJ/0000630	2004	अरसी बानो/मशकूर मौहम्मद	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-2823 जोगियों का टीबा, चौकड़ी रामचन्द्रजी जगन्नाथशाह का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000631	2006	आदिल शम्स/ शमसुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-35, गांधी विहार विस्तार-ए, खोहनागोरियान जिला जयपुर 302031 राजस्थान
UN/RJ/0000632	2007	जफरूल आदिल/नजरूल हक	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सी-99, दुर्गा मन्दिर के सामने, आर0पी0ए0 रोड जिला जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000633	2009	मेहताब अली/रफत अली	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	21 बिलोचियान बास बदनपुरा जिला जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000634	2010	समीना खान/मोहम्मद इरफान खान	बी.यू.एम. एस. 1994	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	197 बलदेव नगर, मगूरिया जिला जोधपुर 342001 राजस्थान
UN/RJ/0000635	2011	शीरी अफजा/ शफाकत हुसैन	बी.यू.एम. एस. 1991	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	सी-107 समद विला शिवाजी मार्ग तिलक नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000636	2012	शाहे जमां/अब्दुल अली	बी.यू.एम. एस. 2003	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जोधपुर क्लिनिक महावतों की मस्जिद नागौरी गेट रोड जोधपुर 342001 राजस्थान
UN/RJ/0000637	2013	फरहीन असलम/मोहम्मद असलम	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	28 मण्डी खटीकान देहली बाईपास जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000638	2014	मौहम्मद इसार नुरानी/गफ्फार हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	545 मस्जिद वाली गली, बाहर मोरी रोड ब्रह्मपुरी जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000639	2015	मौहम्मद शायक खान /मौहम्मद शमशाद खान	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	बी-49, संजय नगर, शास्त्री नगर जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000640	2016	अय्यूब/रईस अहमद	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	20 बरकत कॉलोनी, गंगापोल गेट के बाहर वार्ड नम्बर-73 जिला जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000641	2017	अब्दुल वाहिद खां/हशमत अली	बी.यू.एम. एस. 1997	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्लाट नंबर 192, मैन् रोड पुराना जालुपुरा जिला जयपुर 302001 राजस्थान
UN/RJ/0000642	2018	अहमद हसन/ शफीक अहमद अल्वी	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	1180, काकोरी हाऊस काटियों की पीपली हल्दियों का रास्ता चौथा चौराहा जौहरी बाजार जिला जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000643	2020	सिकन्दर/नूरदीन	बी.यू.एम. एस. 2013	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	ग्राम पोस्ट भैय्यो की ढाणी कुशलावा तहसील फलोदी जिला जोधपुर 342301 राजस्थान
UN/RJ/0000644	2021	जियाउर्रहमान फारूकी/जुनेदुर्हमान	बी.यू.एम. एस. 2011	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लाट नंबर 12, गोविन्दपुरी आमेर रोड जौहरी रेता की मस्जिद के पीछे, जिला जयपुर 302002 राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000645	2022	मौ0 हारून/अब्दुल सलाम	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	81 नाग तलाई आवास योजना दिल्ली बाईपास, वार्ड नम्बर-48, जिला जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000646	2023	फिरोज खान/सरादीन खान	बी.यू.एम. एस. 2013	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	ग्राम पोस्ट चांदे का पार, तहसील रामसर गडरा रोड़, जिला बाडमेर 344502 राजस्थान
UN/RJ/0000647	2024	आयशा बानों/हैदर अली	बी.यू.एम. एस. 2013	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	मकान नम्बर 369 विचला बास जिला नागौर राजस्थान
UN/RJ/0000648	2025	अशरफ अली/सच्चू खान	बी.यू.एम. एस. 2013	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	ग्राम विरद का पार, पोस्ट गागरिया तहसील रामसर जिला बाडमेर 344502 राजस्थान
UN/RJ/0000649	2026	इरशाद खान/कासिम अली खान	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर-612, नया जालुपुरा शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000650	2027	अब्दुल वाहिद चौहान/अब्दुल रशीद	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला कुरेशियान मस्जिद के पास, वार्ड नम्बर-24 जिला सीकर 332001 राजस्थान
UN/RJ/0000651	2028	अरीबा हुसैन/सैय्यद शमसुल हसन तारिक	बी.यू.एम. एस. 2013	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	द्वारा श्री रोशन लाल शर्मा, बरपाड़ा भुसावर जिला भरतपुर 321406 राजस्थान
UN/RJ/0000652	2029	सबा तबस्सुम/नरूलहक खान	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-174, संजय नगर-डी, झोटवाड़ा जिला जयपुर 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000653	2030	मोहम्मद हसन/हबिबुर्रहमान	बी.यू.एम. एस. 2007	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	मकान नम्बर-1614 इन्द्रास रोड़ अशरफ नगर, बासनी बेलिया तहसील व जिला नागौर 341021 राजस्थान
UN/RJ/0000654	2031	अब्दुल गफ्फार/मौहम्मद सलीम	बी.यू.एम. एस. 2013	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	94 मिर्जागियों की ढाणी, बगड की रीया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 342601 राजस्थान
UN/RJ/0000655	2032	मोहम्मद अय्यूब मेहर/मौहम्मद रफीक मेहर	बी.यू.एम. एस. 2013	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	शेख नगर मलार, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 342601 राजस्थान
UN/RJ/0000656	2033	अब्दुल सत्तार/मंजूरुद्दीन	बी.यू.एम. एस. 2013	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	ग्राम पोस्ट गोमट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 345021 राजस्थान
UN/RJ/0000657	2034	अब्दुल रऊफ/मोहम्मद उस्मान	बी.यू.एम. एस. 2013	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	ग्राम पोस्ट गोमट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 345021 राजस्थान
UN/RJ/0000658	2035	मन्जूर खान सैफी/इस्लामुद्दीन सैफी	बी.यू.एम. एस. 2013	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ए-363, संजय नगर, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000659	2036	मौ0 सिराजुद्दीन अली/अलीमुद्दीन अली	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	1ए/514 जवाहर नगर, टीला नम्बर-0, बाबा भाड वाया भाग कच्ची बस्ती, वार्ड नम्बर-48, जयपुर 302004 राजस्थान
UN/RJ/0000660	2037	सना विकार/मौहम्मद आदिल	बी.यू.एम. एस. 2012	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	प्लॉट नम्बर-1, खान कॉम्प्लेक्स, बेदला रोड़, उदयपुर 313011 राजस्थान
UN/RJ/0000661	2038	हम्मादुर्रहमान/सैफुर्रहमान	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	टॉक पब्लिक स्कूल के पास, शार्गिंद पेशा, बड़ा कुआं, टॉक 304001 राजस्थान
UN/RJ/0000662	2039	डॉ जैबा अजीज/अब्दुल	बी.यू.एम.	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1399, नागों का खुर्रा, रामगंज

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
		अजीज	एस. 2013	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	बाजार, जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000663	2040	रमीसा रहमान/अतीकुर्रहमान	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सईदी क्लिनिक के पास, नजरबाग पैलेस, टॉक 304001 राजस्थान
UN/RJ/0000664	2041	यास्मीन खान/मौहम्मद इकरामुद्दीन खान	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर-8, चार दरवाजा बाहर, बास की पुलिया सैय्युद कॉलोनी, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000665	2042	मौहम्मद सलीम/मौहम्मद युसुफ	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	86 संजय नगर-बी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा जयपुर 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000666	2043	जेनब फारुकी/अमीनर्रहमान	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ए-34, संजय नगर, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000667	2044	मौहम्मद उवेश/अहमद रजा	बी.यू.एम. एस. 2013	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर	बाबा दोदु के पास, पोल वाले बासनी, बेहलिया, नागौर राजस्थान
UN/RJ/0000668	2045	जितेन्द्र हींगड़ा/मानाराम हींगड़ा	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	371, हींगड़ों का बास, गोमट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 345021 राजस्थान
UN/RJ/0000669	2046	सदफ जैदी/सैयद फारुक हुसैन जैदी	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	30, जगन्नाथपुरी मदीना कॉलोनी, बोरिंग रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000670	2047	वजीर खान/मौहम्मद सलीम खान	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	नन्दनवन कॉलोनी, स्टेशन रोड़, भगवान बाल स्कूल के सामने, पीपाड शहर, जोधपुर 342601 राजस्थान
UN/RJ/0000671	2048	फेजान अहमद/ शमीम अहमद	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	बम्बा मौहल्ला, छोटी मस्जिद के पीछे, जोधपुर 342001 राजस्थान
UN/RJ/0000672	2049	दुर्गेश कुमार/गुलाब चन्द	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ई-एल-41, डबल स्टोरी, विद्याधर नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000673	2050	मौहम्मद तौफिक कुरेशी/मौहम्मद इस्हाक कुरेशी	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-229-बी, वक्फ नगर, दादाबाड़ी कोटा 324009 राजस्थान
UN/RJ/0000674	2051	अल्लाहरखी टोला/फय्याज अली टोला	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला जमीदारान, सीकर 332001 राजस्थान
UN/RJ/0000675	2052	निदा खानम/मौहम्मद आरिफ खान	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-5, अहमद नगर, दरबार कॉलोनी, देहली बाईपास, ईदगाह जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000676	2053	मौहम्मद हुसैन/गुलाब नबी खान	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2-झ-16, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000677	2054	जईम अहमद/रफीक अहमद	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	बी-88, टीला नम्बर-6ए, जवाहर नगर, कच्ची बस्ती, वार्ड नम्बर-48, तहसील व जिला जयपुर 302004 राजस्थान
UN/RJ/0000678	2055	नफीस मियाँ/मन्जु मियाँ	बी.यू.एम. एस. 2014	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर	गुलजार बाग, कन्या महाविद्यालय के पास, टॉक 304001 राजस्थान
UN/RJ/0000679	2056	फरहीन तबस्सुम/सुहेल इकबाल	बी.यू.एम. एस. 2014	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	राजकीय यूनानी दवाखाना, घौसिंगों वाया जुरहेरा निकट जामा मस्जिद, घौसिंगों

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000680	2057	रेशम खानम/रिसालदार	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर 321023 राजस्थान
UN/RJ/0000681	2058	नाजरीन/नाज मौहम्मद	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	49-ए, रहीमन कॉलोनी, दिल्ली बाईपास रोड, ईदगाह, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000682	2059	मौहम्मद तौफिक/मौहम्मद सरदार	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ए-347, संजय नगर, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000683	2060	मुनाजिर अली/फिरासत अली	बी.यू.एम. एस. 2013	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	78 नगीना चौक, भवाद रोड रजा मस्जिद के पास, बारानी बेलिया नागौर राजस्थान
UN/RJ/0000684	2061	फरहीन असलम/मोहम्मद कमाल	बी.यू.एम. एस. 2013	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	3/769 टीला नम्बर-3, जवाहर नगर, जयपुर 302004 राजस्थान
UN/RJ/0000685	2062	निजामुद्दीन मिरासी/सफी मौहम्मद मिरासी	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	405/1 मौहल्ला डाकोतान बिस्मिल्लाह रोड, बासबदनपुरा चारदरवाजा बाहर जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000686	2063	हिना नाज/बन्ने खान	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	इन्द्रा कॉलोनी, गांव खारिया मिठापुर तहसील बिलण्डा जिला जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000687	2064	मौ 0 इमरान/शाहिद हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	लगनशाह पब्लिक स्कूल, गुलजारपुरा मकराना जिला नागौर राजस्थान
UN/RJ/0000688	2065	शेर मौहम्मद/मूसेखान	बी.यू.एम. एस. 2015	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	55 करीम कॉलोनी, ईदगाह दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000689	2066	मौहम्मद नवेद/मौहम्मद सलीम	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ग्राम पोस्ट खाजूसर घंटियाली तहसील फलोदी जिला जोधपुर 342301 राजस्थान
UN/RJ/0000690	2067	मुजीबुर रहमान/शखावत हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-1530, हवा चक्की मौहल्ला नसीदाबाद जिला अजमेर 305601 राजस्थान
UN/RJ/0000691	2068	फरीद खान/मौहम्मद खान	बी.यू.एम. एस. 2014	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	मकान नम्बर-49-ए, वन विहार, कच्ची बस्ती दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000692	2069	जुबैर अहमद/अब्दुल सलाम	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	आमली की ढाणी शेखनगर पिपाड शहर जिला जोधपुर 342606 राजस्थान
UN/RJ/0000693	2070	आतिफ हुसैन/मुनब्वर हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	7-ए, हीदा की मोरी, श्यामपुरी रामगंज बाजार जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000694	2071	आमदीन/रमजान खां	बी.यू.एम. एस. 2015	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	381/4, एच0ए0आर0 यासीयान पब्लिक स्कूल के पास, चार दरवाजा बाहर, वार्ड नम्बर-56, जयपुर 302004 राजस्थान
UN/RJ/0000695	2072	इमामुद्दीन मेहर/सुब्बान मेहर	बी.यू.एम. एस. 2015	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	नाथू नगर, पोस्ट पीपाड रोड तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर 342606 राजस्थान
UN/RJ/0000696	2073	इमरान अहमद/अनीस अहमद	बी.यू.एम. एस.	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,	मस्जिद की ढाणी, शेख नगर पोस्ट पीपाड रोड तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 342606 राजस्थान
					92-बी, जयसिंह नगर, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000697	2074	परवीन शेख/ शफी मौहम्मद शेख	2014 बी.यू.एम. एस. 2010	जोधपुर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर	302036 राजस्थान 1174/13 संजय नगर, एच0एम0टी0 के सामने, खानपुर अजमेर 305001 राजस्थान
UN/RJ/0000698	2075	सदफ परवीन/ महबूब हसन	बी.यू.एम. एस. 2015	जामिया हमदर्द (मानित विश्वविद्यालय) नई दिल्ली	प्लॉट नम्बर-3, नियर प्रताप नगर, प्राईवेट बस स्टेण्ड कमला नेहरू नगर, ऐक्सटेंशन-1, जोधपुर 342009 राजस्थान
UN/RJ/0000699	2076	सगीर अहमद खान/अब्दुल शकील खान	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	307 मीर का बाग, जालुपुरा जयपुर 302001 राजस्थान
UN/RJ/0000700	2077	मुख्तियार अहमद/मकसूद अहमद	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	हाफिज दवाखाना हटवाड़ा बाजार, करौली 322241 राजस्थान
UN/RJ/0000701	2078	मोहसिन अहमद/मकसूद अहमद	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	हाफिज दवाखाना हटवाड़ा बाजार, करौली 322241 राजस्थान
UN/RJ/0000702	2079	यासर अराफात/बफाती खां	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदय मंदिर के पीछे वाली गली जिला जोधपुर 342001 राजस्थान
UN/RJ/0000703	2080	जीशान अली/इमदाद अली	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	गुजराती कॉलोनी, बंगाली क्वार्टर के पीछे, कमला नेहरू नगर, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000704	2081	अंकित बसवाल/राजकुमार बसवाल	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	गोटे वालों की बगीची, आगरा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000705	2082	आसिफ हुसैन/तालिब हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	1/111 वन विहार कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, देहली बाईपास, ईदगाह जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000706	2083	ऐमन सिद्दकी/अयाज सिद्दकी	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-247, गोविन्द नगर (पूर्व) आमेर जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000707	2084	निशान्त कुमार/कश्मीलाल	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2/325 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शिव मन्दिर के नजदीक, श्रीगंगानगर 335001 राजस्थान
UN/RJ/0000708	2085	ईलनाज अन्सारी/मौ0 हारून अन्सारी	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	बी-225 भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000709	2086	मोहसिना/मौ0 ईकबाल	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला रोशनगंज, मस्जिद सैयद सिराज अली के पास, सैय्यद कॉलोनी, वार्ड नम्बर-12-एफ, सीकर 332001 राजस्थान
UN/RJ/0000710	2087	नगमा जोया/जीशान अली जोया	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	217 कुरेशीयान मौहल्ला पांच बत्ती के सामने, सीकर 332001 राजस्थान
UN/RJ/0000711	2088	खुशनुमा खान/अब्दुल रसीद खान	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	4342 मौहल्ला छप्पर बन्ध, घाटगेट, जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000712	2089	मौ0 उमर/जहूर नवी	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	182, धन्नादास की बगीची, सेन्ट्रल जेल के पीछे, आदर्श नगर, जयपुर 302004 राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000713	2090	हिफाजत हुसैन/नजाकत हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	9 रोशन कॉलोनी, ईदगाह देहली बाईपास रोड, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000714	2091	जावेद आलम/मौ0 युनूस	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	135 आनन्द विहार कॉलोनी, बाबाजी छावनी, दौसा 303303 राजस्थान
UN/RJ/0000715	2092	अमानत अहमद/जहूर खान	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर-96, केसर बाग, पुलिस लाईन, कोटा 324001 राजस्थान
UN/RJ/0000716	2093	फरहा परवीन/मौ0 असलम	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-3125 सिलावट मौहल्ला, लाखन कोटडी, अजमेर 305001 राजस्थान
UN/RJ/0000717	2094	मनवर अली/अनवर अली	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	213 बरकत कॉलोनी रोड, फलौदी, जोधपुर 342301 राजस्थान
UN/RJ/0000718	2095	जिया ए असमत/फारुक अहमद	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	राजकीय सैकण्डरी स्कूल के पास, खो-नागोरियान जगतपुरा जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000719	2096	मौहम्मद असद खान/इकबाल मौहम्मद खान	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	डागीयावास, जोधपुर राजस्थान
UN/RJ/0000720	2097	साजिद अली खान/एम0 बी0 खान	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	571/3, गली नम्बर-8, आउट साईड चार दरवाजा, एच0ए0आर0 कॉलोनी, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000721	2098	रुबीना खान/असलम खान	बी.यू.एम. एस. 2007	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर	मकान नम्बर-5, इन्द्रा कॉलोनी, सिविल लाईन सवाई माधोपुर राजस्थान
UN/RJ/0000722	2099	मोहम्मद आसिफ/मोहम्मद हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मोहल्ला कुरेशियान सेट, नूर मोहम्मद कुरेशी रोड वार्ड नम्बर-31, सीकर 332001 राजस्थान
UN/RJ/0000723	2100	अनम सिद्धीकी/नजाकत सिद्धीकी	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ए-475, संजय नगर, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, जयपुर 302016 राजस्थान
UN/RJ/0000724	2101	मोहम्मद जाह्द कुरेशी/सरदार खां	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	1/35 आजाद नगर, घाट की गुणी, जयपुर 302004 राजस्थान
UN/RJ/0000725	2102	रफत अली/फरजन्द अली	बी.यू.एम. एस. 2016	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	47 धन्ना दास की बगीची आदर्श नगर, जयपुर 302004 राजस्थान
UN/RJ/0000726	2103	मोहम्मद आसिफ/मोहम्मद हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	152 मालियों का मौहल्ला वार्ड नम्बर-21, सीकर राजस्थान
UN/RJ/0000727	2104	मोहम्मद शाह आलम सैफी/ईशाक मोहम्मद शौफी	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर-52, मदिना कॉलोनी, झोटवाड़ा जिला जयपुर 302012 राजस्थान
UN/RJ/0000728	2105	मोहम्मद नदीम/मोहम्मद खालिद	बी.यू.एम. एस. 2013	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर	निवासी नया मौहल्ला, सालारपीर दरगाह के पास, बासनी नागौर राजस्थान
UN/RJ/0000729	2106	मौहम्मद इजाज/मौहम्मद इल्यास	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ए-22, गांधी विहार खोनागोरियान, जयपुर 302031 राजस्थान
UN/RJ/0000730	2107	उमर खान/मौहम्मद इकबाल	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	वागोर वाली, मस्जिद के पास, चटीकना बाजार, करौली 322241 राजस्थान
UN/RJ/0000731	2108	मुरशद/एहसान अली	बी.यू.एम. एस.	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,	1567, महरोकी नदी चौकडी, रामचन्द्रजी की सुभाष चौक,

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000732	2109	रिजवान अली/सफदर अली	2015 बी.यू.एम. एस. 2015	जोधपुर डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	जयपुर 302002 राजस्थान मकान नम्बर-3732, सिरकीगरों का मौहल्ला, पांचवा चौराहा, कल्याणजी का रास्ता, चांदपोल वार्ड नम्बर-62, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000733	2110	अब्दुल अजीम/अब्दुल मतीन	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	83 रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000734	2111	अमन खान/तज्जन खान	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	152 रोड नम्बर-2, ईदगाह कच्ची बस्ती, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000735	2112	फहीम मौहम्मद/छोटे अली	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	1057 विजय नगर, लंकापुरी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000736	2113	शमीना बानो/मौहम्मद रफीक अब्बासी	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	अब्बासी मेमोरियल हॉस्पिटल, मौहल्ला बारुदगरान, नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान
UN/RJ/0000737	2114	मोहम्मद इमरान/मोहम्मद ईस्माईल	बी.यू.एम. एस. 2016	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर - 24714 मीठी कोठी का रास्ता, टीबा पूर्वियान सूरजपोल बाजार, जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000738	2115	मौहम्मद इलियास चौहान/मोहम्मद शफी चौहान	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मौहल्ला रोशनगंज, वार्ड नम्बर-1, अबुजर मस्जिद के सामने, सीकर 302001 राजस्थान
UN/RJ/0000739	2116	सरफराज खान/यासीन खान	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	1104 जनता दरवाजा पाखर रोड मण्डावा महुआ दौसा 321609 राजस्थान
UN/RJ/0000740	2117	मोहम्मद रिजवान/मोहम्मद युनुस	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	1491 बालाजी की कोठी का रास्ता, भिस्तियों की मस्जिद के पास, घाटगेट जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000741	2118	मोहम्मद मुजाहिद उल इस्लाम/मोहम्मद अजहर उल इस्लाम	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	मकान नम्बर-930-ए, काजी का नला, घाटगेट जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000742	2119	दिलशाह अहमद/ऐजाज अहमद	बी.यू.एम. एस. 2015	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर	117 आदर्श मौहल्ला घासमण्डी पतंग मार्केट जोधपुर 342001 राजस्थान
UN/RJ/0000743	2120	शारिक खान/आगा शाहनवाज खान	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	91 वन विहार कॉलोनी, ईदगाह दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर 302002 राजस्थान
UN/RJ/0000744	2121	चौधरी शाजिया/चौध मौ0 मुब्बशीर	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	1567 खाचरियावास हाउस, गंगापोल गेट, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000745	2122	बुशरा खान/एजाज अनवर खान	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	द्वारा प्लॉट नम्बर-20, मौ0 इलियास अहमद शमशी, बरकत कॉलोनी, गंगापोल जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000746	2123	मौ0 फारुक/मुनव्वर हुसैन	बी.यू.एम. एस. 2013	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	के-18, अमृतपुरी कॉलोनी, वार्ड नम्बर-15, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000747	2124	आरिफा सिद्दीकी/इरफानुल्लाह सिद्दीकी	बी.यू.एम. एस. 2010	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	अब्दुल लतीफ खां, 97/35 खानिया बंधा आगरा रोड, जयपुर राजस्थान
UN/RJ/0000748	2125	मौहम्मद साबिर खान/शेर मोहम्मद खान	बी.यू.एम. एस. 2014	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सी-156 पुराना विद्याधर नगर, बस स्टेण्ड के सामने, जयपुर 302039 राजस्थान

केन्द्रिय पंजिका संख्या	राज्य पंजीयन संख्या	नाम/पिता का नाम	अर्हता उत्तीर्ण वर्ष	प्रदाय निकाय	पता
UN/RJ/0000749	2126	मोहम्मद शोएब खान/अब्दुल हलीम खान	बी.यू.एम. एस. 2015	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर	107 अपोजित मोहित स्कूल मुख्य मार्ग, आदर्श कॉलोनी, वार्ड नम्बर-25 निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ 312601 राजस्थान
UN/RJ/0000750	2127	अब्दुल रऊफ/अब्दुल शकूर	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	5434 के0जी0बी0 का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000751	2128	शाहीन परवीन/रफीक अहमद	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	व्यास पेट्रोल पम्प के पास, मांगरोल तहसील व जिला बारां 325215 राजस्थान
UN/RJ/0000752	2129	सद्दाम बैग/ऐजाज बैग	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदर की गली चटीकना करौली राजस्थान
UN/RJ/0000753	2130	इकबाल आलम/अकील आलम	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	नसीम क्लिनिक, नागोरी पुलिया लालसोट रोड, दौसा 303303 राजस्थान
UN/RJ/0000754	2131	मौहम्मद उमर/अख्तर अली	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर-9/2 रोशन कॉलोनी, पुलिया नम्बर-2, ईदगाह दिल्ली बाईपास जयपुर 302003 राजस्थान
UN/RJ/0000755	2132	राकेश कुमार शर्मा/राधा रमन शर्मा	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	ग्राम पोस्ट सिकरोरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर 321201 राजस्थान
UN/RJ/0000756	2133	मौहम्मद इस्माईल/नसीर मौहम्मद	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	16 रागनियों का बास, एस0पी0 ऑफिस के पास, नवल खां रोड, पाली मारवाड 306401 राजस्थान
UN/RJ/0000757	2134	असद अहमद/जहीर अहमद	बी.यू.एम. एस. 2015	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	खमोरी की गली, पांच बत्ती, वार्ड नम्बर-29 जिला टोंक 304001 राजस्थान
UN/RJ/0000758	2135	सरफुद्दीन/बुन्दू खां	बी.यू.एम. एस. 2012	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्लॉट नम्बर-248-सी, पांच नीम बांसबदनपुरा जिला जयपुर 302002 राजस्थान

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April 2019

No. CRIM/2019-Notification.—Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) maintained a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine who possess any of the medical qualification recognized under the Act.

The CCIM shall maintain and revise the Central Register of Indian Medicine from time to time and publish it in the Gazette of India and in such other manner as may be prescribed. Such register shall be deemed to be a public document within the meaning of Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette of India.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby revise the Central Register of Indian Medicine by publishing the names of persons enrolled in the State Register of the following State Board/Council since inception to the period as mentioned below in the table which is to be published in the Gazette of India for general information:-

The details of the first revised list of practitioners of the following State which have been included in the Central Register of Indian Medicine are hereby published.

Sl. No.	Name of State	Name of Council/ Board	Period	C.R. Number
---------	---------------	------------------------	--------	-------------

1	Rajasthan	Board of Indian Medicine, Rajasthan	Since inception to August 2017	UN/RJ/0000001 to UN/RJ/0000758
---	-----------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Recognized qualifications and abbreviation thereof are included in the Schedules to the IMCC Act, 1970 and updated from time to time.

Note:- (1) Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

(2) If there is any discrepancy between English and Hindi version, the English version is treated as final.

SHAMSHAD BANO, Registrar

[Advt.-III/4/Exty./68/19]

Name of the President, the Vice Presidents and the Registrar

Sr. No.	Designation	Name
1.	President	Dr. Deopujary Jayant Yeshawant President, CCIM 199, Shankar Nagar, Nagpur-440 010 (MS)
2.	Vice-President (Ayurveda)	Dr. B.R. Ramakrishna Athreya Health Paradise, # 2479/1, 17th main, 25th cross, Banashankari 2nd stage, Bangalore- 560070
3.	Vice-President (Unani)	Dr. Shaikh Zubair Ahmed Mohamed Ebrahim C/6, Lila Ram Bhawan, Dr. Amberdkar Road, Dandpada Khar(W), Mumbai -400 055 (MS)
4.	Vice-President (Siddha)	Dr. V. B. Vijayakumar Sree Varsha, Nannattukavu, Pothencode PO, Thiruvananthapuram (Kerala)
5.	Registrar-cum-Secretary	Dr. Shamshad Bano Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, NewDelhi-110058

Name of the Member(s) (State Wise)

Sr. No.	State	Member Name
1.	Rajasthan	Vaidya Raghunandan Sharma A-632, Vidyut Nagar, Ajmer road, Jaipur-302019 (Rajasthan)
2.	Rajasthan	Dr. Govind Sahay Shukla Dr. S.R. Rajasthan Ayurved University, Jodhpur (Rajasthan) Karwad, Nagaur road Jodhpur Rajasthan – 342037
3.	Rajasthan	Vaidya Kamalesh Kumar Sharma 19, Kalya Nagar-3, Behind Morani Motors, Sitabari, Tonk Road, Jaipur-302029 (Rajasthan)
4.	Rajasthan	Dr. Aadam Inside Sojati Gate,

	behind Masjid Teliyan, Jodhpur (Rajasthan)
--	---

PREFACE

1. The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted vide IMCC Act, 1970 (48 of 1970) to regulate the Education and Practice in Indian Medicine and matter related thereto.
2. The Central Register of Indian Medicine is the register of Practitioners in separate part for each of the system of Indian Medicine which shall contain the names of the all persons who are for the time being enrolled on any State Register of Indian Medicine and who posses any of the recognized medical qualifications.
3. The CCIM shall maintain and revise the Central Register of Indian Medicine from time to time and publish it in the Gazette of India and in such other manner as may be prescribed. Such register shall be deemed to be a public document within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) and may be proved by a copy published in the gazette of India.
4. **Preparation/maintenance of CRIM** - Each State Council/Board shall supply to the Central Council three printed copies of the State Register of Indian Medicine as soon as possible, and each State Council/Board shall inform the Central Council without delay of all additions to and other amendments in the State Register of Indian Medicine made from time to time.
5. **Registration in the Central Register of Indian Medicine** – The Registrar of the Central Council may on receipt of the report of registration of a person in a State Register of Indian Medicine or on application made in the prescribed manner by any person, enter his name in the Central Register of Indian Medicine, provided that the Registrar is satisfied that the person concerned is eligible under this Act for such registration.
6. **Removal of names from the Central Register of Indian Medicine** –
 - (1) If the name of any person enrolled on a State Register of Indian Medicine is removed there from in pursuance of any power conferred by or under any law relating to registration of practitioners of Indian medicine for the time being in force in any State, the Central Council shall direct the removal of the name of such person from the Central Register of Indian Medicine.
 - (2) Where the name of any person has been removed from a State Register of Indian Medicine on any ground other than that he is not possessed of the requisite medical qualifications or where any application by the said person for restoration of his name to the State Register of Indian Medicine has been rejected, he may appeal in the prescribed manner and subject to such conditions, including conditions as to the payment of a fee, as may be prescribed, to the Central Government whose decision, which shall be given after consulting the Central Council, shall be binding on the State Government and on the authorities concerned with the preparation of the State Register of Indian Medicine.
7. **Privileges of persons who are enrolled on the Central Register of Indian Medicine** - Subject to the conditions and restrictions laid down in this Act regarding practice of Indian medicine by persons possessing certain recognized medical qualifications, every person whose name is for the time being borne on the Central Register of Indian Medicine shall be entitled according to his qualification to practice Indian medicine in any part of India and to recover in due course of law in respect of such practice any expenses, charges in respect of medicaments or other appliances or any fees to which he may be entitled.
8. **Registration of additional qualifications** –
 - (1) If any person whose name is entered in the Central Register of Indian medicine obtains any title, diploma or other qualifications for proficiency in Indian medicine which is a recognized medical qualification, he shall, on application made in this behalf in the prescribed manner, be entitled to have an entry stating such other title, diploma or other qualification made against his name in the Central Register of Indian Medicine either in substitution for or in addition to any entry previously made.

(2) The entries in respect of any such person in a State Register of Indian medicine shall be altered in accordance with the alterations made in the Central Register of Indian Medicine.

9. **Persons enrolled on Central Register of Indian Medicine to notify change of place of residence and practice** – Every person registered in the Central Register of Indian Medicine shall notify any transfer of the place of his residence or practice to the Central Council and to the Board concerned, within ninety days of such transfer, failing which his right to participate in the election of members to the Central Council or a Board shall be liable to be forfeited by order of the Central Government either permanently or for such period as may be specified therein.

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NEW DELHI

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

As maintained under Section 23 of the IMCC Act, 1970

PART - II (UNANI)

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
Rajasthan (Unani)					
UN/RJ/0000001	535	Hanuman Das Agrawal / Jagannath Prasad Agrawal	Umde-Tul Hukma 1961	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	J-81, Aadrash Nagar, Ashok Chowk, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000002	537	Abdul Rashid Khan / Abdul Gafoor Khan	Umde-Tul Hukma 1963	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Sabir Colony, Plot No. 8, Gangapol, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000003	540	Habib Hassan Khan / Ahmad Hasan Khan	Umde-Tul Hukma 1962	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Irfan Dwakhana, Chhabilwali Masjid, Ramgand Bazar, Jaipur-302003, Rajasthan
UN/RJ/0000004	556	Gulam Husain / Karim Bakhsh Jarrah	Umde-Tul Hukma 1977	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	500, Luharo Ka Khurra, Tophkhana Hajuri, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000005	578	Abdul Hakim Khan / Abdul Kadir Khan	Tabib-Fazil 1966	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Mohalla Bhri, Talab Ke Samne, Gahlodh Road, Tonk 304001, Rajasthan
UN/RJ/0000006	581	Ibadullah Khan / Asadullah Khan	Tabib-Fazil 1966	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Aminiya, Unani Dwakhana, 5 Basti, Kaliplatan Road, District Tonk, Rajasthan
UN/RJ/0000007	585	Gulam Nabi Khan / Mohammad Ibrahim Khan	Umde-Tul Hukma 1966	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Dwakhana Rafique Aam Chandopal Bazar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000008	590	Ajj Hasan Khan / Ahmad Hasan Khan	Tabib-Fazil 1965	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	House No. 1082, Gangapol Clinic, 4 Darwaza Road, Gangapol, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000009	607	Birdhichand / Shankar Lal	Tabib-Fazil 1966	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Babro Ka Chowk, Purani Tonk 304001, Rajasthan
UN/RJ/0000010	655	ZahoorAhmad Siddiqui / Noor Ahmad Siddiqui	Umde-Tul Hukma 1961	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Nurani Dwakhana 5 Basti Tonk, Rajasthan
UN/RJ/0000011	658	Shaikh MahmoodAhmad / Hafiz Manjur Ahmad	Tabib-Fazil 1969	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Hafiz Hatwara Bazar Mohalla, Khariyan, District Karoli, Rajathan
UN/RJ/0000012	659	Abid Ilahi / Mohammad Yaqoob	Umde-Tul Hukma 1971	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Medti Silawatan Sojti Gate Ke Ander, Jodhpur, Rajathan
UN/RJ/0000013	660	Abdul Kadir / Maulvi Abdullah Sahab	Umde-Tul Hukma 1969	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	344, Jalupur Sansarchand Road Ke Paas, Jaipur 302001, Rajasthan
UN/RJ/0000014	661	Shivcharan Gupta / Damodar Lal	Umde-Tul Hukma	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College,	Shop No. 322, Kishanpol Bazar, Ajmeri Gate, Jaipur,

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000015	663	Gupta Abdul Quam Shirvani / Abdul Gafoor	1972 Umde-Tul Hukma 1971	Jaipur Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Rajasthan Nichla Bazar, Boli Sawai Madhopur, Rajasthan
UN/RJ/0000016	670	Ibrahim / Shaikh Mohammad Ali	BUMS 1963	Aligarh Muslim University, Aligarh	R/o Husain Dispensary, Jhalrapatan 326023, Rajasthan
UN/RJ/0000017	678	Mohammad Iqbal Khan / Mohammad Ibrahim Khan	Umde-Tul Hukma 1974	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Chandpol Bazar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000018	679	Haider Hassan Khan / Ali Asan Khan	Umde-Tul Hukma 1974	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Plot No. 1, Fazil Shah Colony, Shani Maharaj Ke Mandir Ke Pass, Dakoto Ka Mahola, 4 Darwaza Bahar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000019	684	Jalaluddin Arisar / Mohammad Siddiqui	Tabib-Fazil 1974	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Dudiya Kalana Via Sanawada District Barmer, Rajasthan
UN/RJ/0000020	690	MukhtyarAhmad / Haji Karim Baksh	Tabib-Fazil 1967	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Mukam Post Mozamabad, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000021	693	Mustaq Ali dil / Haji Karim Baksh	Tabib-Fazil 1968	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Phootla Bazar, Ward No. 18, Jhunjhunu, Rajasthan
UN/RJ/0000022	695	Mohammad Sammiulla / Manjur Khalilullah Shah	Umde-Tul Hukma 1978	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	House No. 4693, 4 Darwaza, Ande Wali Gali, Ghoda Nikas Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000023	705	Shaikh MaqsoodAhmad / Manjur Ahmad	Umde-Tul Hukma 1980	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Hafiz Dwakhana, Hatwada Bazar, Kroli, Rajasthan
UN/RJ/0000024	709	Sayyed Nazmuddin / Syed Manjur Ahmad	Tabib-Fazil 1978	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	Mukam Post Niwana Via Itawa, Bhopji District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000025	710	Smt. Kherunisha / Mahfuj Ali	Tabib-Fazil 1980	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	R/o 4450 Nisha Clinic, Ghoda Nikas, Ramganj Bazar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000026	716	Ghulam Kutub Chisti / Mohammddin Chisti	BUMS 1983	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o 34-B, Deen Manjil, Darbar Colony, Laxman Dungari, Idgah, Delhi Bypass Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000027	718	Hafizuddin / Moyn Uddin	BUMS 1983	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o Usmani Clinic, Dariyon Ka Rasta, Banjara Basti, Surajpol Road, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000028	728	Mohammad Hafiz Khan / Mohammad Hanif Khan	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o Khan Clinic, Masjid Bahadar Faryan Walo Ka Rasta, Chandpur, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000029	730	Ali Raza Khan / Ahmad Raza	Tabib-Fazil 1981	Rajputana Ayurvedic and Unani Tibbia College, Jaipur	R/o B 194, Sanjay Nagar, Batta Basti, Shahtri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000030	732	Syed Ali Khan / Mahmood Ali Khan	BUMS 1980	Aligarh Muslim University, Aligarh	1/105 Van Vihar Colony, Idgah Delhi Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000031	735	Syed Mohammad Ali / Syed Waseet Ali	BUMS 1982	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Imliwala Hakim, Jagannath Shah Ka Rasta, House No. 3636, Motikatla Char Darwaza, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000032	738	Javed Iqbal / Jalil Ahmad	BUMS 1982	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o 3848, Rasta Furra Khuta Khurra, Ramganj Bazar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000033	739	AdibAhmad Khan / Masit Ulla Khan	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o 24807 Banzara Basti, Mithi Kothi Ka Rasta, Kayyum Johari Chowk,

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000034	740	Mahmood Lahsan Ansari / Shafiq Ahmad	BUMS 1983	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Alzhin Masjid, Surajpol, Jaipur 302003, Rajasthan R/o Ward No. 19, Agency Area, Masjid Ke Pass, Dewali District Tonk, Rajasthan
UN/RJ/0000035	741	Syed Abuzar Zaidi / Afaq Ali Jedi	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	1-82, Van Vihar Colony Housing Board, Idgah, Delhi Bypass, Jaipur, Rajasthan R/o Gram Dubbi Khurd Post Mokholi District, Sawai Madhopur, Rajasthan
UN/RJ/0000036	743	Kultyaj Khan / Idyan Khan	BUMS 1983	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	2929 Choutha Choraha, Kalyanji Ka Rasta Chanpol Bazar District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000037	744	Ahsamuddin Qureshi / Muraz Mohammad	BUMS 1982	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	House No. 26/89 Shikarpur Road, Sanganer, Jaipur, Rajashtna
UN/RJ/0000038	746	Gyas Anwar Khan / Mohammad Anwar Khan	BUMS 1983	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o 37 Sohrao Clinic, Adarsh Nagar Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000039	756	Abdullah Zafar / Zafar Ahmad Siddiqui	BUMS 1985	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Badi Masjid Ke Pass-8, Fatehpur Sikar, Rajasthan
UN/RJ/0000040	760	Mohammad Haroon Khan / Sahimuddin Khan	BUMS 1985	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o Rais Clinic Bus Stand Ke Pass, Panchayat Smiti Ke Pass, Hindon City, District Sawai Madhopur, Rajasthan
UN/RJ/0000041	761	RaisAhmad / Kamruddin Khan	BUMS 1985	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Badrakha Gadhmukteshwar, District Gaziabad, Uttar Pradesh
UN/RJ/0000042	764	Shabrati Khan / Insha Allah Khan	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o Rajkiya Unani Dwakhana Parisar City, Dispensary No. 5, Kota Gate, District Bikaner 334001, Rajasthan
UN/RJ/0000043	770	ShakeelAhmad / Abdul Hameed	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o 152 Idgah Kachi Basti, Delhi Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000044	778	Tajjan Khan / Habib Ullah	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Babur Wali Masjid Chatikna, Karoli, Rajasthan
UN/RJ/0000045	779	Mirza Waheed Baig / Ashfaq Baig	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	196-R, Oswalo Ke Nyati Nohre Ke Samne Mohalla Choubdaran, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000046	781	Mohammad Iqbal / Shahwaj Khan	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	House No. 88, Shanti Priya Nagar Road, Nandan Van, District Jodhpur 342008, Rajasthan
UN/RJ/0000047	785	ShamimAhmad / Mohammad Mustafa	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o House No. 22, Fazil Shah Colony, Chardarwaja Ke Bahar, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000048	788	Mustafa Kamal / Mohammad Usman Aqeel	BUMS 1985	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Ward No. 9, Rajkiya Unani Dwakhana, Bhadra, District Hanumangadh, Rajasthan
UN/RJ/0000049	795	AqeelAhmad / Abdul Shakur	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Village Jaloda. Po Rajamthai, Tahsil Pokran, District Jaisalmer, Rajasthan
UN/RJ/0000050	797	Mohammad Ismail / Jabbar Ahmad	Fazil-ut-Tibb 1983	Jamia Tibbia Darul-Uloom, Deoband, UP	R/o Gram Post Gomat Tahsil Pokran, District Jaisalmer 345021, Rajasthan
UN/RJ/0000051	807	Mohammad Usman Qasmi / Haji Mir Mohammad	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000052	808	Mansoor Ali / Raheem Baksh	BUMS 1984	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Gangpur Road, Near Lalkothi, Nehru Nagar, Kota 324006, Rajasthan
UN/RJ/0000053	811	Zamil Akhtar / Khalil Ur Rahman	BUMS 1983	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	102, F, Ichhavatan Basbadanpura, Ward No. 73, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000054	813	Ilyas Ahmad / Bashiruddin	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o Behind 12 Badi Masjid, Chhatary Ke Pass, Kho-Nagoriya, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000055	817	Laik Ahmad Khan / Sardar Wali Khan	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	654, Ramngar, Shahtri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000056	820	Shamim Uddin Farooki / Fahim Uddin	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	D-59, Ramnagar, Shasatri Nagar, Jaipur 302016, Rajasthan
UN/RJ/0000057	821	Nazam Jaki / Syed Ahmad Jaki	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	3-C-19, Housing Board, Shahtri Nagar, Jaipur 302016, Rajasthan
UN/RJ/0000058	829	Noor Hassan / Akhtar Hasan	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	76-III-18, Pwd Colony, Sirohi 307001, Rajasthan
UN/RJ/0000059	830	Israrunnabi / Zia un nabi	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Plot No. 43, Dhanna Das Ki Bagichi, Central Jai Ka Pichhe, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000060	831	Shabbir Ahamed Khan / Syed Ahmad	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Rajkiya Unani Dwakhana, Naneu Via Falodi, District Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000061	833	Fayyaz Ahmad / kamruddin	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	58, Ward No. 04, Mohalla Vyapariyan Usmaniya Masjid Ke Pichhe, Ratehpur Shaikhavati, District Sikar-Rajasthan
UN/RJ/0000062	834	Safadar Raza / Muzaffar Husain	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Dargah Salar Pir Kumari Road Vasani Vahelima Vasani, Nagour, Rajasthan
UN/RJ/0000063	835	Afroz Alam Khan / Mohammad Shah Khan	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o Mlarna Dungar Tahsil, Malarna Dungar, District Sawai Madhopur 322028, Rajasthan
UN/RJ/0000064	836	Syed Mohammad Nazam / Syed Mohammad	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	347 Pargati Nagar, Kotda, Ajmer, Rajasthan
UN/RJ/0000065	837	Muhammad Aslam Khan / Muhmamad Bashir Khan	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Govt. Unani Dispensary, Churu 302033, Rajasthan
UN/RJ/0000066	839	Muhammad Yusuf / Anwar Ali	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o A-199, Sanjay Nagar Bhatta Basti, Shahtri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000067	843	Mahmood Ahsan / Mohammad Hasan Hasan Siddiqui	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	189, Sanjay Nagar B, Kalwad Road, Jhodwara, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000068	846	Hamidullah Khan / Muhib ullah Khan	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Gram Post Vijwar Badai, District Basti, Uttar Pradesh
UN/RJ/0000069	847	Malik Jalil Ahmad / Malik Din ullah	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Rajkiya Unani Dwakhana, Rohat Pali, Rajasthan
UN/RJ/0000070	848	Abdur-uf Qasmi / Yar Mohammad	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Yaar Mohammad Masjid Ki Dhani Kanasriya Post Naneu, Tahsil, Flodi Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000071	849	Sarfaraz Alam Siddqui / Azaz Ahmad	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Gram Khedvi Post Vavrpur Via Chanpur, District Bijnor 246725, Uttar Pradesh
UN/RJ/0000072	850	Nawajul Haque / Asrarul Haque	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	House No. 235/3, Moin House Kunhara Mohalla,

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000073	851	Farman Uddin / Wahid Ahmad	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Masjid Ke Pass, Delhi Gate Ke Ander, Ajmer 305001 Rajasthan
UN/RJ/0000074	856	Mohammad Haziq / Mohammad Zahid	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Ridmsalar Sipahiyan Panchayat, Purohitan District Bikaner, 334002 Rajasthan
UN/RJ/0000075	857	Ishaq Ahmad / Mohammad Baksh	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	1 B 16 Chopasani Housing Board, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000076	858	Shami Mur Rahman Siddiqui / Hafizur Rahman Siddiqui	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o Gram Post Gamdi Dewal, District Dungarpur, Rajasthan
UN/RJ/0000077	861	Syed Shahid / Syed Hakim Ali	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o Shahin Clinic, A-6, Chaudhary Colony, Rawal Ji Ki Mori Char Darwaza, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000078	863	Tanvir Ahmad / Abdul Kais	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	212 Mahawato Ki Masjid Ward No. 31, Tahsil, Jodhpur, District Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000079	866	Afzal Baig / Anwar Baig	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	House No. 39, B-10, Nai Ki Bagichi, Second Gali, Nandvan, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000080	879	Riyaz Ahmad Khan / Nazeer Mohammad	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o A-43, Kabir Nagar, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000081	882	Rehana Khatoon / Abdula Razzaq	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Aamer Clinic Aamer, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000082	883	Mahboob Akhtar / Abdul Hui	BUMS 1988	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Santosh Ji Ka Makan, Near Kukli General Store, Chataiganj, Ajmer, Rajasthan
UN/RJ/0000083	885	Izzat Ullah Khan / Hiqmat Ulla Khan	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	House No. 113, Hussain Colony, Beniwal Kanta, Ramgarh Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000084	888	Ali Hassan Khan / Aladin Khan	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o Plot No. 131, Khairthal Road, Shiv Colony Kishangarh Bas, Alwar, Rajasthan
UN/RJ/0000085	893	Ashraf Ahmad / Abdul Kadir	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Gram Azamnagar Post Kreda Khurd, Tahsil, Chaksu, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000086	897	Basharat Ali Zafari / Rahat Ali Zafari	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	A-59, Kabir Nagar, Pratap Nagar, Sursagar, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000087	900	Bahadur Khan / Sharif Khan	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o A-33, Ravi Vihar, Madina Nagar, Kho Nagori, Raipur 302017, Rajasthan
UN/RJ/0000088	901	Ramkishor Sharma / Jamnalal Sharma	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	H.M.T Power House Ke Pichhe, Sharif Nagar, Gali No. 1, Vyavar Road, Ajmer 305001, Rajasthan
UN/RJ/0000089	903	Raza Ali Khan / Chaila Khan	BUMS 1988	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Vardhman Nagar A-422, Shayam Nagar, Hirapura 36 Dukan Ke Pichhe, Radha Krishan Ke Pass, Jaipur 305001, Rajasthan
UN/RJ/0000090	907	Mohammad Uves / Mohammad Aqeel	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	Delhi Health Clinic, Jagannath Shah Ka Rasta, Ramaganj, Jaipur 203003, Rajasthan
UN/RJ/0000091	912	Shahadat Ali /	BUMS	Board of Indian Medicine,	K.K. Complex, Ramganj Bazar, Flat No. 12, 1St Floor, Jaipur, Rajasthan
					Janta Clinic, Hanuman

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Aushaf Ali	1987	Rajasthan, Jaipur	Mandir Ke Pass, Hasanpura, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000092	930	Irfan Ali / Iqbal Ahmad	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	B-825, Battha Basti, Shahtri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000093	953	Abdul Shakur / Abdul Sattar Khan	BUMS 1989	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 9, Choudhary Colony Gangapol Gate, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000094	971	Shaikh Muhammad Hassain / Muhammad Hanif	BUMS 1989	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o Purani Police Line, Rai Ka Bagh, Jodhpur 342006, Rajasthan
UN/RJ/0000095	978	Rafi Ahmad Khan / Shaifi Ullah Khan Shahab	BUMS 1989	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	791, Panchvi Chaopasani Road, District Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000096	981	Islamuddin / Babu Khan	BUMS 1989	University of Rajasthan, Jaipur	21 A Krishna Colony Vainival, Kanta Ramgarh, Modh, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000097	987	Abdul rafi q khan / Abdul Aziz Khan	BUMS 1987	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	A-41, Jagannathpuri, Noorani Masjid Ke Pass, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000098	988	Shaheen Fatma / Abdul Hameed Siddiqui	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	214 Jiyauddin Colony, Char Darwaza Ward No. 56, Jaipur 302003, Rajasthan
UN/RJ/0000099	989	Rafi Ahmad Barkati / Manjurul Hasan Barakati	BUMS 1986	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o 8, Padampura House, Char Darwaza Gangapol Road, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000100	993	Mustqim Ahmad Gaud / Hazi Mohammad Islam	BUMS 1989	Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur	R/o 18/1524 Mersi Colony, Opposite Mahamandir Railway Station Near Banshi Kirana Store, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000101	999	Siraj Ahmad / Muhammad Lais	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	91, Hospital Road Ward No. 8, Body District Dholpur, Rajasthan
UN/RJ/0000102	1004	Shahid Lateef / Latifur Rahman	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 99-100, Kailashpuri, Amer Road, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000103	1008	Naseem Ahmad / Rashid Ahmad	BUMS 1989	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Foota Kot Kunda Tahsil, Aamer, District Jaipur 302028, Rajasthan
UN/RJ/0000104	1011	Shafiq Ahmad / Mohammad Mohammad Zarif	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	R/o House No. 13 A 2, Bb Fatima Colony, Ramgarh Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000105	1012	Mohammad Safi / Ida Khan	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	R/o C-19, Murlipura Scheme Via Vishkarma Area, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000106	1017	Syed Zulfiqar Ali / Syed Iftekhhar	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 910 J P Colony Shahtri Nagar, District, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000107	1026	Fakhruddin Shah / Hasan Shah	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Jhanwaro Ki Gali, Post Begu, District Chitodgarh 312023, Rajasthan
UN/RJ/0000108	1029	Khaleel Ahmed / Rafiq Ahmad	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	53, Patel Nagar, Patel Nagar, Khonagoriyan, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000109	1032	Mohammad Masum / Mahmood Hasan	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	Tyagi Clinic Plot No. C-674, Bhatta Basti Shahtri Nagar, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000110	1038	Mohammad Ikramuddin Agwan / Kamruddin Agwana	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	Prof. Lt. Kender Kanoj Tahsil, Madesar District, Chitodgarh, Rajasthan
UN/RJ/0000111	1041	Ravikant / Parmod Kumar	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	Via Crpf Lalwas, Moti Colony, Jaipur 302027,

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000112	1046	Ragib Hasnain / Syed Alamdar Raza Zaidi	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	Rajasthan Raj Clinic Nagina Masjid Ke Niche Aamer, Jaipur 302028, Rajasthan
UN/RJ/0000113	1054	Afroz Ahmad Khan / Sami Ullah Khan	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	Marwad Health Centre P 220, G-Sector, Pratap Nagar, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000114	1061	Khan Zalat Yaqub / Mohammad Yaqoob Khan	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	69 Krishna Colony, Beniwal Kante Ka Paas, Ramgarh Road, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000115	1063	Iqbal Mahommad / Kasam Mohammad	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	Gram Post Badliawas Tahsil Kotdi, District Bhilwada, Rajasthan
UN/RJ/0000116	1064	Nisar Ahmad / Abdul Abdul Wahid	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	C-321, C-Block, Vidhyadhar Nagar, Bus Stand Ke Samne, Word No. 69, Jaipur 302023, Rajasthan
UN/RJ/0000117	1065	Mahmud Ahmad / Iqbal Ahmad	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	20-A, Jagdish Colony, New Ramgarh Mor Amer Road, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000118	1067	Ejaj Murtajba / Munashish Husain	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 217, Insari Manzil, Aggarwal Complex, Near Ramganj Chopar, Jaipur 302029, Rajasthan
UN/RJ/0000119	1069	Baldev Raj Thakral / Desraj Thakral	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	F-11, Major Shaitan Singh Colony, Shahtri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000120	1073	Om Prakash Bhatia / Gopi Chand Bhatia	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 595, Sindhi Colony Aadarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000121	1074	Zahid Ali Khan / M.B. Khan	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	Dawara Bund Khan (Circuit House Wale) Statum Sinema Ke Pichhe, Uday Mandir, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000122	1078	Rashid Akhtar / Mohammad Naseem	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 13 B, Old Police Line, Bank Colony, Suncity Public School Ke Paas, Rani Ka Bagh, Jodhpur 342006, Rajasthan
UN/RJ/0000123	1079	Rizwan Mohammad Khan / Iqbal Mohammad Khan	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 19/87 Ramjanji Ka Hatha Ekta Nagar, Naddi Bhandar, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000124	1084	Mohammad Nasir / Ghulam Mohyuddin	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	G M Nursing Home, Hasanpura-A, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000125	1085	Syed Waseem Ahmad / Syed Wakeel Ahmad	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	Bambari Gulzarpur Word No. 46, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000126	1103	Abdul Ajj Khan / Abdul Karim Khan	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	R/o House No. 38 A, Babu Colony, Umrao Kha Petrol Pump Ke Pichhe, Chopasani Road, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000127	1107	Shakeel Ahmad Khan / Jameel Ahmad Khan	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Golnadi, Ummad Chowk, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000128	1108	Imran Uddin Ahmad Khan / Fakhurddin Ahmad	BUMS 1993	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 202 Gali No. 5 Rajiv Gandhi Colony, Kamla Nehru Nagar, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000129	1110	Jalaluddin Khan / Badalsher Khan	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	R/o G-137, Pratap Nagar, District Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000130	1116	Jamal Ahmad Khan / Iftekhar	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	Gram Sambhal, District Gond Uttar Pradesh

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000131	1120	Ahmad Khan Javed Akhtar Ansari / Mohammad Mustafa	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	B-135, Kamla Nehru Nagar, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000132	1123	Mohammad Irshad Khan / Murad Baksh	BUMS 1993	University of Rajasthan, Jaipur	2811 Jogiy Ka Tiba, Foota Khurra, Ramganj Bazar, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000133	1124	Mohammad Aslam Tyagi / Ashraf Ali	BUMS 1993	University of Rajasthan, Jaipur	Tyagi Mansion C-189, Vidhadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000134	1125	Shahnaz Parveen / M.A. Tyagi	BUMS 1993	University of Rajasthan, Jaipur	Tyagi Mansion C-189, Vidhadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000135	1129	Jagdish Pandey / D.D. Pandey	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	15, Pandey R/o Rai Ka Bagh, Jodhpur 349006, Rajasthan
UN/RJ/0000136	1134	Tahir Hassan / Shabbir Ulhasan	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 4830, Bahram Khan, Dadar Marg, Aap Samoj Ke Samne, Ghoda Niwas, Niwas, Rajasthan
UN/RJ/0000137	1136	Mohammad Naushad / Mohammad Ayyub Khan	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	101 B, Ali Nagar, Amer Road, Jal Mahal, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000138	1141	Shakeel Ahmad / Jeemal Ahmad	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	2/26, Van Vihar Colony Delhi Bypass, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000139	1142	Mohammad Akram / Hasrat Ali	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	80-81, Friends Colony, Ramgarh Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000140	1143	Shahida Begam / Maqsood Ali	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	Shakil Ahmad 2/26, Van Vihar Colony Delhi Bypass, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000141	1153	Mohammad Israil / Zahid Hasan	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	Kama Kagzi Gali No. 3, Nagouri Gate, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000142	1154	Aslam Pervaiz / Riaz Hussain	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	Quarter No. Anm 1St C-H- C-Campus Thanagazi, District Alwar, Rajasthan
UN/RJ/0000143	1157	Mohammad Tabis Khan / Mohammad Shafi Khan	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 7/97 Malviya Nagar, Jaipur Ward No. 37, Jaipur 302017, Rajasthan
UN/RJ/0000144	1165	Mobin Hassan / Manjur Hasan	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	B-29, Krishna Colony Ramgarh Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000145	1170	Hassan Raza / Ahmad Raza	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	Raza Dwakhana Moti Dugri Road Lal Kothi Thane Ke Pass, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000146	1171	Mohammad Akram Qureshi / Hafiz Nasiruddin	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 143, Bhomiyazi Ki Chhatri, Aadarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000147	1184	Ashraf Ali Baig / Mubark Ali Baig	BUMS 1993	University of Rajasthan, Jaipur	93/225, Jp Colony No. 2, Dangari Ward No. 54, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000148	1189	Ashok Kumar Jhalani / Dwarka Parsad Jhalalni	BUMS 1987	Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar	6 N.C. Mahavir Nagar, 1St Narcotics Colony, Tahsil - Ladpura, District Kota, Rajasthan
UN/RJ/0000149	1191	Shahnawaz Hussain / Abdul Latif	BUMS 1981	Delhi University, Delhi	91, Van Vihar Colony, Idgah, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000150	1192	Savita Jayswal / Nawal Kishor Mamor	BUMS 1994	Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar	A-53, Jai Mata Vaishno Nagar A, Gajsinghpura, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000151	1194	Tariq Hussain /	BUMS	University of Rajasthan,	Near Kuchaman Ki Haweli

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Shoukat Hussain	1994	Jaipur	445, Chandana Bhakar Gali No. 13 Kamla Nehru, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000152	1195	Rajendra Kumar Sharma / Ramnarayan Sharma	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 34/226, Vanival Bagh Ke Pass Guzar Gdhati, Jalmahal Amer Road, District, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000153	1196	Naseer Hussain / Syed Arif Hasan	BUMS 1994	University of Rajasthan, Jaipur	A-39, Amritpuri R.A.C. Road Ghatgate, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000154	1197	Syed Mumtaz Ali / Syed Basit Ali	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	3636, Jagannath Shah Ka Rasta, Handipura Chaar Darwaza, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000155	1198	Syed Mohsin Ali / Syed Basit Ali	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	3636, Jagannath Shah Ka Rasta, Handipura Chaar Darwaza, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000156	1199	Adiba Parveen / Zamiruddin	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	23, Utari Sunderwas Vidhya Vihar Colony, District Udaypur, Rajasthan
UN/RJ/0000157	1200	Kadim Qureshi / Tamiduddin Qureshi	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Abdul Tatif Khan, 56, Samne Vilochi Masjid Basbadanpura, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000158	1201	Anis Ahmad Siddiqui / Hidayatulla	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	Azim Colony, Jetaran, District Pali 306302, Rajasthan
UN/RJ/0000159	1203	Nikhath Parveen / Musharraf Rizvi	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	1557, Khachriya House, Gangapol, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000160	1216	Sarwar Khan / Sadul Khan	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Sahriyawas, Mukam and Post Ladnu, District Nagour, Rajasthan
UN/RJ/0000161	1217	Mohammad Saleem / Mohammad Ismail	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	5434, K.G.B. Ka Rasta, Johri Bazar, Jaipur 302003, Rajasthan
UN/RJ/0000162	1219	Ajaz Ahmad Khan / Muhammad Ahmad Khan	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	59, Sanjay Nagar-D, Joshi Marg, Kalwad Road, Jhotwara, Jaipur 302012, Rajasthan
UN/RJ/0000163	1227	Nasruddin / Muhammad Isaac Khan	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	Sajjangarh District Banswara, Rajasthan
UN/RJ/0000164	1228	Syed Zakir Hassan / Syed Shakir Hasan	BUMS 1994	University of Rajasthan, Jaipur	Mohalla Sadat, Malpura, District Tonk, Rajasthan
UN/RJ/0000165	1232	Abdul Rauf Shafi / Chuttan Khan	BUMS 1993	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 616, Balaji Ka Ramganj, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000166	1234	Mirza Jakrullah Baig / Mirza Naim Ullah Baig	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	Gram Alanpur, Post Itikagang, Tada, District Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh
UN/RJ/0000167	1235	Arshad Ali / Anwar Ali	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 229, Nihariyo Ki Gali, Udaymandir, Jhodpur, Rajasthan
UN/RJ/0000168	1236	Iqteyaz Hassan / Syed Meerhasan	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Gram Or Post Parsa Tahsil, Sirathu, District Alahabad, Up
UN/RJ/0000169	1237	Mohammad Aslam Ansari / Ali Mulla Ansa	BUMS 1993	University of Rajasthan, Jaipur	39, Moti Nagar, Habib Marg, Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000170	1240	Qazi Ajaz Ahmad Usmani / Mustaq Ahmad	BUMS 1994	University of Rajasthan, Jaipur	2823, Kalyan Ji Ka Rasta, Chandpol Bazar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000171	1247	Syed Yaseen	BUMS	University of Rajasthan,	Babaramdev Colony, Main

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Ashraf / Syed Sarfaraz Hussain	1994	Jaipur	Bus Stand Ke Pichhe Post Nawera Bawdi, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000172	1248	Mohammad Israd / Mehndi Hasan	BUMS 1994	University of Rajasthan, Jaipur	Kumhariya Kuan, Khanda Falsa Patta Niwas, Haweli Ke Samne, Hanif Pol, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000173	1249	Zakir Hussain / Hasan	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	C-214, Hilal Road, Bhatta Basti, Shahtri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000174	1251	Mohammad Sirajuddin / Zumma Khan	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	Village and Post Achrol, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000175	1252	Balbir Singh / Chandaram	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	18, Engineers Colony, Genius School Ke Pichhe, Pancha Wala, Sirsi Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000176	1253	Tauqir Ahmad / Mohammad Usman	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	P.P.-8, Vivekanand Colony, Mukti Marg, Aadrash Nagar, Jaipur 302004, Rajasthan
UN/RJ/0000177	1254	Sarfarazuddin Afzal / Hanimuddin Nisar	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Dwara Z SLM Advocate Khaipara Police, Kotwali Ke Samne Baran, Rajasthan
UN/RJ/0000178	1256	Uvais Akhtar / Basi Ullah	BUMS 1994	University of Rajasthan, Jaipur	149 - A, Hussain Colony, Beniwal, Kata, Jal Mahal, District - Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000179	1259	Mohammad Ibrahim / Mohammad Sharif	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Gram Post Kakod, Tahsil Uniyara, District Tonk 304024, Rajasthan
UN/RJ/0000180	1260	Mukhtiar Ali Mughal / Usman Gani	BUMS 1993	University of Rajasthan, Jaipur	Ward No. 5, Bas Teliyan, Post and District Churu 331001, Rajasthan
UN/RJ/0000181	1261	Mubark Ali Mughal / Usman Ali	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Ward No. 20, Nai Sadak Bhartiya Kuye Ke Samne, Dusra Choraha, Churu 331001, Rajasthan
UN/RJ/0000182	1263	Syed Mansoor Ali / Manjur Ali	BUMS 1993	University of Rajasthan, Jaipur	Kajipada, Todabhim, District Karoli 321611, Rajasthan
UN/RJ/0000183	1268	Sidaqat Hussain / Abdul Rashid	BUMS 1990	University of Rajasthan, Jaipur	7, Choudhary Vihar, Colony Gangapol Ward No. 51, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000184	1271	Mohammad Usman Siddiqui / Mohammad Rafiq Siddiqui	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	183, Sunar Dhakurpara, Nadanpura, Basedi, District Dholpur, Rajasthan
UN/RJ/0000185	1280	Mohammad Ahsan / Mohammad Yaqoob	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	652, Mehanat Nagar, Near Makka Masjid, Harmada, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000186	1282	Aftab Hussain / Altaf Hussain	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	A-47, Shanti Colony, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000187	1284	Sarkar Haider / Ali Hasan	BUMS 1991	University of Rajasthan, Jaipur	644 Bihari Road Near Shila Bawli, Handipura Amer, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000188	1285	Nirmal Kumar Tank / Ramkishor Sastri	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	Rajkiya Ayurvedic Chikitsalaya, Pipad-Shahar, Jodhpur 342601, Rajasthan
UN/RJ/0000189	1287	Sarfray Ul Islam Ansari / Abdul Aziz Ansari	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	Tohsif Clinic, House No. 2376, Kawtiyo Ka Khurra Ramganj, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000190	1288	Muzafar Hussain / Munnawar Hussain	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 1501, Madina Masjid, Chander Shekhar Ki Bagchi, Nahri Ka Naka, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000191	1289	Mohammad Safwan / Tahir Khan	BUMS 1994	University of Rajasthan, Jaipur	27-54-A Chawbook, Swaram Tahsil Or District, Jaipur, Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000192	1290	Shaukat Ali / Muhammad Syed	BUMS 1994	Aligarh Muslim University, Aligarh	Arawali Vihar Plot No. M 485, Near Idgah Colony, Word No. 10, Lalsot Road, District Dosa 303303, Rajasthan
UN/RJ/0000193	1291	Ahtasham Ali / Munkad Hussain	BUMS 1994	University of Rajasthan, Jaipur	40, Choudhary Gangapol Gate, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000194	1292	Harish Kumar Dhabhai / Manohar Lal Dhabhai	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Shivsadan Mochi Market Shivanchi Gate, District Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000195	1300	Abdul Zahir / Abdul Kadir	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Gram Post Malarna, District Dunger, Sawai Madhopur 322028, Rajasthan
UN/RJ/0000196	1301	Hanis Khan Mansuri / Suva Khan Mansuri	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Gram Mandawara Fagi, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000197	1302	Parvez Akhtar / Muzzafar Ahmad	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o A-18, Tiwadiji Ka Bagh, Aadrash Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000198	1303	Ibrahim Khan / Karim Khan	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	1St Pahadganj Colony, 1St Post B.S.F., Mandor Road, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000199	1307	Siraj Ul Haq Khan / Daud Khan	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 174, Sanjay Nagar - D, Joshi Marg, Jhotwara, Jaipur 302012, Rajasthan
UN/RJ/0000200	1314	Firoz Ahmad / Zameel Ahmad	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	4288 B, Nursing Colony, Purani Basti, Nahargarh Kile Ke Niche, Jaipur 302001, Rajasthan
UN/RJ/0000201	1318	Zahid Arshad Qadri / Zubair Ahmad	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 90/6, Ichhawatan Bas Badanpura, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000202	1321	Fezan Hussain Khan / Shamshad Hussain Khan	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 5 Humza Manzil, Fakiro Ki Dongari, Amer Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000203	1325	Yogesh Kumar Gupta / Balkishor Das Gupta	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	Gram Post Jadoda Panda, Saharanpur, Up
UN/RJ/0000204	1326	Tasleem Bano / Zafar Khan	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. B-82, Amritpuri, Ghatgate, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000205	1329	Muhammad Aleem Khan / Muhammad Naseer Khan	BUMS 1994	University of Rajasthan, Jaipur	94 Hazrat Alinagar Ramgarh More, District, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000206	1330	Abdul Muid / Abdul Subur	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	79, Azad Nagar, Dongarpur, Rajasthan
UN/RJ/0000207	1331	Sardar Khan / Abdul Aziz Khan	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	549, Moti Nagar, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000208	1339	Saviya Sultana / Zalil Ahmad	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Js-2, Shamshan Choraha, Aadrash Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000209	1341	Irsad Ahmad / Zanam Israr Ahmad	BUMS 1993	University of Rajasthan, Jaipur	R/o House No. 1566, Kamela Gali Md Road, Jaipur 302004, Rajasthan
UN/RJ/0000210	1343	Mohammad Ashraf / Qamruddin	BUMS 1994	University of Rajasthan, Jaipur	Shifa Clinic, Shanti Colony Plot No. 106, Golchha Garden Jawahar, Aagra Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000211	1344	Dilshad Ali / Mohammad Yunus	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Mohalla Kanji Sarai, Chandpur, Bajnor, Uttar Pradesh
UN/RJ/0000212	1347	Chandraveer Singh Rathore /	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 16, Near Ramnagar Gulab Nagar C, Behind

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000213	1348	Shivji Singh Rathod Mohammad Irfan Khan / Sanaullah Khan	BUMS 1992	University of Rajasthan, Jaipur	R.T.O. Office , Jodhpur 342006, Rajasthan 232 Baldev Nagar, Masriya, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000214	1352	Tahseen Alam / Mashkur Alam	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	37 Ward No. 51, Choudhary Bihar Colony, Tahsil and District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000215	1353	Rahat Umar Chauhan / Mohammad Umar Chauhan	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	R/o K-7, Roshan Residency Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000216	1354	Syed Shafiq Ahmad / Asgar Ahmad	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	1150, Van Vihar Colony, Housing Board Idgah, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000217	1357	Mashkooor Ahmad / Syed Mahmood Ahmad	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	1/19, Van Vihar Colony, Idgah, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000218	1358	Mohamad Amir Khan / Shafaqat Ulla Khan	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	1111 Van Vihar Colony, Delhi Bypass, Idgah Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000219	1364	Muhammad Shoaib Azmi / Ikhlaq Ahmad	BUMS 1985	Delhi University, Delhi	R/o 196 B, Hazrat Ali Nagar, Ramgarh More, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000220	1367	Mohammad Yunus / Abdul Wase	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Gazdar Mola Baksh Ji Ki Pol Mohalla Medti Silawatan Ka Bas, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000221	1374	Naseem Ahmad / Abdul Hui	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	R/o House No. 2 C, Ganesh Vihar, Ward No. 73, Ahmad Nagar, Idgah Bypass Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000222	1379	Mohamad Haleem Khan / Mohammad Shafiq Khan	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	Raj Health Centre, Baraktulha Khan Colony, Dalle Kha Patrol Pump Ke Pichhe, Aakhliya Choraha, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000223	1380	Vijay Kumar Pachar / Raghunandan Pachar	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Dhani Aasha Tahsil, Taranagr, Churu, Rajasthan
UN/RJ/0000224	1383	Mohammad Ata Ullah Khan / Ibadullah Khan	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Babu Shifa Panch Batti Kalipaltan Road, Tonk, Rajasthan
UN/RJ/0000225	1384	Mohammad Sajid / Mohammad Ali	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	1St Gali, Colonel Sahab Ki Haweli Ki Gali, Uday Mandir, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000226	1385	Zakir Hussain / Zaheer Mohammad	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Dawara M.H. Kaji Mohalla, Laikan, Sharif Chowk, District - Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000227	1386	Ibadullah Zafar / Zafar Ahmad Siddiqui	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	140 Krishna Colony New Kheda, Ambabadi, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000228	1387	Sanjay Shrivastava / Brij Mohan Shrivastava	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	40 Suye Nagar, Indan Gas Godam Road, Near BJP Colony, Mahamandir, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000229	1388	Abdul Wadud Khan / Abdul Sattar Khan	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 10/40, 37 D.D.P. Nagar, Madhuban Colony, Basani 1St Phase, District Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000230	1389	Abdul Rauf / Abdul Aziz	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Near Neelgro Ki Masjid, Mohalla Sadat, Malpura, District Tonk 304502, Rajasthan
UN/RJ/0000231	1390	Mohammad Ayub Abbasi / Swaleh	BUMS 1995	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Mohalla Hadipura Ward No. 10, Aamer, District -

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000232	1393	Abbasi Irshad Ul Haq / Abdul Zalil Khan	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Jaipur, Rajasthan Near 3 Sofiya Girls College, Ghatgate, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000233	1398	Ramjan Ali Khan / Rais Mohammad Khan	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Udmar Post Jamuni Basti, Uttar Pradesh
UN/RJ/0000234	1399	Nasir Hussain / Mohammad Hussain	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Ward No. 5, Madarshah Ki Badi Mangrol, District Baran, Rajasthan
UN/RJ/0000235	1400	Malik Mohammad Abdur Khan / Malik Mohammad	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Marudhar Clinic, Nagour Gate, Kanga Road, Jhodpur, Rajasthan
UN/RJ/0000236	1402	Sala Uddin Khan / Rafatullah Khan	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	Near Thakur Sahab Ki Aandhali, Matbhar Road, Makrana, Nagour 341505, Rajasthan
UN/RJ/0000237	1404	Mohammad Iqbal / Mohammad Hanif	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 2/64, Nagar Nigam Colony, Amer Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000238	1406	Birdhilal Sunaria / Kanhiyalal Sunaria	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	Gram Mangrol Ward No. 7, District Baran 325215, Rajasthan
UN/RJ/0000239	1407	Mohammad Iqbal Siddiqui / Abdul Hamid Siddiqui	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Plot No. 9, Morzi Ka Bagh, M.I. Road, Jaipur 302001, Rajasthan
UN/RJ/0000240	1412	Sham Sullah Khan / Ghulam Sarwar Khan	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 15/87 Purani Masjid Ke Samne, Ekta Nagar, Ramjanaji Ka Hattha Bnad Road, District - Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000241	1415	Rahat Jan / Abdul Majid	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Balotra District Barmer, Rajasthan
UN/RJ/0000242	1416	Shakeel Ali Zaidi / Qazim Ali Zaidi	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o K-41, Krishnapuri, Meena Ka Tiba Nahari Ka Naka, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000243	1418	Naaz Miyan / Mohammad Miyan	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	1023 Gangapol Road, Char Darwaza, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000244	1419	Mohammad Irfan / Mohammad Yameen	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Gram Post Nawrangpura Via Med Tahsil Viratnagar, District, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000245	1421	Mohammad Aslam / Ibarat Hussain	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	Public Clinic Baba Ramdev Road, Masuriya, District Jodhpur 342003, Rajasthan
UN/RJ/0000246	1422	Anis Ahmad / Rashid Ahmad	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o A-97, Gandhi Vihar, Aksha Masjid, Kho Nagoriyan, Jagatpura Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000247	1424	Mohammad Shamim Ahmad Hasmi / Abdul Hafiz	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Bamba Mohalla, Near Chhoti Masjid, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000248	1425	Habibu Nisa / Sanaullah Khan	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Surajpol, Shripura Ward No. 48, District Kota Junction 324006, Rajasthan
UN/RJ/0000249	1426	Hifzur Rahman / Mohammad Abdur Rahman	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	Neelgran Ka Mohalla, Inside Wazirpur Gate, Karoli 322241, Rajasthan
UN/RJ/0000250	1428	Tanveer Hussain Hanifi / Shaikh Farid	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 227 Kebaji Ka Ghar, Madina Masjid Makrana, District Nagour, Rajasthan
UN/RJ/0000251	1431	Mohammad Syed / Abdul Rashid	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	706, Shivaji Nagar, Kachi Basti, Shahtri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000252	1436	Syed Shabbir	BUMS	University of Rajasthan,	R/o Dwara Paras Jinagar,

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Mohammad / Zamaluddin	1998	Jaipur	Jingar Bazar, Near Lakharo Ke Chete, District-Bhinmal, Jalor, Rajasthan
UN/RJ/0000253	1439	Mohammad Hussain Ansari / Mohammad Yameen Ansari	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 992 J.P. Colony, Sector-03, Lankapuri Shahtri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000254	1441	Mohamad Adil Gori / Mohammad Sabir Gori	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Bombay Motor Choraha, Haji Umrao Khan, Behind Patrol Pump, Near Makki Masjid, District Jodhpur 342001, Rajasthan
UN/RJ/0000255	1442	Fahimuddin / Abdul Aleem	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 766, Ramnagar, Shahtrinagar, District Jaipur 302016, Rajasthan
UN/RJ/0000256	1443	Tayeb Hussain Ansari / K.U. Ansari	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	Sector G Plot No. 17, In front of Choudhary Kirana Store, Pratapnagar, Jodhpur 342003, Rajasthan
UN/RJ/0000257	1445	Kumari Shahida / Israr Ahmad Khan	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 124, Vane Vihar Colony, Rahmaniya Masjid, Joshi Marg, Kalawad Road, Jhotwara, Jaipur 302012, Rajasthan
UN/RJ/0000258	1446	Mohammad Zafar Islam / Shabbir Ahmad	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 150, Fakir Mohalla, Gram Basai Nawab, Tahsil Sefaiu, District Dholpur, Rajasthan
UN/RJ/0000259	1448	Mohammad Abrar Khan / Abdul Gaffar Khan	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Bagur Wali Masjid Ke Pass Chatikna Ward District Karoli, Rajasthan
UN/RJ/0000260	1449	Muhammad Ameen / Phool Mohammad	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Mohalla Kureshiyan Ward No. 30, Munir Ki Chakki Ke Pass, Halima Masjid Ke Samne, District Sikkar, Rajasthan
UN/RJ/0000261	1451	Mohammad Israil / Amir Hasan	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Vyapariyo Ki Masjid Ke Pass Ramsar, Ajmer, Rajasthan
UN/RJ/0000262	1455	Mohammad Sadiq / Mohammad Razouddin	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Masjid Munir Kha, Power House Road, Rigal School Ke Samne, Tonk, Rajasthan
UN/RJ/0000263	1458	Aas Muhammad Ansari / Karim Mullah Ansari	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 129/12, Maderana Colony, Madina Masjid Ke Samne, Tahsil Or District Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000264	1459	Mohammad Asgar Pathan / Ghulam Ahmad	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Meet Market Ke Pass, Mohalla Kasaban, District - Bikaner, Rajasthan
UN/RJ/0000265	1461	Shaukin Ali / Phoolshah	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Village Mukhwas Post Mehradasi Via Mandawa, District Jhunjhunu, Rajasthan
UN/RJ/0000266	1463	Razia Ansari / Mohammad Zaheer Ahmad W/o Mohammad Parvez Syas Ansari	BUMS 1998	Aligarh Muslim University, Aligarh	R/o Sadar Bazar Vigod Post Vigod, Tahsil Mandalgarh, District Bhilwara, Rajasthan
UN/RJ/0000267	1465	Iqbal Mohammad Chhipa / Molabaksh Chhipa	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Mukam Post Nibbi Jhodha, Tahsildar, Ladnu, District Nagour, Rajasthan
UN/RJ/0000268	1466	Ansar Moinudeen Azmari / Abdul Gaffur Ajmeri	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Ajmeri Mohalla Bengu, District Chitodgarh, Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000269	1467	Masihuddin Khan / Mohammad Yasin Khan	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Near Minrawa Masjid, Chamanpura, Matran Nagour, Rajasthan
UN/RJ/0000270	1468	Marhoob Hasan / Hafiz Mahmood Ali	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Ward No. 11, Indra Colony, Tahsil Bhadra, District Hanumangarh 335501, Rajasthan
UN/RJ/0000271	1469	Irfan Ali Chauhan / Usman Gani	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	Near Rangrage Bisayatiyan Dharmshala, Dr. Badi Ward No. Old 21 Or New 29 Sikar, Rajasthan
UN/RJ/0000272	1470	Roobina Parveen / Zamiruddin	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Dwara Syed Mohsin Ali 31- Bajrang Colony, Gangapol Gate Outside, Gangapol Road, District Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000273	1471	Zafar Ullah Khan / Ataullah Khan	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 110, Firoz Khan Colony, Jodhpur City, Ward No. 2, District - Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000274	1472	Mahmud Ahmad / Muhammad Ilyas	BUMS 1996	Aligarh Muslim University, Aligarh	44-K, Gopiwala Bada, Tulsi Van Road, Ward No. 7, Tahsil Badi, District Dholpur, Rajasthan
UN/RJ/0000275	1473	Nisar Ahmad Khan / Shakeel Ahmad Khan	BUMS 1993	Aligarh Muslim University, Aligarh	R/o Ward No. 20, Kajipara, District Karoli, Rajasthan
UN/RJ/0000276	1474	Faiyaz Khan / Wafati Khan	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	Opposite Uday Mandir Secondary School, Udaymandir
UN/RJ/0000277	1475	Mohammad Asad Ali / Mohammad Ali Qasmi	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	Zuber Masjid New Road Khaniya, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000278	1477	Syed Saleem Akhtar / Syed Mahdi Hasan	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Colonel Sahab Ki Haweli, Uday Mandir, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000279	1481	Ramdayal Meena / Kanhiyalal Meena	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	Village Dhorala Post Saloli Via Raini Tahsil Rajgarh Via Alwar 301409, Rajasthan
UN/RJ/0000280	1482	Sazid Khan / Mohammad Ajam Khan	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	Imam Bara Badi Guwadi Boli District Sawai Madhopur, Rajasthan
UN/RJ/0000281	1483	Mohammad Akhlaq Zahu / Mohammad Yusuf Jahu	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Mohalla Husainganj Ward No. 13, Near Muslim Gilrs School, District Sikar, Rajasthan
UN/RJ/0000282	1484	Naveed Ahmad Bhati / Ghulam Moinudin Bhati	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Mohalla Husainganj Ward No. 15, Near Muslim Gilrs School, District Sikar 332001, Rajasthan
UN/RJ/0000283	1485	Shrafat Ali Baig / Zafar Ali Baig	BUMS 1998	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Plot No. A-451, Bus Stand, Shahtri Nagar Bhatta Basati Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000284	1486	Nizamuddin / Jiwan Khan	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Jyoti Nagar, Dhod Road, Sikar 332001, Rajasthan
UN/RJ/0000285	1488	Iqbal Ahmad / Mohammad Khan	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Kasaiyo Ki Mori, Bas Badanpura, Chaar Darwaza Bahar, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000286	1489	Gulnaz Ali Parveen / Syed Basit Ali	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	31, Bajrang Colony, Gangapol, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000287	1490	Riyazuddin / Shamsuddin	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Health Clinic Panchva Choraha, Ninddrawaji Ka Rasta, Chanpol Bazar, Jaipur, Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000288	1493	Punaram / Aaidan Ram	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	Village Melawas Post Musaliyon Station Sojat Road Pali, Rajasthan
UN/RJ/0000289	1494	Mohammad Javed / Altaf Hussain	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 1/116, Van Vihar Colony, Delhi Bypass, Idgah, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000290	1497	Parvez Alam / Mohammad Yasin	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 244, Pankar Hospital Ganeshpuri, Galta Gate, Jaipur 302003, Rajasthan
UN/RJ/0000291	1499	Khalilur Rahman / Abdul Rahman	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	3594 Mount Road Nahari Ka Naka, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000292	1501	Mohammad Azam Khan / Shafiullah Khan	BUMS 2000	Jamia Hamdard (Deemed University) New Delhi	R/o B-53, Second Vistar Kamla Nehru Nagar, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000293	1502	Firoz / Bashirudin	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 1625-26, Hadi Manzil Kamela Gali Motidungari Road, Jaipur 302004, Rajasthan
UN/RJ/0000294	1504	Farzana Parveen / Ata ur Rahman	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 2134, Balaji Ki Kothi Ka Rasta Takiya Adam Shah Ghatgate, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000295	1506	Abdul Wahid Khan / Abdul Kadir	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	Near Gopal Neem Ka Bazar, Hindoncity, Karoli 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000296	1509	Sabir Hussain Ansari / Kallu Ansari	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	Ansari 855, Jamuna Dairy Sodala, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000297	1510	Mohammad Akram / Abdul Salam	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 81 Naag Talai Awas Yojna, Sujarpot, Anaz Mandi, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000298	1511	Liaquat Ali Bhutto / Mohammad Hussain	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Mohalla Vyapariyan Raigro Ke Kuan Ke Pass, Sikar 332001, Rajasthan
UN/RJ/0000299	1513	Mohammad Akram / Mohammad Ahmad	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	2507 Baradari Balimran, Delhi , New Delhi
UN/RJ/0000300	1514	Kadir Hussain / Badkhan	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Kazi Manzil Vilalge Aasan Post, Lucknow, Tahsil Or Distrist Churu 331001, Rajasthan
UN/RJ/0000301	1515	Afakul Islam Ansari / Abdul Aziz Ansari	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 66, Beniwal Kanta, Husain Colony, Ramgarh Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000302	1519	Ahmad Siddiqui / Mohammad Farooq	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Dwara Mo. Syed House No. 24366, Tb Purviyan Rasta, Phadganj, Chokdi Pot, Khanahjuri, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000303	1520	Aziz Ur Rab / Malik Mohammad Muslim	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	Chog Bangwa Kandiraba Shidarth Nagar, Uttar Pradesh
UN/RJ/0000304	1521	Tariq Khan / Yunus Khan	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 10 BJP Colony, I Block Shahtri Nagar, Ward No. 15, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000305	1522	Mohammad Farooq Baig / Aafaq Baig	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Sadar Ki Gali Chtikana, Karoli 322241, Rajasthan
UN/RJ/0000306	1523	Azam Ansari / Karimullah Ansari	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 2551, Rana Colony, Kailash Path, Nahari Ka Naka, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000307	1524	Ali Taqi / Itirza Hussain	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o House No. 4665, Hadipura Chokdi, Ramchanderji, Jaipur

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000308	1526	Abdul Salam Malik / Merazuddin	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	302002, Rajasthan R/o 30/13667/81 Harirashan Wale Ki Gali, Kailash Path Rana Colony, Nahari Ka Naka, Shahtri Nagar, Jaipur 302016, Rajasthan
UN/RJ/0000309	1527	Gyan Prakash / Ram Swroop Verma	BUMS 2001	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 16, Vijay Nagar, Gurjar Ghati, Amer Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000310	1528	Syed Abdul Hui / Manjur Ahmad	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Mukam Bhichpadi Post Tigriya Via Itawa Bhopji, District, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000311	1529	Mohammad Shakeel / Fateh Mohammad	BUMS 1999	University of Rajasthan, Jaipur	Ward No. 5, Bhoot Bangale Ke Samne, Fatehpur Road Sikar, Rajasthan
UN/RJ/0000312	1531	Mohammad Gufran / Sahab Jade Ali	BUMS 2001	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 22 C Aanandpuri Colony Behind Manbagh Hospital, Jaisinghpura Khor, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000313	1532	Shukr Ullah Qasmi / Khairati Miyan	BUMS 1994	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 99, Nagouri Mohalla, Ward No. 16, Lalsot Road, Dosa, Rajasthan
UN/RJ/0000314	1533	Santosh Kumar Gupta / Parhlad Kumar Gupta	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 22 Arihant Nagar Jamdoli, Agra Road, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000315	1537	Shadiq Ur Rahman / Khalikur Rahman	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 51 Sangam Vihar Colony Mandi Khatikan, Maliyon Ka Mohalla, Delhi Road, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000316	1542	Babar Husain / Zamaluddin	BUMS 2001	University of Rajasthan, Jaipur	Laxmanganj Sikri Gate Chandosi, District Murabadab, Uttar Pradesh
UN/RJ/0000317	1543	Rais Ahmad Ansari / Shoukat Ali Ansari	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 2, Badiha Colony Mohalla Goriyan, Basbadanpura, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000318	1546	Mustafa Hussain Shaikh / Ahmad Hussain Sheikh	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	Behind Bade Minaro Ki Masjid, Sojat City, District Pali, Rajasthan
UN/RJ/0000319	1547	Faqr Hayat / Ahmad Hayat	BUMS 2001	University of Rajasthan, Jaipur	Hayat Manzil Jaal Ka Kuan, Rajvan Tonk, Rajasthan
UN/RJ/0000320	1550	Liaquat Ali Mansuri / Mohammad Hussain Mansuri	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	Hind Clinic, Near Nadda Faan Masjid, Babu Ka Tiba, Ramganj, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000321	1552	Rahman Khan / Ramzan Khan	BUMS 2001	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 17, Nagatlai, Kachi Basti, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000322	1555	Khalid Akhtar / Zahiruddin	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 4/6-A, Chandershekhar Azar Colony, Outside Gangapot Gate, Badanpura, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000323	1556	Ravindra Kumar / Radmal Singh	BUMS 2001	University of Rajasthan, Jaipur	Village Post Upamavas Via Dumra, District Jhunjhunu, Rajasthan
UN/RJ/0000324	1558	Malik Faiyaz Ahmad / Malik Mohammad Firaheen	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	2/119 Van Vihar Housing Board Colony, Delhi Bypass Road, Idgah, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000325	1559	Abdul Saleem / Mohammad Anis	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	Hayat Nagar Gali No. 2, Firojda Road, Muradabad, Uttar Pradesh
UN/RJ/0000326	1562	Farhat Ali Khan / Rafat Ali Khan	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 21, Bilochiyana, Bas, Badanpura, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000327	1563	Mohammad	BUMS	University of Rajasthan,	Behind Mahavato Ki Masjid,

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Shaqir Gori / Fateh Mohammad Gauri	2002	Jaipur	Nagouri Gate Road Jodhpur 342002, Rajasthan
UN/RJ/0000328	1566	Mohammad Altaf / Babu Khan	BUMS 2001	University of Rajasthan, Jaipur	Village Khedi Noida District Gotam Budh Nagar, Uttar Pradesh
UN/RJ/0000329	1569	Hasan Hamid / Abdul Kavi Siddiqui	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	148 Varkati Dawa Khana, Ramganj Bazar Near Wai Masjid, Rehmaniya, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000330	1570	Hanuman Prasad / Gulkand	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 42 Panchwati Colony, Kalawada Road, Jhudwada, Jaipur 302012, Rajasthan
UN/RJ/0000331	1571	Mohammad Shakir Khan / Mohammad Naseer Khan	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	Behind Police Choki, Chhabada Gangor, District Baran, Rajasthan
UN/RJ/0000332	1573	Aisha Siddiqui / Abdul Hakim Qureshi	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 506-A, New Jalupura, Shahtri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000333	1575	Nausad Ahmad / Akhtar Hussain	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 1-C-373, Kudi, Bhgatsani, Housingboard District Jodhpur 342005, Rajasthan
UN/RJ/0000334	1576	Sarfraz Hussain / Sajjad Hussain	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 93, Manbagh Colony, Delhi Bypass Road (Behind Shivshankar Dharam Kanta), District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000335	1577	Zishan Ali Ansari / Kalamuddin Ansari	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	Sector G Plot No. 17, Pratap Nagar, Jodhpur 342004, Rajasthan
UN/RJ/0000336	1578	Saira Bano / Arif Ali	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Shop No. 220 K.K. Complex Plot No. 8 Ramganj Bazar Main Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000337	1579	Abdul Malik / Maqbul Hussain	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 9 Choudhary Colony Gangapol Chaar Darwaja, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000338	1583	Syed Abdul Muzeed / Abdul Tabbav	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	E-2/30 Van Vihar Colony, Idgah, Delhi Bypass, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000339	1584	Sanjay Ganju / Shibban Lal Ganju	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	68/181-A, Mount Road, Behind Madarasi Baba Ki Bagchi, Shankar Nagar, District Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000340	1587	Kripal Singh / Sumer Singh	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	Sakh Road Bada Mohalla Kumher, District Bharatpur 321201, Rajasthan
UN/RJ/0000341	1589	Mohammad Ziya ul Arfeen Khan / Abdulla Khan	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	Pal Colony, Mali Ki Kothi, Agara Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000342	1591	Mohammad Haroon Baig / Afaq Baig	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	Sadar Ki Gali Chatikana Karoli 322241, Rajasthan
UN/RJ/0000343	1592	Anwarul Haque / Abdul Qureshi	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 560-A, New Jalupura, Shahtri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000344	1593	Babu Ubaid / Mohammad Haseen	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 152/6 Doctors House Mohalla, Ichhawatan, Basbadanpura, Idgah, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000345	1595	Ramakant Sharma / Madan Lal Sharma	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	Mukan Post Bilpur Via Manohar, District Jaipur 303104, Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000346	1596	Mohammad Tahir / Mohammad Siddiqui	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 14 Mandi Khatikana Road, Block - 10, Ward No. 50, Outside Chaar Darwaja, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000347	1598	Aftab Ahmad / Anwar Ahmad	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	Dwara Bansal Medical Store, Foota Khot Choraha, Distrit Kroli, Rajasthan
UN/RJ/0000348	1599	Sohrab Hussain / Mohammad Yameen	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	A-464, J.D.A. Colony Nadarpura Via Kunda Post Natata District Jaipur 302028, Rajasthan
UN/RJ/0000349	1600	Shahabuddin Khan / Umardin Khan	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Makki Masjid, Near Chitike Kuan, Ward No. 19, Fatehpur Shekhavati, District Sikar, Rajasthan
UN/RJ/0000350	1601	Mohammad Shahid / Khuda Baksh	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 22-A, Rahim Colony Panch Hanuman Ki Gali, Outside Char Darwaja Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000351	1602	Nasim Ahmad Amir / Amir Ulla Khan	BUMS 2004	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Naseem Clinic, Lalsot Road, Nagauri Puliya, Distt Dausa, Rajasthan
UN/RJ/0000352	1604	Asad Syed / Syed Ahmad	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 130/3 Kumhar Mohalla Delhi Gate, Ajmer, Rajasthan
UN/RJ/0000353	1605	Shazia Anjum / A.A. Razvi	BUMS 2002	Delhi University, Delhi	R/o 13/6, Shahid Amit Bhardwaj Park Ke Piche, Malviya Nagar Distt Jaipur 302017 Rajasthan
UN/RJ/0000354	1606	Abdul Mannan / Amiruddin	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Village Hussainpur Post Musakheda Tehsil Kishangarh (Baas) Distt Alwar, Rajasthan
UN/RJ/0000355	1610	Maqbul Ahmad / Abdul Hui	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 2- C Ganesh Vihar Ahmad Nagar Idgah Delhi Bypass Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000356	1611	Rauf Ahmad / Maqbul Ahmad	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 422 Brahmno Ka Mohlla, Bans Badanpura Dargah Kadam Rasool, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000357	1612	Zubair Ahmad / Janab MOHAMMAD ALI	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 50-C/R.G. Colony, Sheekariyon Ki Mori, Ramganj Bazar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000358	1614	Arifa / Mahboob Alam	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	R/o House No.-51, Sangam Bihar Colony, Mandi Khatikan Delhi Bypass, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000359	1615	Heena Zafar / Nazamuddin Haider	BUMS 1999	Delhi University, Delhi	R/o 124 Maniharo Ka Rasta Tripoliya Bazar Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000360	1617	Irfan Hussain / Anwar Hussain	BUMS 2001	University of Rajasthan, Jaipur	A-101, Hazarat Ali Nagar Amer Road Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000361	1618	Nadeem Ahmad / Azaz Ahmad	BUMS 2003	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	51 Nadeem Ahmad Near Bus Stand, Nimbhedha Chitttodgarh Rajasthan
UN/RJ/0000362	1620	Naseem Ahmad / Abdul Vahid	BUMS 2004	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 248-C, Panch Neem, Basbadanpura Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000363	1621	Saleem Khan / Subrati Khan	BUMS 2004	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Gayo Ki Fatak Ke Samne, Udai Mandir Jodhpur Rajasthan
UN/RJ/0000364	1623	Mohammad Haroon /	BUMS 2004	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 303 Sadil Manzil 4 H.A.R Colony, Char Darwaja

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Mohammad Yunus			Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000365	1626	Faisal Hussain / Akhtar Hussain	BUMS 2004	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Plot No662, Ramnagar Shastri Nagar, Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000366	1627	Syed Hussain Abbas Aapadi / Sayyed Jahir Hasan Aapdi	BUMS 2005	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Aysha Manzil, Block No. 2, Plot No. 3 Savir Colony Chardarwaja Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000367	1629	Chetan Singh Rajawat / Virender Singh Rajawat	BUMS 2005	University of Rajasthan, Jaipur	B-20 Chandra Nagar Near Airforce Cente, Ghati Amer Road Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000368	1637	Heena Khan / Rashidullha Khan	BUMS 2003	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	17-A, Shahmani Clinic, Gulshan Nagar, Syed Colony, Chardarwaja, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000369	1639	Rizwan Ahmad / Mohammad Yamin	BUMS 2006	Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur	R/o Delhi Clinic Dargah Bazar Tala Vaya Garhmandi Tehsil Jamwaragarh Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000370	1640	Zameer Ahmad / Jamil Ahmad	BUMS 1997	Shri Shahuji Maharaj University, Kanpur	R/o Khan Clinic 105 Hussain Colony, Beniwal Kante Ke Piche Ramgarh Mor, Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000371	1641	Mohammad Imran / Amir Hasan	BUMS 2000	Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur	R/o Health Clinic Main Market Manohar Tehsil Shahpura Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000372	1643	Harnath Singh Gora / Gyanaram Gora	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Village Post Dhankiya Tehsil & Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000373	1644	Mohammad Alam / Niyaz Ahmad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	1057, Vijay Nagar Lankapuri Shastri Nagar Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000374	1646	Mohammad Shah Alam / Salimuddin	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	A- 116, Vah Bihar Colony, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000375	1648	Ramniwas Singh Gora / Shivray Singh Gaura	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Village Pos Dhankiya Tehsil & Dist Jaipur 302012 Rajasthan
UN/RJ/0000376	1649	Athar Zuned / Hafizurhman	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Shaheen Clinic-A-6, Chaudhary Colony, Rawal Ji Ki Mori, Chardarwaja, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000377	1651	Zakir Hussain / Nizamuddin	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Aathuna Mohalla Village Bhichari Vaya Beswa Tehsil Fatehpur Distt Sikar Rajasthan
UN/RJ/0000378	1652	Naresh Pal Yadav / Nagar Mal	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	S-97, 4/ Scheme Vidhyut Vihar, Near Apno Gaon Hotel, New Lohamandi Road Manchda Colony, Jaipur 302013 Rajasthan
UN/RJ/0000379	1654	Sadhunarayan Sharma / Chhittarmal Sharma	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Chauthmal Daundar Mukam Post Bhanupur Thal Vaya Amer Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000380	1655	Shamshad Hussain / Nawab Ali Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Village Post Bhagasara Vaya Beswa Distt Sikar, 332303 Rajasthan
UN/RJ/0000381	1656	Mohammad Aqeel / Mohammad Anis	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	J-3494 Teeba Purviyan Meethi Kothi Ka Rasta Surajpol Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000382	1657	Ayesha Tabassum / Zardar Ahmad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	J-3494 Teeba Purviyan Meethi Kothi Ka Rasta

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000383	1658	Shaheen Aktar / Izhar Ahmad Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Surajpol Jaipur, Rajasthan Plot No. 21 Mohalla Bilochiyan Basbadanpura Distt Jaipur, 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000384	1659	Seema Farooq / Mohammad Faruk	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 1048 Behind Badi Masjid, Ramganj Market, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000385	1660	Mohammad Javed / Babuddin	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 9 Nawab Colony, Behind Adrash Vidya Mandir, Ramganj Hida Ki Mori, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000386	1661	Mohammad Nasir Hussain / Abdul Aziz	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Tiwadi Ka Bag, Opposite Surya Brekari Near Boss Shope Adrash Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000387	1662	Shakeel Ahmad / Sardar Ahmad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 185 Amritpuri Kachi Basti Transport Nagar Ghatgate Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000388	1663	Salma Khatoon / Waqar Ahmad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	8/172 Vidhyadhar Nagar Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000389	1664	Akbar Khan / Yaqub Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	366 Jagannathpuri Jhotwara Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000390	1665	Qamar Jahan / Anwar Ali	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	149, Mohalla Bilochiyan Vas Vadanpura Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000391	1667	Nusrat Bano / Janab Usman Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	50 C Gulman Nagar Sayyed Colony, Gangapol Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000392	1669	Riyazuddin / Bashiruddin	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	A-21 Ramgarh Road Chungi Naka Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000393	1672	Jahan Ara Ansari / Mohammad Ishara	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	276, Mehanat Nagar Khatipura Road Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000394	1673	Sabiha Rahman / Kausar Ali	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Madeena Cilinc Meethi Koti Ka Rasta Surajpol Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000395	1675	Gopal Singh Tanwar / Narayan Singh Tanwar	BUMS 2006	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Plot No. 30 Ram Nagar Gali No. 8 New Rajapark Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000396	1677	Inamullah Khan / Imdad Hussain Khan	BUMS 2004	University of Rajasthan, Jaipur	Julaho Ki Masjid Wali Gali, Opposite Ghanchiyo School, Sindhiyo Ka Was, Shivachi Gate, Jodhpur Rajasthan
UN/RJ/0000397	1687	Nida Javed / Javed Ali Khan	BUMS 2004	Aligarh Muslim University, Aligarh	Dr. Abdul Aziz Kangji Near Gurwadre City Savai Madhopur, Rajasthan
UN/RJ/0000398	1690	Shakeer Mohammad / Ali Mohammad	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	Dr. House mohalla Ichavatan Near Noor Ki Taal Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000399	1691	Rumana Parveen / M. I. Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 662, Ramnagar Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000400	1692	Abdul Aziz / Abdul Shakur	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 5434 K.J.B Ka Rasta, Jauhari Bazar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000401	1694	Manmohan Khinchi / Jiwan Ram Khinchi	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	R 202 Laxminarayanpuri Mandi Khadikan Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000402	1697	Abdul Sattar / Mohammad Shafi Khan	BUMS 2006	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	K-170 Veer Durgadutt Colony, Baldev Nagar, Masuriya Jodhpur Rajasthan
UN/RJ/0000403	1699	Ziaul Hasan / Azizul Hasan	BUMS 1973	Kanpur University, Kanpur	Ward No. 20 Aliganj Bazar Post Chabda Distt Baran Rajasthan
UN/RJ/0000404	1700	Satyanarayan	BUMS	Devi Ahilya	R/o 3/91 Ganesh Talab

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Gupta / Vallabh Das Gupta	1998	Vishwavidyalaya, Indore	Basant Vihar, Near S.N. Parik Hospital, Kota Rajasthan
UN/RJ/0000405	1701	Om Prakash Baswal / Ram Chander Baswal	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	Gote Walo Ki Bagichi, Transport Nagar, Agar Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000406	1703	Mohammad Fahim Khan / Gulam Chisti Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 4099 Mohalla Paikan Futa Kurra Ramganj Bazar Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000407	1704	Mohammad Shahid Khan / Asharaf Ali Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Telephone Exchange Bhusawar Tehsil Ber Distt Bharatpur Rajasthan
UN/RJ/0000408	1705	Mohammad Adil Khan / Mohmmad Ibrahim Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 3190 Nimodiya House Thakur Geejarh Road Nawab Ka Chaurha, Ghatgate Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000409	1706	Mohammad Hayat Iqram / Abdul Kudras	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 1732 Jiledar Ki Gali, Khajane Walo Ka Rasta, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000410	1707	Nazia Khan / Abdul Rashid	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 194 Rai Colony Hasanpura-C Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000411	1708	Noor Mohammad Siddiqui / Shafiq Ahmad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	R/o R-13, Bibi Fatima Colony Veniwal Kate Ke Samne Ramgarh Mor Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000412	1709	Shakir Rahim / Abdul Rahim	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 194 Rai Colony Hasanpura -C Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000413	1710	Mohammad Shakeel / Wahid Mohammad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	12 Basbadanpura Mohalla, Bilochiyan Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000414	1711	Farooq Khan / Rafiq Ahmad	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Plot No. 198 Madina Colony, Jhotwara Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000415	1712	Mohamad Asif / Mohammad Ramjan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 26/80 Subhash Colony Sanganer, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000416	1713	Vijay Kumar Sanwariya / Arjun Lal Sawariya	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No.-A- 215, Behind Jatiji Ki Bagichi, Laxminarayanpuri Mandi Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000417	1714	Devendra Kumar Rajora / K. C. Rajora	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 151 Rishi Galav Nagar, Galta Gate Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000418	1715	Mohammad Gufran Chauhan / Mohammad Ali Chauhan	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	Ramjanji Medical Store, Ram Gate Ke Under, Pashwari Distt Bikaner, Rajasthan
UN/RJ/0000419	1716	Mohammad Zubair / Jamaluddin	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 4207 Gali Maheshwari Jagannath Shah Ka Rasta Ramganj Bazar Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000420	1717	Ishaq Ahmad Khan / Ahmad Baksh	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 23-B Gagdish Colony Gali No 2 Ramgarh Mor Amer Road Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000421	1718	Syed Asad Ali / Syed Ahmad Ali	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	R/o A-3, Tiwadi Ji Ka Bag Surya Brekari Ke Pass Adrash Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000422	1719	Suhel Khan / Jalil Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	4307 Seva Pali Clinic Topkhane Ka Rasta Chandpol Jaipur, Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000423	1724	Zafirul Hasan / Dauwd Hasan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 196-B, Hazrat Ali Colony, Ramgarh Mod Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000424	1726	Matloob Shah Khan / Masudshah Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No -A- 21, Gangapol Gate Ke Bahar Kallan Shah Colony, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000425	1730	Naz Haider / Sakha Ul Hasnain	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 664, Bagichi Chilla Bawadi, Hadipura Amer Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000426	1732	Umme Zainab / Mohammad Shoeb Aazbi	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	196 B Hazrat Ali Colony, Near Karbala, Ramgarh Mor Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000427	1735	Abdullah Khan / Niyaz Mohammad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 1321, Gurjar Ghati, Amer Road, Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000428	1737	Suraiya Siddiqui / Naved Ahmad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	R/o Panch Batti, Street Khangaran, Tonk Rajasthan
UN/RJ/0000429	1738	Shoebur Rahman / Shakilurrahman	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Gulerana Muzib Manji Ke Pichhe, Paygah Moti Bag Road Distt Tonk 304001 Rajasthan
UN/RJ/0000430	1739	Mohammad Dayar Noorani / Gaffar Hussain	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	A-51, Chaudhary Colony, Gangapol Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000431	1740	Yasin Husain / Nazaqat Hussain	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 5/1 Dhanna Das Ki Bagichi, Makka Masjid Ke Pass Adrash Nagar Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000432	1741	Wakeeluddin Usmani / Hakimuddin Usmani	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	23/1569 Indra Colony Shastri Nagar Bhilwada, Rajasthan
UN/RJ/0000433	1742	Mohammad Mazhar Ullah / Mohammad Hashmat Ullah	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	3790 Nagina Masjid Ke Pass Babu Ka Teeba Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000434	1743	Abdul Rashid Khan / Abdul Rauf Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Kagji Mohalla Badi Masjid Ke Pass Alanpur Sawai, Madhepur Rajasthan
UN/RJ/0000435	1744	Shabana Bano / Suleman Khan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 1078 Syeed Colony Char Darwaja Gangapol Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000436	1745	Shadab Ahmad / Irfan Ahmad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 1/130, Jawahar Nagar Satyasai College Ke Piche, Distt Jaipur , Rajasthan
UN/RJ/0000437	1749	Shoeb Ahmad / Atique Ahmad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Shri Bundu Khan Mansuri Madarsa Ke Paas Laugiya Mohalla Nawal Nagar, Ajmer Rajasthan
UN/RJ/0000438	1752	Abdul Rarauf / Mohammad Ramjan	BUMS 2007	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Badala Manda Village Panchayat Ujlan Tehsil Pokran Distt Jaisalmer, Rajasthan
UN/RJ/0000439	1753	Shahid Ali Khan / M.B. Khan	BUMS 1989	Delhi University, Delhi	R/o 571/31 Gali No. 8 H.A.R Colony Outside Char Darwaja, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000440	1754	Shah Mohammad / Niyaz Mohammad	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	Abdul Gaffur Chhipa Colony, Outside Nagauri Gate, Jodhpur 342003 Rajasthan
UN/RJ/0000441	1756	Rafi Ahamd / Ali Ahmad	BUMS 2005	Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur	Plot No. 174, Sanjay Nagar- D, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000442	1757	Bashir Ahmad /	BUMS	Poona University, Pune	Near Gaffar Khan Hospital,

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Abdul Gaffar	1995		Fatehpur Shekhawati, Sikar, Rajasthan
UN/RJ/0000443	1758	Mahfuj Ahmad / Shaikh Mahmood Ahmad	BUMS 2006	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Hafiz Dawakhana Hatwada Bazar, Karuli, Rajasthan
UN/RJ/0000444	1759	Syed Salauddin Moini / Syed Solat Hussain	BUMS 2005	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore	Haveli Diwan Saheb Dargah Bazar, Ajmer Rajasthan
UN/RJ/0000445	1760	Mohammad Irfan / Mohammad Yunus	BUMS 2002	University of Rajasthan, Jaipur	2 Wahida Colony, Mohammad Goriyan Bas, Badanpura Char Darwaja Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000446	1761	Mohammad Yasir / Abdul Rahim	BUMS 2007	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Mukam Post Badli Manda Tehsil Pokran Distt Jaisalmer Rajasthan
UN/RJ/0000447	1762	Fazruddin / Mohammad Yasin	BIMS 1977	Examining Body, Ayurvedic and Unani Systems of Delhi	Village Nakhnaul, Post Office Tapukada, Tehsil Tijara, Distt Alwar, Rajasthan
UN/RJ/0000448	1763	Suhel Iqbal / Iqbal Hussain	BUMS 2004	Delhi University, Delhi	Dr. Fejan Darwesh Nagar Brhapuri Thane Ke Pass Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000449	1764	S.M. Aalim / S.M. Azwar	BUMS 2005	Aligarh Muslim University, Aligarh	M.465 Arawali Vihar Udis Colony, Lalsot Dausa, Rajasthan
UN/RJ/0000450	1765	Mohammad Shamim Khan / Shafi Ullah Khan	BUMS 2002	Aligarh Muslim University, Aligarh	Teeba Purviyan Chaukadi Topkhana Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000451	1766	Syed Shamsul Hasan / Syed Shamimulhasan	BUMS 2004	Aligarh Muslim University, Aligarh	Marfat Shafiq Bano Teeba Purviyan Chaukadi Topkhana Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000452	1767	Aisha Tabassum / Syed Shahid Ali	BUMS 1988	Delhi University, Delhi	Old Rajasthan Patrika Ke Samne Aasan Udai Mandir Jodhpur Rajasthan
UN/RJ/0000453	1768	Bhagwan Singh / Ram Prasad	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	Village Post Brahmabad Tehsil Bayana Distt Bharatpur, Rajasthan
UN/RJ/0000454	1769	Shoeb Mohammad / Mohammad Yasin	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	J.M.C-3, Van Vihar Colony 2/297 Ke Samne, Idgah, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000455	1770	Nadeem Ahmad / Shamim Ahmad	BUMS 2008	Aligarh Muslim University, Aligarh	House No. 1501 Gangapol Road Char Darwaja Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000456	1771	Fezan Ahmad / Burhan Ahmad Kasmī	BUMS 2004	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 468, Aamagarh, Shakti Colony, Delhi Bypass Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000457	1773	Mohammad Irfan Khan / Tofiq Khan	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	121, Raghunathpuri, Kalwad Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000458	1774	Syed Afsar Haider / Syed Ali Hasan	BUMS 2007	University of Rajasthan, Jaipur	664, Birahi Road, Near Shila Bawdi Handipura, Amer, Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000459	1776	Bhagwan Dass / Mewaram	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 110- Nehru Nagar Jhanwar Road Bidla School Ke Samne Jodhpur Rajasthan
UN/RJ/0000460	1777	Mohammad Farooqui Ganchi / Ibrahim Ganchi	BUMS 2005	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	A.T Post Simlawada Distt Dungarpur, Rajasthan
UN/RJ/0000461	1778	Shibli ul Islam / Abdul Aziz	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	Tosib Mensan Beniwal Kante Ke Pichhe, Ramgarh Mod Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000462	1779	Sunil Kumar Sharma / Sita Sharma	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Jaldai Vibhag Ke Samne, Pawta Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000463	1780	Mukesh Singh Shekhawat /	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 229, Karani Vihar, Hirapura, Azmer Road,

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Prathvi Singh Shaikhwat			Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000464	1781	Rakesh Kumar Yogi / Manohar	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Village Sighana, Mohalla Pithauli Tehsil Buhana, Distt Jhunjhnu, 333516, Rajasthan
UN/RJ/0000465	1782	Lal Yogi Mohammad Shakeel / Mohammad Sharif	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Julaho Ki Gali, Sindhiyo Ka Mohalla, Siwachi Gate, Distt Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000466	1783	Abhishek Sharma / Sajjan Kumar Sharma	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Babu Lal Modi Ki Gali , Ward No. 12 Plot No. 341, Laxmangarh, Distt Sikar, Rajasthan
UN/RJ/0000467	1784	Tabassum Fatma / Mohammad Arif	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	5 Darbar Colony, Ahmad Nagar, Delhi Bypass, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000468	1785	Mohammad Arif / Rafiq Arif	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	5 Darbar Colony, Ahmad Nagar, Delhi Bypass, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000469	1786	Mohammad Arif / Abdul Kadir	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 334, Jalupura, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000470	1787	Mohammad Wasim / Zafar Ali	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Sarana Road, Madanganj Kishangarh Distt Ajmer, Rajasthan
UN/RJ/0000471	1789	Mohammad Imran Khan / Mohammad Ismail Khan	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 457, Naya Jalupura, Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000472	1790	Preeti Chauhan / Ratanpal Singh chauhan	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	186/5 Laxmi Nagar Syam Colony, Mangodi Wali Ki Bagichi Ke Pichhe Brahmपुरी Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000473	1791	Mohammad Anas Siddiqui / Mohammad Sazid Siddiqui	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 422 Mohalla Gauriyān, Baas Badanpura, Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000474	1793	Mahmood Saleem / Furkan Ahmad	BUMS 1996	Aligarh Muslim University, Aligarh	Shaheen Clinic-A-6, Chaudhary Colony, Chardarwaja, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000475	1794	Mohammad Arif / Aaga Shah Nawaz Khan	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	House No. 5 Ahmad Nagar, Darbar, Colony, Idgah Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000476	1795	Nadeem Akhtar / Khurshid Hussain Gohar	BUMS 2008	Vikram University, Ujjain	Fateh Manjil, Nahar Shah Road, Tehsil & Distt Jhunjhnu, Rajasthan
UN/RJ/0000477	1796	Sunita Chaudhary / Hariram Choudhary	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 97, Chandra Nagar-A- Kalwad Road, Govindpur Jhotwara, Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000478	1797	Moin Khan / Akil Ahmad	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	House No 1/120, Azad Nagar, Near Satya Sai Girls College, Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000479	1798	Naushin Hasmi / Rafique Ahmad Hashmi	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	563/3, H.A.R. Colony, Chardarwaja Jaipur 302002, Rajasthan
UN/RJ/0000480	1800	Rashid Ali Khan / Mohammad Bashiruddin Khan	BUMS 2007	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Plot No. 571/3, Gali No. 8, H.A.R. Colony, Chardarwaja, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000481	1803	Rakesh Chaudhary / Hanuman Singh Choudhary	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	29, Shanti Nagar, Joshi Marg 200 Fit Road Kalwad Road Jhotwara Distt Jaipur, 302012 Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000482	1805	Chaman Khan / Kalwa Khan	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 12 H.A.R Colony, Chardarwaja Bahar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000483	1806	Zameer / Ajmal Ali	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Shifa Clinic, Plot No. 271, Faiz First, Baiji Ki Kothi, Dayanand Nagar, Jhalana Dungri, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000484	1807	Mohammad Tausif Raza / Nasir Ahmad	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Darul Ulam Rasha Kiya Mohalla, Kheradiyan, Jodhpur, Rajasthan
UN/RJ/0000485	1808	Mohammad Zishan Khan / Qutubddin Khan	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Jama Masjid, Ke Pass, Parveen Genral Store Ke Upar, Bajriya, Sawai Madhopur, Rajasthan
UN/RJ/0000486	1809	Mohammad Mohsin / Mohammad Bundu Khan	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 1361, Mohalla Mominan, Ramganj Bazar, Jaimpur, Rajasthan
UN/RJ/0000487	1810	Javed Inam / Inamul Haq	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 1/325 Housing Board Idgah Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000488	1811	Mohammad Farhan Mansuri / Vikar Ahmad Mansoori	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 2038 Chowk Teliyan Nala Neelgran Ramganj Bazar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000489	1812	Syed Mahzuj Ahmad / Syed Margoob Ahmad	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	E-56, Govindpuri East New Ramgarh Mor, Rajasthan
UN/RJ/0000490	1813	Mohammad Adnan Khan / Iliyaz Khan	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 662, Ramnagar Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000491	1814	Shahid Imran / Anwar Hussain	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 611 Jalupura Housing Board, Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000492	1815	Mohammad Gaffar / Jahiruddin	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1/05, Van Vihar Colony, Housing Board , Delhi Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000493	1816	Mohammad Yousuf / Subhan Ghosi	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Moyal Usman Gani Market Station Rod Medta City, Distt Nagaur, Rajasthan
UN/RJ/0000494	1817	Imran Khan / Aladdin Khan	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Opposite Clectrect Masjid Near Agrasen Nagar, Distt Churu, Rajasthan
UN/RJ/0000495	1820	Zaid Ahmad / Hafiz Abdul Razak	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Aziz Kagji Near Gurudwara Sawai Madhopur, Rajasthan
UN/RJ/0000496	1821	Asif Iqbal / Jan Mohammad Khan	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	R/o 1/81, Van Vihar Idgah, Delhi Bypass, Jaipur, 202002, Rajasthan
UN/RJ/0000497	1822	Mohammad Kamran Akbar / Mahmood Khan	BUMS 1996	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 112, Krishana Nagar, Kalwad Road, Jhotwara, Jaipur, 302012 Rajasthan
UN/RJ/0000498	1823	Abdul Azeem Khan / Abdul Samad Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	26/76, Pinkcity Clinic, Subhash Colony, Saganer, Jaipur, Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000499	1824	Javed Anwar / Riyaz Ahmad	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 98, Tiwadi Ji Ka Bag, Adrash Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000500	1825	Bablu / Mustaque Khan	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Ramgarh, Bhanpur Sadwa, Jaipur, 302027 Rajasthan
UN/RJ/0000501	1826	Sadiq Ahmad / Ahmad Hussain	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	405/1, Mohalla Dakotan Baas Badanpura, Outside Chardarwaja, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000502	1827	Shahid Ali Chauhan / Sabir Ali Chauhan	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Tauliyan Ward No. 27, Fatehpur Shekhawati, Sikar, 332301 Rajasthan
UN/RJ/0000503	1828	Kamal Kishor Kumawat / Bhanwar Lal Kumawat	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	New Khaitan Colony, Losal Tehsil Dataramgarh Sikar Rajasthan
UN/RJ/0000504	1829	Abdul Haleem / Abdul Alim	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Sadat, Hatai Malpura, Tonk, Rajasthan
UN/RJ/0000505	1830	Mohammad Shoeb Khan / Mohammad Saket Khan	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 247-A/41 Garib Nawaj Colony, Badbav Under Kot, Ajmer, 305001 Rajasthan
UN/RJ/0000506	1831	Mohammad Kamal / Mohammad Kramat Ali	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	3316, Mohalla Silawtan Bandri Ka Nashik Subhash Chowk, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000507	1832	Shakib Mohammad / Jiya Ulhaq	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Jama Masjid, Muripura Scheme, Jaipur 302013 Rajasthan
UN/RJ/0000508	1833	Mohammad Abid / Shahubuddin	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Karigran, Ward No. Naya-22, Near Masjid, Sikar, Rajasthan
UN/RJ/0000509	1834	Syed Manjur Hasan / Syed Hasain Shah	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Near Saint Thoms School, Mohlla Rajban Distt Tonk 304001 Rajasthan
UN/RJ/0000510	1835	Nawab Mohammad Kahn / Janab Ahmad Khan	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Village Post Andhi, Tehsil Jamwaramgarh, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000511	1836	Tanveer Ahmad / Bashir Ahmad	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Hussain Ward No.-13 Distt Sikar 332001 Rajasthan
UN/RJ/0000512	1837	Shamim Bano / Bashir Ahmad	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 3/183 Vidhyadhar Nagar Bus Stand Ke Pass Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000513	1838	Shamsuddin / Mutrey Khan	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 11, Chaudhary Colony, Gangpol Chardarwaja, Distt Jaipur 302001 Rajasthan
UN/RJ/0000514	1840	Arshad Husain Ansari / Mohammad Hussain Ansari	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	922, J.P. Colony, Sector No. 3, Shastri Nagar, Distt Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000515	1841	Shahbuddin	BUMS	Dr. Sarvepalli	349, Subhash Colony,

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000516	1842	Qureshi / Sirazuddin Qureshi Ravinath Nag / Dukhnatiram Nag	2008 BUMS 2009	Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Khandewal College Ke Samne, Shastri, Distt Jaipur 302016 Rajasthan Servey No. 120, Bhaumiya Basti, Bhatta Basti, Shastri Nagar, Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000517	1844	Shabana Khan / Islam Khan	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Polit No. 21 A, Krishana Colony, Beniwal Kate Ke Paas, Ramgarh Road Distt Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000518	1845	Suhel Hasan / Israr Hasan	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	2-A, Udhog Nagar, Jhotwara, Distt Jaipur 302012 Rajasthan
UN/RJ/0000519	1846	Mohammad Javed / Mohammad Umar	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	95, Rana Colony Nahari Ka Naka, Shastri Nagar, Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000520	1848	Zakir Hussain / Sabir Hussain	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	A/6 Shahin Clinic, Chaudhary Colony, Chardarwaja, Gangapol Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000521	1849	Mohamad Shafiq / Mohammad Rafiq	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Safik Health Care Centre, Ward -10 (Old -37) Near Nisar Ki Chakki, Mohalla Vyapariyan, Distt Sikar, Rajasthan
UN/RJ/0000522	1850	Kaynat Siddiqui / Mohammad Yusuf Siddique	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 10-B. J.P Colony, Hari Nagar Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000523	1853	Irfan / Abukar	BUMS 2006	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	585 Near Jeep Stand Kumhariya, Nagaur 341021 Rajasthan
UN/RJ/0000524	1854	Muhammad Iqbal Siddiqui / Bakhtyar Ahmad Siddique	BUMS 2008	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 2, Nanaji Ka Bag Fateh Teeba M.D. Road Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000525	1855	Gulzar Siddiqui / Mohmmad Izhar Alam Siddique	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Plot No. 10 Islam Colony Karwala Chaurha, Ramgarh Mor, Amer Road, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000526	1857	Mohammad Naved / Mohammad Yunus	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 758-61, Mohalla Bisayitan, Ramgang Bazar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000527	1858	Iqbal Hussain / Abdul Hamid	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	R/o 9-12 Dhannadas Ji Ki Bagichi Adrash Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000528	1859	Syed Ahmad / Ubaidullah Quashmi	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	529. J.D.A Colony, Vidhadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000529	1860	Pawan Kumar Grover / Mohan Lal Gorver	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	2/183, Vidhyadhar Nagar, Near Ganesh Park Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000530	1861	Mohammad Aaturab / Molvi Abdul Sattar	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	4379, Chappar Bandhe Ka Rasta Takiya Adamshah, Ghatgate Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000531	1862	Uzma Shaheen / Azizurhman Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Hifajurrehman Vazirpur Gate Tehsil & Distt Karauli Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000532	1863	Aadam / Fazlurrehman	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Inside Sojati Gate Behind Masjid Teliyan, Jodhpur, Rajasthan-342001
UN/RJ/0000533	1864	Mohammad Mateen / Khurshid Ahmad	BUMS 2006	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 118 Kadari Colony Ward No. 15, Medata City, Distt Nagaur Rajasthan
UN/RJ/0000534	1865	Altaf Ahmad / Masood Ahmad	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Niyaj Manjil Qazipada, Tehsil Todabhim, Distt Karauli Rajasthan
UN/RJ/0000535	1866	Wasim Akhtar Ansari / Zlaluddin Ansari	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Dargah Near Baba Jawahar Colony, Tehsil & Distt Bundi 323001 Rajasthan
UN/RJ/0000536	1868	Asad ullah Khan / Faijullah Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Kapda Bazar Teli Darwaja, Sambharlek Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000537	1872	Farooq Mohammad / Hanif Mohmmad	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Opposite Old Gas Agency, Barkat Colony, Falodi Distt Jodhpur Rajasthan
UN/RJ/0000538	1873	Haroon Ali / Safdar Ali	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	3/769 Jawahar Nagar Tola No. 3 Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000539	1874	Huma Khan / Danish Tufail	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	72-C Shanti Colony Ghat Ki Guni Agra Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000540	1875	Mohammad Khaild / Abdul Salam	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	7-A, Tatkaleshwarपुरी Hida Ki Mori Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000541	1876	Mohammad Qamruzzama / Abdul Salam	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	7-A, Tatkaleshwarपुरी Hida Ki Mori Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000542	1877	Rajkumar / Ganesh	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	18/735 Chaupasani Housing Board Jodhpur 342008 Rajasthan
UN/RJ/0000543	1878	Sadiq Khan / Abdul Aziz Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	B-96, Amritपुरी Ghatgate, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000544	1879	Mohammad Roshan / Hazi Gaffur Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 26 Krishna Nagar, Kalwad Road Jhotwara, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000545	1880	Khalid Husain / Mohammad Yasin	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Khalid Manjil Mohalla Sultan Shah Ward No. 31 Sikar Rajasthan
UN/RJ/0000546	1881	Mashkooor Ahmad Khan / Abdul Shakur Khan	BUMS 2008	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	09 Chaudhary Colony, Gangapol Gate, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000547	1882	Shahnaz Bano / Shahubuddin Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 20 Barkat Colony Gangapol, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000548	1884	Mohammad Ikram	BUMS	Dr. Sarvepalli	A-1/752 Azad Nagar Ghat Ki

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Qureshi / Mohammad	2010	Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Guni, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000549	1886	Mamman Qureshi Khalid Ali Khan / M.B. Khan	BUMS 2010	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	571/3 Gali No. 8 H.A.R Colony Outside Char Darwaja, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000550	1887	Khatib Ahmad Khan / Khalil Ahmad Khan	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	128 Sanjay Nagar-B, Kante Ke Pass Jhotwara Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000551	1890	Mohammad Yasar Siddiqui / Mohammad Ahmad	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 9 Mukundgarh House, Sansar Chand Road, Jalupura Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000552	1891	Rais Ahmad / Abdul Latif	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	82 Shivaji Nagar Jhotwara Jaipur 302012 Rajasthan
UN/RJ/0000553	1894	Qazi Abdul Wasim / Qazi Abdul Salim	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 2893 Kumhari Ki Nadi, Khvasji Ka Rasta Hava Mahal Road, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000554	1895	Zafar Mahmood / Firoz Ahmad Siddique	BUMS 2005	Aligarh Muslim University, Aligarh	New Bilal Colony, Mohalla Gol, Tonk Rajasthan
UN/RJ/0000555	1896	Amajad Khan / Mohammad Aslam	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Razia Clinic, C-18-19 Murlipura Scheme, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000556	1897	Asad Arafat / Syed Ahmad	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	261/11 Malviya Nagar, Jaipur 302017 Rajasthan
UN/RJ/0000557	1898	Moin Ajmal / Mohammad Ajmal	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 24714 Shifa Cottage Purviya Ka Teeba, Galta Road, Surajpol, Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000558	1899	Taufik Ahmad / Akhtar Ali	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	9 Rogan Colony, Mandi Khatikan Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000559	1900	Atiq Ahmad / Jahur Ahmad	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Neelgran Wazirpur Karauli Rajasthan
UN/RJ/0000560	1903	Daud Baig / Ezaz Beg	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Sadar Ki Gali, Chatikana, Karauli, Rajasthan
UN/RJ/0000561	1904	Zeenat Parveen / Zhur Ahmad	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	164-A, Jagannathpuri Khotwada Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000562	1905	Mohammad Asif Khan / Mohammad Khairati Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	C- 49, Gulshan Nagar Sayyed Colony Gangapol Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000563	1908	Noorin Hasmi / Rafique Ahmad	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 563/3 H.R Colony, Char Darwaja Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000564	1910	Mohammad Akram Goyal / Abdul Razzak Goyal	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Goyal Manjil Di Kota Road Ghantaghar Jodhpur Rajasthan
UN/RJ/0000565	1912	Raziuddin Usmani	BUMS	Dr. Sarvepalli	Plot No. 4 Mohammad Nagar

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		/ Hafiz Uddin Usmani	2011	Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	B Khe Nagoriyan Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000566	1914	Mohammad Husain Mansuri / Mohammad Suleman Mansoori	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Idi Medicals Padiya Kuan Ke Pass Ward N. 24 Sikar Distt Sikar Rajasthan
UN/RJ/0000567	1915	Nazia Shamshad / Jafar Mahmood	BUMS 2005	Aligarh Muslim University, Aligarh	New Bilas Colony, Mohalla Gol Tonk Rajasthan
UN/RJ/0000568	1916	Naseer Ali / Safdar Ali	M.S. 2010 BUMS 2010	Aligarh Muslim University, Aligarh Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Village Post Majara Mont Post Bhont Distt Rampur Uttar Pradesh 244901
UN/RJ/0000569	1920	Abrar Ali / Islamuddin Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House N. 1/65 Van Vihar Housing Board Colony, Delhi Bypass Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000570	1922	Mohammad Shahryab Ali / Abdul Mutlib	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	R/o Gangapol Road Char Darwaja Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000571	1923	Mohammad Asif Khan / Mohammad Aziz Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	3078 Mehro Ki Nadi, Kumharo Ka Mohalla, Chaukdi Ramchandrajji Ki Subhash Chowk, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000572	1929	Mohammad Ziaul Islam / Fakhru'l Islam	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	J.P. Colony Shahpura Bag Jalmahal Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000573	1945	Mohammad Husain / Mohmmad Harun	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Near Mandal Jamaat Khana Village Basni Distt Nagaur Rajasthan
UN/RJ/0000574	1946	Mohammad Farhan Khan / Abdul Basit Khan	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Near Nadigate, Kharroad, Karoli Rajasthan
UN/RJ/0000575	1947	Mohmmad Shakeel / Mohammad Sharif	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	609, Mohalla Goriyan Basbadanpura, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000576	1948	Asgar Ali / Mohammad Hasan	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Darkhano Ka Mohalla, Lauharpur Nagaur 341001 Rajasthan
UN/RJ/0000577	1949	Mohammad Ibrahim / Tahir Hussain	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla New Roshanganj Ward No. 01 Sikar Rajasthan
UN/RJ/0000578	1950	Arbaaz Khan / Rais Ahmad Khan	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Rais Clinic, Near Bus Stand, Hindaun City Distt Karauli Rajasthan
UN/RJ/0000579	1951	Sumayya / Mohmmad Usman Sahab	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla New Roshanganj Ward No. 01 Sikar Rajasthan
UN/RJ/0000580	1952	Takur Rahman Farooqi / Vali Murrehman Farooqi	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 27, Bajrang Colony Gagapol Gate Ke Bahar Jaipur, Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000581	1953	Al Sab Faroki / Atique Ahmand	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Hajrat Shaifi Manjil New Roshanganj Sikar Rajasthan 332001
UN/RJ/0000582	1954	Akbar Khan / Amjad Khan	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	222 C.P. Nagar R.Ac. Pani Ki Tanki Ke Pass, Amritpuri Ghatgate Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000583	1955	Rukaiya khatoon / Navi Hasan Khan	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. D-139, Vidhyadhar Nagar, Distt Jaipur 302023 Rajasthan
UN/RJ/0000584	1956	Habiburrahman Farooqi / Abdul Aziz Farooqi	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Ashraf Dawakhana Nadi Bazar Post Khandela Distt Sikar Rajasthan
UN/RJ/0000585	1957	Shoeb Ahmad / Farurat Ahmad	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Bharat Dental Clinic Sajjan Nagar Rajasmand 313326 Rajasthan
UN/RJ/0000586	1958	Nazim Baig / Hamid Bed	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No.502, Ramnagar Nayajalpura, Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000587	1959	Ahmad Khan / Rashid Ahmad	BUMS 2011	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Badli Manda Post Badli Nathusar Tehsil Pokran Distt Jaisalmer 345021 Rajasthan
UN/RJ/0000588	1960	Shabnam Kausar / Mohmmad Jahid Rashib	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	F-174, Gandhi Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000589	1961	Ambreen Mahmood / Mahmood Chaudhary	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 117 Bane Vihar Colony, Near Rahmaniya Masjid, 200 Fit Road Jhotwara, Rajasthan
UN/RJ/0000590	1962	Mashkoor Hussain / Masroor Hussain	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	791 Azamgarh, Shakti Colony Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000591	1963	Asad Ahmad Ansari / Mohmmad Ahmad Ansari	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Sikari Gate Chandosi Distt Muradabad Uttar Pradesh
UN/RJ/0000592	1964	Abdul Rahman / Abdul Rauf Khan	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Kagji Mohalla Alanpur, Near Badi Masjid, Sawai Madhopur Rajasthan
UN/RJ/0000593	1965	Anjum Kanwar / Rais Ahmad	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House N. 28-29, Nangi Ka Choraha, Bansbadanpura, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000594	1966	Sikandar Ali / Mustaque Ahmad	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Village Post Beswa Tehsil Fatehpur Distt Sikar Rajasthan
UN/RJ/0000595	1968	Shahzeb Shakur / Hamid Shakur	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No.- 37, Santosh Colony, Manwaj, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000596	1969	Tarannum Naz Ansari / Mohammad Hussain Ansari	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	922 J.P. Colony, Sector -3, Lankapuri Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000597	1970	Muhammad Ezaz Ahmad / Mohammad Iqbal	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University,	Mohalla Karigran, Ward No. 20, Masjid Ke Pass Sikar, Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000598	1971	Karigar Rizwan Zoiya / Shahazada Rafique Zoiya	BUMS 2012	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Munni Majil Rani Bazar, Bikaner Rajasthan
UN/RJ/0000599	1972	Muhammad Sufiyan / Muhammad Furkan	BUMS 2004	Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur	3919 Meeti Kothi Ka Rasta Meena Basti Surajpol Ramganj, Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000600	1973	Mirza Yasin Baig / Mirza Ashfaque Beg	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 1025 Mohalla Hiranwalan Ghatgate Distt Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000601	1974	Shiba Safdar Khan / Safdar Ali Suhel Hasan	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	2- A, Udhyog Nagar Niwaru Road Ward No. 7, Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000602	1975	Saleem Ahmad / Firasat Hussain	BUMS 2000	University of Rajasthan, Jaipur	S-1 Dhannadas Ki Bagichi Adrash Nagar Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000603	1976	Shahid Khan / Abdul Hamid Khan	BUMS 2012	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Konica Foto Studio Vasundhara Vihar Imam Sagar Jail Road, Jhalaawad Distt Jhalawad 326001 Rajasthan
UN/RJ/0000604	1977	Mohammad Shahid / Liyaqat Ali	BUMS 2011	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Behleem Kumhari Road Basani Belya Distt Naugor 341021 Rajasthan
UN/RJ/0000605	1978	Ali Mahndi Kazmi / Ali Abbas Kazmi	BUMS 2009	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Dr. M.A. Jaidi House NO. 42/42 Captain House Hida Ki Mori Ghatgate, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000606	1979	Malik Israr Ahmad / Malik Raihan Ahmad	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Polit No. 12 Nawab Colony, Tatkaleshwarpuri Hida Ki Mori Ramganj Distt Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000607	1980	Mohammad Saleem / Naim Ahmad	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohammad Milkhiyan Syohara Dhampur Bijnaur 246746 Uttar Pradesh
UN/RJ/0000608	1981	Shabana Siddiqui / Muzkkir Ali	BUMS 2005 M.D.	Aligarh Muslim University, Aligarh Aligarh Muslim University, Aligarh	Plot No. 33 Mohalla Bilochiyan Bass Badanpura Dainik Kirdar Ke Pass Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000609	1983	Urooj Ahmad Khan / Abdul Shakil Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Ward No. 16 Kakrala Dataganj Baday 243637 Uttar Pradesh
UN/RJ/0000610	1984	Mustakim Mahommad / Rafique Ahmad	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	C-18 Murlipura Scheme, Sikar Road Distt Jaipur 302039 Rajasthan
UN/RJ/0000611	1985	Danish Khan / Abdul Wahid Khan	BUMS 2009	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	War No. 8, Mugalpura Pidawa Tehsil Pidawa Distt Jhalawad 326034 Rajasthan
UN/RJ/0000612	1986	Saba Khurshid / Khurshid Alam	BUMS 2008	Aligarh Muslim University, Aligarh	R/o 1/50 Van Vihar Housing Board Idgah Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000613	1987	Shamim Ahmad Khan / Abas Ali	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	Abdul Sattar Urf Lali Bhai Dhanmandi Udai Mandir Aasan Distt Jodhpur 342003 Rajasthan
UN/RJ/0000614	1988	Maqbul Ahmad / Mohammad Ahmad	BUMS 2001	University of Rajasthan, Jaipur	69 Kachra Basti , Near Sima Hotel Janata Colony, Ghatgate Distt Jaipur 302004

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000615	1989	Aminullah Khan Pathan / Sahidullah Khan Pathan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Rajasthan 34/A Madar Colony, Near Masjid Baswada 327001 Rajasthan
UN/RJ/0000616	1990	Mohammad Imran Khan / Munshi Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	10 Bismillah Colony, Jhotwara Distt Jaipur 302012 Rajasthan
UN/RJ/0000617	1991	Saddam Hussain / Chuttan Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Village Jallapur Jat Post Jairoli Tehsil Tijaara Distt Alwar Rajasthan
UN/RJ/0000618	1992	Heena Aftab / Nisar Ahmad	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Near F.C.I Godam, Subhashpura Distt Bikaner 334001 Near
UN/RJ/0000619	1993	Satanarayan Saini / Birdhichand Saini	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Babro Ka Chowk, Purani Tonk 304001, Rajasthan
UN/RJ/0000620	1994	Khadija / Shakilurrahman Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	173 Behind Mujib Manjil Payga Moti Bag Road, Tonk Rajasthan
UN/RJ/0000621	1995	Abdul Aziz / Mohammad Ilyas	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Village Ladlaka Post Musepur Tehsil Kama Distt Bharatpur 321022 Rajasthan
UN/RJ/0000622	1996	Mohammad Danish Khan / Rahisuddin Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Ghode Wala Gulawati Distt Bulandshahar Uttar Pradesh
UN/RJ/0000623	1997	Samina Parveen / Abdul Mnan Rangrez	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Jaitun Place Nagar Parishad, Near Excellence School, Distt Sikar 332001 Rajasthan
UN/RJ/0000624	1998	Mahmood Alhasan / Nabi Hasan Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	D-139 Vidyadhar Nagar Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000625	1999	Abdul Hafiz Khan / Abdul Hakim Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Habibiya Dawakhana Gahlot Road Mohalla Bahir Tonk Distt Tonk 304001 Rajasthan
UN/RJ/0000626	2000	Arshad Ahmad Qureshi / Asrar Ahmad Qureshi	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Qureshi Kutir, Near old A.S.J.M Court, Niwai Distt Toank 304021 Rajasthan
UN/RJ/0000627	2001	Guzar Anwar / Anwarul Haq	BUMS 2009	University of Rajasthan, Jaipur	Hanfi Manjil High School Road Bandikui Distt Dausa Rajasthan
UN/RJ/0000628	2002	Abdul Waseem / Abdul Aziz	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	3552 Bishtiyo Ki Choti Masjid Taupkhana Hajuri Ghatgate Distt Jaipur Rajasthan
UN/RJ/0000629	2003	Ramiz Ahmad Khan / Abdul Rashid Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Noor Colony Basti Ke Pass Nimbaheda Distt Chitaudgarh Rajasthan
UN/RJ/0000630	2004	Arsi Bano / Masquer Mohammad	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House N0. 2823 Jogiyo Ka Teeba Chaukadi Ranchandrajai Jagannathshah Ka Rasta, Ramganj Bazar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000631	2006	Adil Shams /	BUMS	Dr. Sarvepalli	House N0. 35 Gandhi Vihar

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
		Shamsuddin	2012	Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Vistar-A, Khohnagoriyan Distt Jaipur 302031 Rajasthan
UN/RJ/0000632	2007	Jafrul Adel / Nazrul Haq	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	C-99, Opposite Durga Mandir, R.P.A Road Distt Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000633	2009	Mehtab Ali / Rafat Ali	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	21 Bilochiyan Bas Badanpura Distt Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000634	2010	Samina Khan / Mohammad Irfan Khan	BUMS 1994	Aligarh Muslim University, Aligarh	197 Baldev Nagar, Maguriya Distt Jodhpur 342001 Rajasthan
UN/RJ/0000635	2011	Shiri Afza / Safaqt Hussain	BUMS 1991	Sri Venkateswara University Tirupathi	C-107 Samad Vila Shivaji Marg, Tilak Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000636	2012	Shahe Jaman / Abdul Ali	BUMS 2003	University of Rajasthan, Jaipur	Jodhpur Clinic Mahavati Ki Masjid Nagauri Gate Road Jodhpur 342001 Rajasthan
UN/RJ/0000637	2013	Farheen Aslam / Mohammad Aslam	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	28 Mandi Khatikan, Delhi Bypass Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000638	2014	Mohammad Israr Noorani / Gaffar Hussain	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	545 Masjid Wali Gali, Bahar Mori Road Brahmapuri Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000639	2015	Mohammad Shayk Khan / Mohammad Shamshad Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	B-49, Sanjay Nagar, Shastri Nagar Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000640	2016	Ayyub / Rais Ahmad	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	20 Barkat Colony, Gangapol Gate Ke Bahar Ward No. 73 Distt Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000641	2017	Abdul Wahid Khan / Hashmat Ali	BUMS 1997	University of Rajasthan, Jaipur	Plot N0. 192 Main Road Purana Jalupura Distt Jaipur 302001 Rajasthan
UN/RJ/0000642	2018	Ahmad Hasan / Shafiq Ahmad Alvi	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1180, Kakori House Katiyo Ki Pipali Haldiyo Ka Rasta Chautha Chauraha Jauhari Bazar Distt Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000643	2020	Sikandar / Noorddin	BUMS 2013	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Village Post Bhaiyyo Ki Dhani Kushlawa Tehsil Falodi Distt Jodhpur 342301 Rajasthan
UN/RJ/0000644	2021	Ziaur Rahman Farooqi / Junedurahman	BUMS 2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 12 Govindpuri Amer Road Jauhari Reta Ki Masjid Ke Piche, Distt Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000645	2022	Mohammad Haroon / Abdul Salam	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	81 Naag Talai Awas Yojana Delhi Bypass, Ward No. 48, Distt Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000646	2023	Firoz Khan / Saraddin Khan	BUMS 2013	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Village Post Chande Ka Paar, Tehsil Ramsar Gadra Road Distt Barmer 344502 Rajasthan
UN/RJ/0000647	2024	Aisha Bano / Haidar Ali	BUMS 2013	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	House No. 369 Vichala Baas Distt Nagaur Rajasthan
UN/RJ/0000648	2025	Ashraf Ali / Sachu Khan	BUMS 2013	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Village Virad Ka Par Post Gagriya Tehsil Ramsar Distt Barmer 344502 Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000649	2026	Irshad Khan / Quasim Ali Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 612, Naya Jalupura Shastri Nagar, Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000650	2027	Abdul Wahid Chauhan / Abdul Rashid	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Qureshiyan Masjid Ke Pass Ward No. 24 Distt Sikar 302001 Rajasthan
UN/RJ/0000651	2028	Ariba Hussain / Syed Shamsul Hasan Tariq	BUMS 2013	Aligarh Muslim University, Aligarh	Shri Roshan Lal Sharma Barpada Bhusawar Distt Bharatpur 321406 Rajasthan
UN/RJ/0000652	2029	Saba Tabssum / Narulhaq Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 174, Sanjay Nagar-D, Jhotwara Distt Jaipur 302012 Rajasthan
UN/RJ/0000653	2030	Mohammad Hasan / Habiburahman	BUMS 2007	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	House No. 1614 Indras Road Ashraf Nagar, Basani Belpiya Tehsil & Distt Nagaur 341021 Rajasthan
UN/RJ/0000654	2031	Abdul Gaffar / Mohammad Saleem	BUMS 2013	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	94 Mirzaniyo Ki Dhani, Bagad Ki Riya Tehsil Bilada Distt Jodhpur 342601 Rajasthan
UN/RJ/0000655	2032	Mohammad Ayub Abbasi Mehar / Mohammad Rafique Mehar	BUMS 2013	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Shaikh Nagar Malar, Tehsil Bhopalgarh Distt Jodhpur 342601 Rajasthan
UN/RJ/0000656	2033	Abdul Sattar / Manzuruddin	BUMS 2013	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Village Post Gomat Tehsil Pokran Distt Jaisalmer 345021 Rajasthan
UN/RJ/0000657	2034	Abdul Rauf / Mohammad Usman	BUMS 2013	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Village Post Gomat Tehsil Pokran Distt Jaisalmer 345021 Rajasthan
UN/RJ/0000658	2035	Manjur Khan Saifi / Islamuddin Shaifi	BUMS 2013	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	A-363, Sanjay Nagar, Bhatta Basti, Shastri Nagar. Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000659	2036	Mohammad Sirajuddin Ali / Alimuddin Ali	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1A/514 Jawahar Nagar Tila No. 0 Baba Bhad Vaya Bhag Kachhi Basti, Ward No. 48, Jaipur 302004 Rajasthan
UN/RJ/0000660	2037	Sana Vikar / Mohammad Adil	BUMS 2012	Aligarh Muslim University, Aligarh	Plot No. 1, Khan Compex, Bedla Road Udaipur 313011 Rajasthan
UN/RJ/0000661	2038	Hammadur Rahaman / Shaifurahman	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Near Tonk Public School, Shagird Pasha, Bada Kuan, Tonk 304001 Rajasthan
UN/RJ/0000662	2039	Zaiba Aziz / Abdul Aziz	BUMS 2013	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1399, Nago Ka Khurra, Rangang Bazar, Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000663	2040	Ramisa Rahman / Atiqerahman	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Near Syedi Clinic, Nazarbag Place Tonk 30401 Rajasthan
UN/RJ/0000664	2041	Yasmin Khan / Mohammad Ikramuddin Khan	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 8, Outside Char Darwaja Baas Ki Puliya Syed Colony Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000665	2042	Mohammad Saleem / Mohammad Yusuf	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	86 Sanjay Nagar-B, Kalwad Road, Jhotwara Jaipur 302012 Rajasthan
UN/RJ/0000666	2043	Jenab Farooqi / Aminrahman	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan	A-34, Sanjay Nagar, Bhatta Basti, Shastri Nagar, Jaipur

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000667	2044	Mohammad Uves / Ahmad Raza	BUMS 2013	Ayurved University, Jodhpur Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	302016 Rajasthan Near Baba Dodu, Pol Wale Basani, Behliya, Nagaur Rajasthan
UN/RJ/0000668	2045	Jitendra Hingda / Manaram Hingda	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	371, Higdo Ka Baas, Gomat Tehsil Pokaran Distt Jaisalmer 345021 Rajasthan
UN/RJ/0000669	2046	Sadaf Zaidi / Syed Farooq Hussain Zedi	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	30, Jagannathpuri Medina Colony, Boring Road, Jhotwara, Jaipur 302012 Rajasthan
UN/RJ/0000670	2047	Wazir Khan / Mohammad Saleem Khan	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Nandanvan Colony, Station Road, In front of Bhagwan Bal School, Pipad Sahar, Jodhpur 342601 Rajasthan
UN/RJ/0000671	2048	Fezan Ahmad / Shamim Ahmad	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Bamba Mohalla, Behind Choti Masjid, Jodhpur 342001 Rajasthan
UN/RJ/0000672	2049	Durgesh Kumar / Gulab Chand	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	E-L-41 Double Story, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000673	2050	Mohammad Taufiq Qureshi / Mohammad Ishaq Qureshi	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 229-B, Vacaf Nagar, Dadabadi Kota 324009 Rajasthan
UN/RJ/0000674	2051	Allah Rakhi Tola / Fayaz Ali Tola	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Jamidaran, Sikar 332001 Rajasthan
UN/RJ/0000675	2052	Nida Khanam / Mohammad Arif Khan	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 5, Ahmad Nagar, Darbar Colony, Delhi Bypass, Idgah Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000676	2053	Mohammad Hussain / Gulab Nabi Khan	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	2- Jh-16, Housing Board, Shastri Nagar, Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000677	2054	Jaim Ahmad / Rafique Ahmad	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	B-88, Teela No. 6A, Jawahar Nagar, Kachi Basti, Ward No.-48, Tehsil & Distt Jaipur 302004 Rajasthan
UN/RJ/0000678	2055	Nafees Miyan / Manju Miyan	BUMS 2014	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Gulzar Bag, Near Kanya Mahavidyalaya, Tonk 304001 Rajasthan
UN/RJ/0000679	2056	Farheen Tabssum / Suhel Iqbal	BUMS 2014	Aligarh Muslim University, Aligarh	Rajkiya Unani Dawakhana, Ghausingo Via Jurhera Near Jama Masjid, Ghausingo Tehsil Pahadi Distt Bharatpur 321023 Rajasthan
UN/RJ/0000680	2057	Resham Khanam / Risaldar	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	49- A, Rahiman Colony, Delhi Bypass Road, Idgah, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000681	2058	Nazreen / Naz Mohammad	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	A- 347, Sanjay Nagar, Bhatta Basti, Shastri Nagar, Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000682	2059	Mohammad Taufiq / Mohammad Sardar	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	78, Nagina Chowk Bhawad Road Raza Masjid Ke Pass, Barani Beliya Nagaur Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000683	2060	Munazir Ali / Firasat Ali	BUMS 2013	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	3/769 Teela No. 3 Jawahar Nagar Jaipur 302004 Rajasthan
UN/RJ/0000684	2061	Farheen Aslam / Mohammad Kamal	BUMS 2013	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	405/1 Mohalla Dakitan Bismillah Road, Basbadanpura Chardarwaja Bahar Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000685	2062	Nizamuddin Mirasi / Saifi Mohammad Mirasi	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Indra Colony, Gaon Khariya Meethapur Tehsil Bilnda Distt Jodhpur Rajasthan
UN/RJ/0000686	2063	Heena Naaz / Banne Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Laganshah Public School Guljarpura Makrana Distt Nagaur Rajasthan
UN/RJ/0000687	2064	Mohammad Imran / Shahid Husain	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	55 Karim Colony, Idgah Delhi Bypass Road, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000688	2065	Sher Mohammad / Musekhan	BUMS 2015	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Village Post Khajusar Ghantiyali Tehsil Falodi Distt Jodhpur 342301 Rajasthan
UN/RJ/0000689	2066	Mohammad Naved / Mohammad Saleem	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 1530, Hava Chakki Mohalla Nasidabad Distt Ajmer 305601 Rajasthan
UN/RJ/0000690	2067	Muzibur Rahman / Shakhwat Hussain	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 46-A, Van Vihar, Kachi Basti Delhi Bypass Road, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000691	2068	Farid Khan / Mohammad Khan	BUMS 2014	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Amla Ki Dhani Shaikhnagar Pipad Shahar Distt Jodhpur 342606 Rajasthan
UN/RJ/0000692	2069	Zubair Ahmad / Abdul Salam	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	7-A, Hida Ki Mori, Syampuri Ramganj Bazar Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000693	2070	Atiq Hussain / Munbbar Hussain	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	381/4, Near H.A.R. Yasiyan Public School, Outside Char Darwaja, Ward No. 56, Jaipur 302004 Rajasthan
UN/RJ/0000694	2071	Aamdin / Ramjan Khan	BUMS 2015	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Nathu Nagar, Post Pipad Road Tehsil Pipadshahar Distt Jodhpur 342606 Rajasthan
UN/RJ/0000695	2072	Imamuddin Mehar / Subban Mehar	BUMS 2015	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Masjid Ki Dhani, Shaikh Nagar Post Pipad Road Tehsil Bhopalgarh Distt Jodhpur 342606 Rajasthan
UN/RJ/0000696	2073	Imran Ahmad / Anis Ahmad	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	92-B. Jaisingh Nagar, Jaisinghpura Khor, Jaipur 302036 Rajasthan
UN/RJ/0000697	2074	Parveen Shaikh / Shafi Mohammad Shaikh	BUMS 2010	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	1174/13 Sanjay Nagar, In front of H.M.T, Khanpur Ajmer 305001 Rajasthan
UN/RJ/0000698	2075	Sadaf Parveen / Mahmood Hasan	BUMS 2015	Jamia Hamdard (Deemed University) New Delhi	Plot No- 3, Near Pratap Nagar Pvt. Bus Stand Kamla Nehru Nagar, Extension-1, Jodhpur 342009 Rajasthan
UN/RJ/0000699	2076	Sageer Ahmad Khan / Abdul Shakil Khan	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University,	307 Meer Ka Bag, Jalupura Jaipur 30201 Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000700	2077	Mukhtiyar Ahmad / Maqsood Ahmad	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Hafiz Dawakhana Hatwada Bazar, Karauli 322241 Rajasthan
UN/RJ/0000701	2078	Mohsin Ahmad / Maqsood Ahmad	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Hafiz Dawakhana Hatwada Bazar, Karuli 322241 Rajasthan
UN/RJ/0000702	2079	Yasar Arafat / Bfati Khan	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Govt Higher Secondary School, Behind Udai Mandir Wali Gali, Distt Jodhpur 342001 Rajasthan
UN/RJ/0000703	2080	Jishan Ali / Imdad Ali	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Gujrati Colony, Behind Bangali Quarter, Kamala Nehru Nagar, Jodhpur Rajasthan
UN/RJ/0000704	2081	Ankit Baswal / Rajkumar Baswal	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Gote Walo Ki Bagichi, Agra Road Transport Nagar, Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000705	2082	Asif Hussain / Talib Hussain	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1/111 Van Vihar Colony Hosing Board, Delhi Bypass, Idgah Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000706	2083	Eman Siddiqui / Ayaz Siddique	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 247, Govind Nagar East Amer Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000707	2084	Nishant Kumar / Kashmi Lal	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	2/325 Housing Board Colony, Near Shiv Mandir, Shriganganagar 335001 Rajasthan
UN/RJ/0000708	2085	Ilnaz Ansari / Mohammad Ansari	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	B- 225, Bhatta Basti, Shastri Nagar, Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000709	2086	Mohsina / Mohammad Iqbal	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Roshanganj, Near Masjid Syed Ali Syed Colony, Ward No. 12- F, Sikar 302001 Rajasthan
UN/RJ/0000710	2087	Nagma Joya / Jishan Ali Joya	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	217 Qureshian Mohalla Oppisite Panch Batti Sikar 332001 Rajasthan
UN/RJ/0000711	2088	Khushnuma Khan / Abdul Rashid Khan	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	4342 Mohalla Chappar Bandh, Ghatgate Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000712	2089	Mohammad Umar / Jahur Navi	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	182, Dhannadas Ki Bagichi, Behind Central Jail, Adrash Nagar, Jaipur 302004 Rajasthan
UN/RJ/0000713	2090	Hifazat Hussain / Nazakat Hussain	BUMS 2014	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	9 Roshan Colony, Idgah Delhi Bypass Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000714	2091	Javed Alam / Lt. Mohmmad Yunus	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	135 Anand Vihar Colony, Babaji Chawani, Dausa 303303 Rajasthan
UN/RJ/0000715	2092	Amanat Ahmad / Jahur Khan	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 96, Kesar Bag, Police Line Kota 324001 Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000716	2093	Farha Parveen / Mohammad Aslam	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No. 3125 Silawat Mohalla, Lakhan Kotdi, Azmer 305001 Rajasthan
UN/RJ/0000717	2094	Manwar Ali / Anwar Ali	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	213 Barkat Colony Road, Falaudi Jodhpur 342301 Rajasthan
UN/RJ/0000718	2095	Jiya A Asmat / Farooq Ahmad	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Near Govt. Secondary School, Kho- Nagoriyan Jagatpura Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000719	2096	Mohammad Asad Khan / Iqbal Mohammad Khan	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Dagiyawas, Jodhpur Rajasthan
UN/RJ/0000720	2097	Sajid Ali Khan / M.B.Khan	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	571/3, Gali No. 8, Out Side Char Darwaja, H.A.R Colony Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000721	2098	Rubeena Khan / Aslam Khan	BUMS 2007	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	House No.-5, Indra Colony, Civil Line Sawai Madhopur Rajasthan
UN/RJ/0000722	2099	Mohammad Asif / Mohammad Hussain	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Qureshiyan Sheth, Noor Mohammad Qureshi Ward No. 31 Sikar 302001 Rajasthan
UN/RJ/0000723	2100	Anam Siddiqui / Nazakat Siddiqui	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	A-475, Sanajy Nagar, Shastri Nagar, Bhatta Basti, Jaipur 302016 Rajasthan
UN/RJ/0000724	2101	Mohammad Zahid Qureshi / Sardar Khan	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1/35 Azad Nagar, Ghat Ki Guni, Jaipur 302004 Rajasthan
UN/RJ/0000725	2102	Rafat Ali / Farzand Ali	BUMS 2016	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	47 Dhanna Das Ki Bagichi Adrash Nagar, Jaipur 302004 Rajasthan
UN/RJ/0000726	2103	Mohammad Asif / Mohammad Hussain	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	152 Maliyo Ka Mohalla Ward No. 21, Sikar Rajasthan
UN/RJ/0000727	2104	Mohammad Shah Alam Saifi / Issaq Mohammad Shaifi	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 52, Madina Colony, Jhotwara Distt Jaipur 302012 Rajasthan
UN/RJ/0000728	2105	Mohammad Nadeem / Mohammad Khalid	BUMS 2013	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	R/o Naya Mohalla, Near Salarpeer Dargah, Basani Naugar Rajasthan
UN/RJ/0000729	2106	Mohammad Izaz / Mohammad Iliyas	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	A- 22, Gandhi Vihar Khongoriyan, Jaipur 302031 Rajasthan
UN/RJ/0000730	2107	Umar Khan / Mohammad Iqbal	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Near Vagor Wali Masjid, Chatikana Bazar, Kakrauli 322241 Rajasthan
UN/RJ/0000731	2108	Murshad / Ehsan Ali	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1567, Mahroki Nadi Chaukadi, Ramchandra Ki Subhash Chowk, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000732	2109	Rizwan Ali / Safdar Ali	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University,	House No. 3732, Sirkigaro Ka Mohalla, Panchwa Chauraha, Kalyanji Ka

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000733	2110	Abdul Azim / Abdul Matin	BUMS 2015	Jodhpur Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Rasta, Chandpol Ward No. 62, Jaipur, Rajasthan 83 Ramnagar, Shastri Nagar, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000734	2111	Aman Khan / Tajjan Khan	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	152 Road No. 2, Idgah Kachi Basti, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000735	2112	Faheem Mohammad / Chhote Ali	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1057 Vijay Nagar, Lankapuri Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000736	2113	Shamina Bano / Mohammad Rafique Abbasi	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Abbasi Memorial Hospital, Mohalla Baroodgaran, Nawalgarh Distt Jhunjhunu Rajasthan
UN/RJ/0000737	2114	Mohammad Imran / Mohammad Ismail	BUMS 2016	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No- 24714 Meethi Kothi Ka Rasta, Teeba Purviyan Surajpol Bazar, Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000738	2115	Mohammad Ilyas Chauhan / Mohammad Shafi Chauhan	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Mohalla Roshanganj, Ward No. 1 Opposite Abujar Masjid, Sikar 302001 Rajasthan
UN/RJ/0000739	2116	Sarfaraz Khan / Yasin Khan	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1104 Janata Darwaja Pakhar Road Mandawa Mahua Dausa 321609 Rajasthan
UN/RJ/0000740	2117	Mohammad Rizwan / Mohammad Yunus	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1491 Balaji Ki Kothi Ka Rasta Near Bhistiya Ki Masjid, Ghatgate Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000741	2118	Mohammad Muzahid Ul Islam / Mohammad Azhar Ul Islam	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	House No- 390- A, Qazi Ka Nala, Ghatgate Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000742	2119	Dilshad Ahmad / Azaz Ahmad	BUMS 2015	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	117 Adrash Mohalla Ghasmandi Patang Market Jodhpur 342001 Rajasthan
UN/RJ/0000743	2120	Sharik Khan / Aaga Shahnawaz khan	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	91 Van Vihar Colony, Idgah Delhi Bypass Road, Jaipur 302002 Rajasthan
UN/RJ/0000744	2121	Chaudhary Shazia / Chaudhary Mohammad Mobbshir	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1567 Khachriyavas House Gangapol Gate, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000745	2122	Bushra Khan / Azaz Anwar Khan	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot N0-20 Mohammad Ilyas Ahmad Shamshi, Barkat Colony, Gangapol Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000746	2123	Mohammad Farooq / Munwar Hussain	BUMS 2013	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	K-18, Amritpuri Colony, Ward N0-15, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000747	2124	Arifa Siddiqui / Irfanullah Siddiqui	BUMS 2010	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Abdul Ateef Khan 97/35 Khaniya Bandha Agra Road, Jaipur, Rajasthan
UN/RJ/0000748	2125	Mohammad Sabir Khan / Sher Mohammad Khan	BUMS 2014	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	C-156 Old Vidyadhar Nagar, Oppsite Bus Stand, Jaipur 302039 Rajasthan

Central Register Number	State Registration Number	Name / Father's Name	Qualification & Passing year	Name of University	Address
UN/RJ/0000749	2126	Mohammad Shoeb Khan / Abdul Halim Khan	BUMS 2015	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	107, Oppsite Mohit School Main Gate, Adrash Colony, Ward N.- 25 Nimaheda Chittorgarh 312601 Rajasthan
UN/RJ/0000750	2127	Abdul Rauf / Abdul shakur	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	5435 K.G.N Ka Rasta, Jauhari Bazar, Jaipur 302003 Rajasthan
UN/RJ/0000751	2128	Shaheen Parveen / Rafique Ahmad	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Vyas Near Petrol Pump, Mangrol Tehsil And Distt Baran 325215 Rajasthan
UN/RJ/0000752	2129	Saddam Baig / Azaz Baig	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Vyas Ki Gali Chatkana Karauli Rajasthan
UN/RJ/0000753	2130	Iqbal Alam / Akil Alam	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Nasim Clinic, Nagauri Puliya Lalsot Road, Dausa 303303 Rajasthan
UN/RJ/0000754	2131	Mohammad Umar / Akhtar Ali	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 9/2 Roshan Colony, Puliya No. -2, Idgah Delhi Baypass Jaipur -302003 Rajasthan
UN/RJ/0000755	2132	Rakesh Kumar Sharma / Radha Raman Sharma	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Village Post Sikrori Tehsil Kumher Distt Bharatpur 321201 Rajasthan
UN/RJ/0000756	2133	Mohammad Ismail / Nasir Mohammad	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	16 Ragniyon Ka Baas, Near S.P Office , Nawal Khan Road, Pauli Marwad 306401 Rajasthan
UN/RJ/0000757	2134	Asad Ahmad / Zahir Ahmad	BUMS 2015	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Khamori Ki Gali, Panch Batti, Ward No.-29, Distt Tonk 304001 Rajasthan
UN/RJ/0000758	2135	Sarfuddin / Bundu Khan	BUMS 2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Plot No. 248- C, Panch Neem Bansbadanpura Distt - Jaipur -302002 Rajasthan